


# “सर सप्तक के कवियों की काल्य-भाषा”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध



निर्देशक—

२१५९८९२१६  
डॉ राम कमल राय

(पूर्व प्राध्यापक)

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

शोध कर्ता—

तीर्थ राज राय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

2002

## प्राकृकथन

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित सातो कवि—भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास और शकुन्तला माथुर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक सृजनशील बने रहे। यद्यपि बाद के दोनों कवि हरिनारायण व्यास और शकुन्तला माथुर अपनी रचना—धर्मिता के माध्यम से कोई नया महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत नहीं कर सके। फिर भी इनमे प्रारम्भ के दिनों मे एक सम्भावना तो दिखी ही थी, जिसके नाते ‘दूसरा सप्तक’ मे वे अपनी जगह बनाने मे सफल रहे थे। इनमे से एक मात्र जीवित कवि हरिनारायण व्यास आज भी रचनाशील बने हुए हैं।

नयी कविता अथवा ‘दूसरा सप्तक’ के कवियों की काव्य—भाषा का जब हम जिक करते हैं तो पुराने बहुत से मानदण्ड कोई अधिक अर्थ नहीं रखते। जैसे—अलकार, रस, छन्द आदि। किन्तु पारम्परिक शब्दावली मे यदि हम कहे तो शब्द शक्तियों का एक सीमा तक उपयोग किया जाता है, जैसे— अभिधा, लक्षणा और व्यजना। छायावादी काव्य के सन्दर्भ मे तो इन शब्द शक्तियों का बहुत अधिक अर्थ था। किन्तु ‘दूसरा सप्तक’ तक आते—आते ये मानदण्ड पुराने और अप्रासादिक से हो जाते हैं। इन कविताओं को प्रतीक, बिम्ब और मिथक की शब्दावली मे देखा परखा जाता है। इसमे भी सबसे अधिक सामर्थ्य बिम्ब की ही मानी जाती है।

‘दूसरा सप्तक’ के कवि इस अर्थ मे विशिष्ट हैं कि इनमे से प्रत्येक की काव्य—भाषा दूसरे से काफी भिन्न है। नरेश मेहता की काव्य—भाषा मे कमश मिथकीयता बनती जाती है। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनेक मिथकों का वे प्रयोग करते हैं, साथ ही उनकी काव्य—भाषा मे एक प्रकार की प्रार्थनामयता और वानस्पतिक चेतना दिखती है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनकी काव्य—सवेदना के परिसर

मे छूबता—उतराता है। इसीलिए प्राचीन मिथक और बिम्ब उनकी काव्यभाषा के अभिन्न अग है। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा, सरल, सीधी और प्रवाहमयी है, किन्तु उनकी व्यजनाएँ गहरी हैं। वे मिथको मे तो नहीं जाते, किन्तु अपने वर्तमान को प्रकृति और जीवन से निरन्तर समृद्ध करते हुए ऋजु भाषा का निर्माण करते हैं। रघुवीर सहाय की भाषा भी बहुत सरल, सीधी और अखबारी है। किन्तु उसमे भी गहरी व्यजनाएँ हैं और वर्तमान जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ उसमे बहुत ही सहज ढग से व्यजित की जाती है। शमशेर बहादुर सिंह की भाषिक सवेदना बहुत जटिल है। उनकी काव्य—भाषा मे एक ऐसा इन्द्र जाल है, जिसे पाठक को अपनी चेतना मे उतारना बहुत सरल नहीं होता। उनकी काव्य—भाषा अपनी बिम्बात्मकता और 'झकृति' के लिए जानी जाती है। इसमे एक रेशमी सलवटो की बुनावट होती है जो चेतना मे बहती चली जाती है। भारती की काव्य—भाषा मे कही अवरोधक तत्व नहीं होता है। न तो उर्दू हिन्दी जैसा कोई भेद होता है और न ही तदभव तत्सम का। शकुन्तला माथुर और हरिनारायण व्यास की 'दूसरा सप्तक' की कविताएँ स्तरीय हैं और उनकी भाषा भी अपनी विशिष्टताएँ लिए हुए हैं।

प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध के विषय, 'दूसरा सप्तक' के कवियों की काव्य—भाषा, चयन से लेकर इसके पूरा होने तक, इस शोध—प्रबन्ध के निर्देशक और मेरे गुरुवर डॉ रामकमल राय द्वारा दिये सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अथवा कृतज्ञता व्यक्त करना मुझे औपचारिक—सा लग रहा है, क्योंकि बिना उनके उचित निर्देशन के इस शोध—प्रबन्ध को पूरा करना मेरे लिए सम्भव ही नहीं था। हाँ, अपने विभाग के दो वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो० सत्यप्रकाश मिश्र और प्रो० राजेन्द्र कुमार जी का मैं जरूर आभारी हूँ जिनका जाने—अनजाने सहयोग मुझे समय—समय पर मिलता रहा है। अपने मित्रो प्रवेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, आनन्द प्रकाश सिंह, उमेश सिंह, अजय त्रिपाठी और 'दादा' तथा घनश्याम

राय के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों का प्रोत्साहन, इस शोध-प्रबन्ध के पूरा होने तक, बराबर मिलता रहा है। अपनी पडोसिन डॉ० निशा श्रीवास्तव का भी मैं आभारी हूँ जिनके रोज-रोज के तकाजे ने, इस शोध-प्रबन्ध के जल्दी पूरा होने में कही न कही मदद जरुर की है। अपने एक और मित्र श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जिनका न केवल मुझे प्रोत्साहन मिला बल्कि इस शोध-प्रबन्ध के लिए उनके द्वारा आर्थिक मदद भी की गयी।

अपने पिता जी, श्री देवप्रभाकर राय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, महज औपचारिकता होगी। जिसके लिए मेरा अन्तर्मन गवाही नहीं दे रहा है। उनके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन और इलाहाबाद के इस लम्बे प्रवास के दौरान अनवरत दी गयी आर्थिक सुरक्षा ने मुझे मानसिक रूप से तनाव मुक्त रखा, जिसके कारण ही यह शोध-प्रबन्ध पूरा हो सका। अपने परिवार के अन्य सदस्यों भैया, भाभी और छोटे भाई का भी आभारी हूँ जिनका प्रोत्साहन बराबर मिलता रहा। मैं अपनी जीवन-सगिनी श्रीमती शालिनी राय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल इस शोध-प्रबन्ध के लिखने में मेरी मदद की बल्कि मुझे कई पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त रखा।

मैं राजेन्द्र कम्प्यूटर सेन्टर के पिन्टू का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग-पूर्ण व्यवहार ने इस शोध-प्रबन्ध को तैयार करने में काफी मदद की है।

इस शोध-प्रबन्ध के लिए अध्ययन सामग्री मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय और हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा इलाहाबाद संग्रहालय से भी प्राप्त की है, इसके लिए मैं इन संस्थानों के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बस इतना ही।

दिनांक —

15 10 2002

तीर्थराज राय

## अनुक्रमणिका

अध्याय		पृष्ठ संख्या
एक	— प्रस्तावना	5—25
दो	— नरेश मेहता <u>औपनिषदिक विम्ब लोक की भाषा</u>	26—62
तीन	— रघुवीर सहाय <u>समाचार भाषा की काव्यमयता</u>	63—92
चार	— शमशेर बहादुर सिंह <u>काव्य—भाषा की झकृतियाँ</u>	93—125
पाच	— भवानी प्रसाद मिश्र जिस तरह हम बोलते हैं/उस तरह तू लिख	126—147
छ	— डॉ धर्मवीर भारती <u>भाषिक कमनीयता</u>	148—174
सात	— उपसहार	175—184
	 <u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची</u>	 185—191

सत्यार्थी - १

प्रकाशनी

शताब्दी के तीसरे दशक के अन्त में हिन्दी के कवियों में छायावाद के भाव तत्त्व और रूप आकार दोनों के प्रति एक प्रकार का अस्तोष सा उत्पन्न हो गया था। और धीरे—धीरे यह धारणा दृढ़ होती जा रही थी कि छायावाद की वायवी भाव—वस्तु और उसी के अनुरूप अत्यन्त बारीक तथा सीमित काव्य—सामग्री एवं शैली—शिल्प आधुनिक जीवन को अभिव्यक्त करने में सफल नहीं हो सकते। निसर्गत उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। भाव—वस्तु में छायावाद की तरल अर्मूत अनुभूतियों के स्थान पर एक ओर व्यवहारिक सामाजिक जीवन की मूर्त अनुभूतियों की माग हुई तो दूसरी ओर सुनिश्चित बौद्धिक धारणाओं का जोर बढ़ा। और शैली—शिल्प में अत्यन्त सूक्ष्म कोमल काव्य—सामग्री के स्थान पर विस्तृत जीवन की मूर्त—संघन काव्य—सामग्री को आग्रह के साथ ग्रहण किया गया। इसी को दूसरे शब्दों में कहे तो — अब काव्य में कल्पना का समारोह कम हो गया, आध्यात्मिकता क्षीण सी हो गयी, ईश्वर गायब हो गया, संस्कृतनिष्ठ भाषा के मोहब्बन्ध से भी काव्य को दूर तक मुक्ति मिल गयी।

आरम्भ में इस प्रतिक्रिया का एक समवेत रूप ही दिखाई देता था। कुछ ही वर्षों में इन कवियों के दो पृथक वर्ग हो गये— एक वर्ग सचेत होकर निश्चित समाजिक, राजनीतिक प्रयोजन से साम्यवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति को अपना परम कवि कर्त्तव्य समझकर रचना करने लगा। दूसरे वर्ग ने सामाजिक राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक रहकर भी अपना साहित्यिक व्यक्तित्व बनाये रखा। उसने किसी राजनीतिकवाद का दायरा स्वीकार नहीं किया, बल्कि काव्य की वस्तु और शैली—शिल्प को नवीन प्रयोगों द्वारा आज के अनेक रूप, अस्थिर चिर—प्रयोगशील जीवन के उपर्युक्त बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। पहले वर्ग को हिन्दी में प्रगतिवादी और दूसरे को प्रयोगवादी का नाम दिया गया।

प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में छायावाद की शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया तो थी ही साथ ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों भी सहायक हुई थी। एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जन सकट था तो दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद था, जो वहाँ के विषम सकट और सघर्ष से गुजरे जन-जीवन को बल दे रहा था। भारतीय वृद्धिजीवी एक ओर अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विस्गतियों और सकटों को देख रहा था, तो दूसरी ओर वह रूस के उस समाज को देख रहा था जो इन विस्गतियों और सकटों से गुजर कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहा था जिसमें सामान्य जन-जीवन को महत्ता प्राप्त हो रही थी।

प्रयोगवादी कविता का मूल तत्व स्वाभवत ही काव्य-विषयक प्रयोग अथवा अन्वेषण है। इस वर्ग के कवियों का विश्वास है कि जीवन की तरह ही काव्य भी एक चिर-गतिशील सत्य है, जिसकी वास्तविक साधना शोध, अन्वेषण एवं प्रयोग हैं। अतएव वस्तु और शैली दोनों ही के क्षेत्रों में ये काव्य के पूर्ववर्ती उपादानों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और नवीन उपकरणों को आग्रह पूर्वक ग्रहण करते हैं। इसी प्रयोगवादी कविता के अगुआ रहे-अज्ञेय।

‘प्रयोगवाद’ शब्द का प्रयोग सबसे पहले नन्द दुलारे वाजपेयी वे अपने एक निबन्ध ‘प्रयोगवादी रचनाएँ’ में किया है। इस निबन्ध में मुख्यतः ‘तार सप्तक’ की समीक्षा की गयी है। उन्होंने लिखा है “‘पिछले कुछ समय से हिन्दी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएँ हो रही है, जिन्हे किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है।’” यद्यपि अज्ञेय जी ने ‘दूसरा सप्तक’ की भूमिका में वाजपेयी जी का उत्तर देते हुए ‘तार सप्तक’ की रचनाओं को ‘प्रयोगवादी’ कहना स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने लिखा है— “प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, नहीं है। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य

है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई भी वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अत वहमे 'प्रयोगवादी' कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमे 'कवितावादी' कहना'।

(‘दूसरा सप्तक’ ‘भूमिका’ स० अङ्गेय पृष्ठ-6)

इसी ‘भूमिका’ में ‘तार सप्तक’ के कवियों पर लगाये गये एक और आरोप, कि इन कवियों ने साधारणीकरण का सिद्धान्त नहीं माना है, का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि— “तारसप्तक” के कवियों पर यह आक्षेप किया गया कि वे साधरणीकरण का सिद्धान्त नहीं मानते। यह दोहरा अन्याय है। क्योंकि वे न केवल इस सिद्धान्त को मानते हैं बल्कि इसी से प्रयोगों की आवश्यकता भी सिद्ध करते हैं।”

(‘दूसरा सप्तक’—‘भूमिका’— पृष्ठ-8)

आगे वह भाषा और शब्द तथा उसके अर्थ के सम्बन्ध पर बात करते हुए लिखते हैं— “जरा भाषा के मूल प्रश्न पर—शब्द और उस के अर्थ के सम्बन्ध पर—ध्यान दीजिए। शब्द में अर्थ कहाँ से आता है, क्यों और कैसे बदलता है, अधिक या कम व्याप्ति पाता है? शब्दार्थ—विज्ञान का विवेचन यहाँ अनावश्यक है, एक अत्यन्त छोटा उदाहरण लिया जाये। हम कहते हैं ‘गुलाबी’ और उससे एक विशेष रग का बोध हमे होता है। निस्सन्देह इसका अभिप्राय है गुलाब के फूल के रग—जैसा रग, यह उपमा उसमे निहित है। आरम्भ मे ‘गुलाबी’ शब्द से उसे उस रग तक पहुँचने के लिए गुलाब के फूल की मध्यस्तता अनिवार्य रही होगी, उपमा के माध्यम से ही अर्थ लाभ होता रहा होगा। उस समय यह प्रयोग चमत्कारिक रहा होगा पर अब वैसा नहीं है। अब हम शब्द से सीधे रग तक पहुँच जाते हैं, फूल की मध्यस्थता अनावश्यक है। अब उस अर्थ का चमत्कार मर गया है, अब हो अभिधेय हो गया है, और अब इससे भी अर्थ मे कोई बाधा नहीं होती कि हम जानते हैं, गुलाब कई रगों का होता है—सफेद, पीला, लाल

यहाँ तक कि लगभग काला तक। यह किया भाषा मे निरन्तर होती रहती है और भाषा के विकास की एक अनिवार्य किया है। चमत्कार मरता रहता है और चमत्कारिक अर्थ अभिधेय बनता रहता है। यो कहे कि कविता के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है— वह शब्दों को निरन्तर नया सस्कार देता चलता है और वे सस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस मे पैठ कर फिर ऐसे हो जाते है कि — उस रूप मे—कवि के काम के नहीं रहते। ‘बासन धिसने से मुलाम्मा छूट जाता है।’ कालिदास ने जब रघुवश मे कहा था—

“वागर्थाविव सपुक्तौ वागर्थं प्रतिपत्तये ।

जगत् पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥”

इस बात को उन्होने समझा था और इसीलिए वाक् मे अर्थ की प्रतिपत्ति की प्रार्थना की थी। जो अभिधेय है, जो अर्थ वाक् मे है ही, उस की प्रतिपत्ति की प्रार्थना कवि नहीं करता। अभिधेयार्थ युक्त शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है, ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उस मे भर सके, उसमे जीवन डाल सके।”

(‘दूसरा सप्तक’ ‘भूमिका’ पृष्ठ—9—10)

प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध मे ‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित सातो कवियो की काव्य—भाषा के साथ ही उनकी काव्य सवेदना पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है। इस कोशिश मे शोध—कर्ता कहाँ तक सफल हुआ, यह विवेच्य हो सकता है। इस शोध—प्रबन्ध मे पाच कवियो रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, डा० धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र—पर पाँच अलग—अलग अध्याय मे उनकी भाषिक विशिष्टताओं का विस्तार से अध्ययन किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि इन सबकी सारी की सारी विशिष्टिता इस शोध—प्रबन्ध मे आ ही गयी हो, यद्यपि कोशिश यही रही हैं। ‘दूसरा सप्तक’ के शेष दो कवियो शकुन्तला माथुर और हरिनारायण व्यास पर अलग से कोई

अध्याय न देकर इसी प्रस्तावना मे ही आगे उनकी काव्य—सवेदना और भाषिक—विशिष्टता पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा करने के पीछे कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा है बल्कि इन दोनों कवियों का सृजनात्मक फलक बहुत दूर तक न रहना, रहा है।

‘दूसरा सप्तक’ की ‘भूमिका’ मे अज्ञेय जी ने इन सातो कवियों की भाषिक सरचना को रेखांकित करते हुए लिखा है—“यद्यपि सब कवियों मे भाषा का परिमार्जन और अभिव्यक्ति की सफाई एक सी नहीं हैं और अटपटेपन की झाकी न्यूनाधिक मात्रा मे प्रत्येक मे मिलेगी, तथापि सभी को ऐसी उपलब्धि हुई है जो प्रयोग को सार्थक करती है। ‘प्रयोग के लिए प्रयोग’ इनमे से भी किसी ने नहीं किया है, पर नयी समस्याओं और नये दायित्वों का तकाजा सबने अनुभव किया है और उसी से सबको प्रेरणा मिली है। ‘दूसरा सप्तक’ नये हिन्दी काव्य को निश्चित रूप से एक कदम आगे ले जाता है और कृतित्व की दृष्टि से लगभग सूने आज के हिन्दी क्षेत्र मे आशा की नयी लौ जगाता है। ये कवि भी विरामस्थल पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनके आगे प्रशस्त पथ है और एक आलोकित क्षितिज—रेखा। गुप्त, ‘प्रसाद’, ‘निराला’, ‘पन्त, महादेवी, ‘बच्चन’, ‘दिनकर’, इस सूची को हम आगे बढ़ायेगे तो निस्सन्देह ‘दूसरा सप्तक’ के कुछ कवियों का उल्लेख उसमे होगा। और, फुटकर कविताओं को ले तो, जैसा कि हम ऊपर भी कह आये हैं, एक जिल्द मे सख्या मे इतनी अच्छी कविताएँ इधर के प्रकाशनों मे कम नजर आयेगी।

(‘दूसरा सप्तक’ ‘भूमिका’ पृष्ठ-12)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित प्राय सभी कवियों ने अपने—अपने वक्तव्यों मे अपनी कविता और उसकी भाषिक सरचना पर कुछ न कुछ कहा है भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने ‘वक्तव्य’ मे लिखा है—“कवि और कविता के बारे मे जितनी बाते प्राय कही और लिखी जाती हैं, उनके आस—पास जो प्रकाशमण्डल खीचा

जाता है और उन्हे जो रोजमर्रा मिलने वाली आदमियों और उनकी कृतियों से कुछ अलग स्वभाव, प्रेरणाओं और सामर्थ्यों की चीज माना जाता है, वैसा कम से कम अपने बारे में मुझे कभी नहीं लगा तो हो सकता है कि मैं कवि ही न होऊँ।

वर्द्धस्वर्थ की एक बात मुझे पटी कि 'कविता की भाषा यथा सम्भव बोल चाल के करीब हो।' तत्कालीन हिन्दी कविता की इस ख्याल से विल्कुल दूसरे सिरे पर थी। तो मैंने जाने—अनजाने कविता की भाषा सहज ही रखी। 'दूसरा सप्तक' की मेरी कविताएँ मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएँ नहीं हैं। जगह की तरीके सोचकर मैंने छोटी—छोटी कविताएँ ही इसमें दी हैं। 'आशागीत', 'दहन—पर्व', 'अश्रु और आश्वास', 'बधा सावन' और ऐसी अन्य लम्बी कविताएँ अगर पाठकों के सामने पेश कर सकता तो ज्यादा ठीक अन्दाज उनसे लगता। बहुत मामूली रोजमर्रा के दुख—सुख मैंने इनमें कहे हैं, जिनका एक शब्द भी किसी को समझाना नहीं पड़ता। "शब्द टप—टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से।" बेशक 'भूल से' ही यह सब मेरे हाथों बन पड़ता है क्योंकि कभी दर्शन, वाद या जिसे टेकनीक कहते हैं, मैंने नहीं सोचा। बहुत से ख्याल अलबत्ता मेरे हैं, मगर मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोगों के ख्याल भी तो वही है—वे अमल भले ही उन ख्यालों के मुताबिक न करते हो। दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी का और टेकनीक में सहज—लक्ष्य ही मेरे बन जाये, ऐसी कोशिश है।"

(‘दूसरा सप्तक’ ‘वक्तव्य’ पृष्ठ-21)

शमशेर बहादुर सिंह अपने ऊपर पड़े अन्य लोगों के प्रभावों की चर्चा करते हुए लिखते हैं—“आठवीं के कोर्स में टेनिसन की 'लोटस ईंटर्स' कविता थी, एक मजबूर मादक उदासी की चीज। डी०ए०वी० कालेज देहरादून में प० हरिनारायण मिश्र ने पहले—पहल अँगरेजी कविता के उदात्त सौन्दर्य से मुझे परिचित किया और शीघ्र ही टेनिसन मेरा आदर्श बन गया, और हाईस्कूल

पहुँचते—पहुँचते साथ ही साथ, इकबाल भी। तभी ‘परिमिल’ और ‘मतिराम ग्रन्थवाली’ के बहाने हिन्दी के नये पुराने काव्य रस का कुछ स्वाद चखा। ठाकुर पर लिखी एडवर्ड टामसन की पुस्तक ने मेरे सामने कविता की जैसे एक दुनिया का द्वार खोल दिया। उस के बाद बहुत मुद्दत तक ‘निराला’ का ‘रवीन्द्र कविता कानन’ मेरी अत्यधिक प्रिय पुस्तक रही।

‘इलाहाबाद’ युनिवर्सिटी मे आया तो केदार, नरेन्द्र और वीरेश्वर का साथ मिला, साथ ही कविता की तरफ नया उत्साह। उस समय हमारे भावुक हृदयों मे, मैं समझता हूँ, पन्त और महादेवी की कविता एक तूफान की तरह आयी। सन् 33 मे मैंने बडे परिश्रम से ‘परिमिल’ को समझने के लिए नोट तैयार किये। हाली, इकबाल और फानी को खास शौक से पढ़ा। गजले भी कहना शुरू की। एक बार क्लास मे इलियट और कमिंग्स की दो—एक मशहूर कविताएँ पढ़कर सुनायी गयी खोखले लोग, लाल मोरचा। सन् 34 की बात है। उन्होने मुझे कविता मे एक विस्तार, एक नयी युक्ति—सी और जीवन के नाटक तत्व का आभास दिया। टेक्नीक मे एजरा पाउण्ड शायद मेरा सबसे बड़ा आर्दश बन गया।”

(“दूसरा सप्तक” पृष्ठ—83—84)

आगे इसी ‘वक्तव्य’ के ‘पृष्ठभूमि’ उपशीर्षक मे अपनी कविता की भाषिक—सरचना और उसकी बनावट को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं— “अपनी कविता मे मेरी खास कोशिश यह रही है कि हर चीज की, हर भावना की जो एक अपनी भाषा होती है, जिसमे वह कलाकर से बाते करती है, उसको सीखूँ। इस तरह की कोशिश जहाँ—जहाँ भी कामयाब होती देख सका, मैंने उससे असर लिया, ज्यादातर अँगरेजी की मौजूदा कविता से, खास तौर से टेक्नकी मे।

मेरी भावनाओं पर सबसे गहरा असर पड़ा है परिमिल और अनामिका का। पन्त ने भी मुझे पहले—पहल कविता की भाषा दी। उर्दू की गजलियत और

उलझे हुए भावो की सपनो की—सी चित्रकारी और कुछ चलती हुई लयो और इधर आकर बात—चीत के लहजो और उसके उतार—चढ़ाव को भी मैंने अपनी कविता के रूप और छन्द का आधार बनाना चाहा है।”

(‘दूसरा सप्तक’ ‘वक्तव्य’ पृष्ठ-85)

नरेश मेहता ने यद्यपि ‘दूसरा सप्तक’ के लिए लिखे अपने वक्तव्य में अपनी भाषिक सरचना पर कोई खास प्रकाश नहीं डाला है। फिर भी खुद पर की गयी उनकी एक टिप्पणी से उनके कवि व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। “नरेश मूलत दो तरह का आदमी है एक तो हर आदमी से दोस्ती करना, पर समाज से बहुत दूर रहना। दूसरे, हर चीज को पीछे छोड़कर चलते जाना, आगे और आगे। आज वह जिस जगह है, छोड़कर चलते जाना, आगे और आगे। आज वह जिस जगह है, वह उसे जहर लगती है।

उसे दो बाते प्रिय रही है। पहली तो यह कि वह वैसा ही धूमता रहे जैसा कि उसने बचपन में खानाबदोश लुहारो को अपने बैलों की घण्टियाँ बजाते हुए विन्ध्य की घाटियों में धूमते हुए देखा। क्योंकि उसे एक सजे हुए कमरे से कहीं अधिक किसी तम्बू में केवल पड़े रहना और कुहरे को देखना ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी यह कि वह लिखे और, आग लिखे।”

(‘दूसरा सप्तक’ – पृष्ठ-109)

रघुवीर सहाय अपने ऊपर पड़े विल्कुल प्रारम्भिक प्रभावों की चर्चा करते हुए लिखते हैं— “साहित्य—अध्यापक पिता की धर्मभीरुता, सादगी और सहृदयता का मुङ्ग पर गहरा असर पड़ा। यह मैं नहीं कह सकता कि कला के लिए अपनी रुचि मैंने किस एक व्यक्ति से पायी, मगर यह शायद सच है कि पिता की सादगी और केशव तथा ‘हरिओंध’ के साहित्य के प्रति उनकी अरुचि से मैंने बहुत प्रेरणा पायी।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—137)

आगे वे लिखते हैं—“आधुनिक कवियो मे ‘अज्ञेय’ और शमशेर बहादुर ने जिनकी बौद्धिक आत्मानुभूति और बोधगम्य दूरुहता किसी हद तक एक ही—सा प्रभाव डालती हैं मुझे अपनी आगामी रचनाओ के लिए काफी तैयार किया है।

कोशिश तो यही रही है कि सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहा जाये और वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझा जाये। वास्तविकताओ की ओर ऐसा ही दृष्टिकोण रहना चाहिए और यही जीवन को स्वस्थ बनाये रख सकता था। शमशेर बहादुर का यह कहना मुझे बराबर याद रहेगा कि जिन्दगी मे तीनो चीजो की बड़ी जरूरत है आक्सीजन, मार्क्सवाद और अपनी वह शक्ति जो हम जनता मे देखते हैं । मैंने अपनी कविता के इस चरण तक पहुँचते—पहुँचते शैली मे ताल और गति के कुछ प्रयोग कर पाये है। ताल को साधारण बोलचाल की ताल के जैसा बनाने मे कुछ कविताओ मे जैसे ‘अनिश्चय’ और ‘मुहँ अँधेरे’ तथा ‘दुघर्टना’ मे थोड़ी बहुत सफलता मिली है। हलॉकि उस कोशिश मे भी कही—कही उदृू की गति की बँधी हुई शैली का सहारा लेना पड़ा है। भाषा को भी साधारण बोलचाल की भाषा के निकट लाने की कोशिश रही है, मगर उसमे भी भाषा की फिजूल खर्ची करनी पड़ी ।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—138)

डॉ० धर्मवीर भारती अपने बारे मे लिखते है—“लिखना वी० ए० से शुरू किया और छपना तो बहुत लेट। दो चीजो की बेहद प्यास है। एक तो नयी—नयी किताबो की ओर दूसरी अज्ञात दिशाओ मे जाती हुई लम्बी, निर्जन, छायादार सड़को की। सुविधा मिले तो जिन्दगी पर धरती की परिकमा देता जाऊँ। मुक्त हसी, ताजे फूल और देश—विदेश के लोक—गीत बहुत पसन्द हैं।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—157)

आगे वे लिखते हैं— “भारती का मन कविता में ही रमता है। क्योंकि कविता के माध्यम से ही भारती आज की बेहद पिसी हुई सघर्षपूर्ण, कटु और कीचड़ में बिल बिलाती हुई जिन्दगी के भी सुन्दरतम् अर्थ खोज पाने में समर्थ रहा है। कविता ने उसे अत्यधिक पीड़ा के क्षणों में विश्वास और दृढ़ता दी है। कविता भारती के लिए शान्ति की छाया और विश्वास की आवाज रही है। बचपन में जबसे उसने अँगरेजी सीखी तभी से वह समुद्री कविताओं, साहसी नाविकों और समुद्री लुटेरों की कहानियों के पीछे पागल रहता था। जब उसकी चेतना ने पख पसारे तब छायावाद का बोल बाला था। उसे लगा कि कविता की शहजादी इन अपार्थिव कल्पनाओं, टेढ़े—मेढ़े शब्द जालो, अस्पष्ट रूपको और उलझे हुए जीवन—दर्शन की शिलाओं से बधी उदास जल—परी की तरह कैद है और भारती को चाहिए कि वह उसे उन्मुक्त कर सर्वथा मानवीय धरातल पर उतार लाये ताकि वह फैली—फैली चॉदी की बालू पर आदम की सन्तानों के साथ बेहिचक आख मिचौनी खेल सके, उन के सीधे—साधे सुख—दुख, वासनाओं कामनाओं को समझ सके, उन्हीं की बोली में बोल सके। इसलिए भारती ने सबसे पहले लिखे सरलतम भाषा रग—बिरगी चित्रात्मकता से समन्वित साहसपूर्ण उन्मुक्त रूपोपासना और उद्दाम यौवन के सर्वथा मासलगीत, जो न तो मन की प्यास को झुठलाये और न उसके प्रति कोई कुण्ठा प्रकट करे, जो सीधे ढग से पूरी ताकत से अपनी बात आगे रखे। आदमी की सरल और सशक्त अनुभूतियों के साथ—साथ निभर खेल सके, बोल सके।

यो कविता में भारती के पास तूलिका है और वह तारों से रोशनी और फूलों से रग चुरा कर बात—बात पर चित्र बनाती चलती है। शायद उस की कविता—शैली पिछले जन्म में मिश्र देश की राजकुमारी रही होगी, जिनकी लिपि का हर अक्षर ही एक सार्वांग—सम्पूर्ण चित्र होता था। लेकिन भारती को इस बात का ध्यान रहता है कि उस के चित्र आपस में उलझने न पाये और कुल

मिलाकर अपनी बात को पूरे प्रभाव के साथ रखे। भाषा के प्रश्न को भारती ने अधिक महत्व नहीं दिया। भाषा भाव की पूर्ण अनुगामिनी रहनी चाहिए, बस। न तो पत्थर का ढोका बनकर कविता के गले में लटक जाये और न रेशम का जाल बनकर उसकी पॉखो में उलझ जाये।

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—158, 59—160)

शकुन्तला माथुर अपनी कविता और उसकी भाषिक सरचना को स्पष्ट करती हुई लिखती है— “बचपन से तुकबन्दी और गाने लिखने का शौक था, जिनकी सार्थकता पारिवारिक समारोहों तक ही रही। आरम्भकाल की कुछ रचनाएँ साप्ताहिक ‘अर्जुन’ तथा अन्य छोटे-मोटे पत्रों में अनजाने ही प्रकाशित करा दी थीं। अपने को कवि तथा अपनी रचनाओं को काव्य मानने की गलती बहुत समय तक नहीं की। आज भी कवि की पदवी स्वीकार करने में अत्यधिक सकोच है—कुछ अजीब—सा लगता है।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—43)

आगे वे लिखती है—“काव्य रचना मैंने अपने ही आप को सन्तुष्ट करने के लिए की थी—एकदम स्वान्त सुखाय। इसलिए न उसमें किसी विशेष विचार—धारा, आर्दश, टेक्नीक, साहित्यिकता, भाषा और भावना की कलात्मकता का विचार उठा, न मुझे प्रचलित विवादों का दृष्टिभेद ही हुआ। इसी कारण सम्भव है कि मेरी कविताओं में काव्य के बहुत से प्रतिष्ठित गुण न हों जैसे— विचारों की गरिमा अथवा छन्द और तुक इत्यादि की सजावट। बहुत—सी रचनाओं में मनमाने छन्द हैं, मनमानी गति है, मनमाना सगीत है, प्रतिष्ठित रीति के अनुसार यह कहिए की नहीं है। मैंने जो कुछ जैसा मन में आया लिखा है, नियमों का कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए मेरी सारी रचनाएँ एक प्रकार से कविता द्वारा अपने को व्यक्त करने का लम्बा प्रयोग हैं। . कवि की आकाश्काएँ भावनाएँ इतनी विस्तृत हो कि उनकी सीमा में जन—जन की

भावनाएँ आ सके, यह तभी सम्भव है जब वे भावनाएँ उस के सम्पूर्ण व्यवितत्व की आवाज बनकर निकले, खोखले प्रचार का आधार लेकर नहीं। वर्णा ऐसी कविता फूहड़ होगी, उस से तो पैम्पलेटो का गद्य ही बेहतर है।”

(‘वक्तव्य’—‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—44—45)

अपने इसी ‘वक्तव्य’ के प्रारम्भ मे वे अपनी कविता की बुनावट को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं— “यहाँ मैं घर मे बैठे ही भाँति—भाँति के नगरो , रगीन भवनो , क्लबो, नर नारियो, तेजी से चलते जीवन से लेकर अधेरी तग गलियो और सुनसान गाँवो तक का चित्र उतार कर मन भर लेती हूँ। पूँजीपति के माल—गोदामो से लेकर मजदूर, कुली, खटबुना, लोहार, ठेलेवाले तक के जीवन मे झाक लेती हूँ। काव्य का माध्यम मैंने इसीलिए अनायास अपना लिया और इसे अपना कर मुझे इतना सुख मिला कि मेरे शेष अभावो की पूर्ति हो गयी।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—44)

यद्यपि कवियत्री ने अपने को कवि मानने से इकार किया है। किन्तु जब हम उनकी कविताओं को गहराई से पढ़ते हैं, तो ‘वक्तव्य’ मे दी गयी, उनकी अपनी काव्य सवेदना की पृष्ठभूमि झूठी पड़ने लगने लगती है। पाठक के सामने एक ऐसी सर्जनात्मक काव्य सवेदना का परिदृश्य उभरकर आता है, जिससे वह अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाता। जब पाठक उनकी काव्य—भाषा की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति की परत—दर—परत खोलते हुए चलता है तो उसे एक अलग तरह की ही अनुभूति होती है। जिसका नमूना उनकी कुछ कविताओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी एक कविता है— ‘लीडर का निर्माता’।

‘लीडर’ जो शोषक बन बैठा है—

“सजा है

रेशम के पर्दों से छाइग रुम

सोडे से , फिनील से

और गरम पानी से  
 धुल रहे बाथरूम।  
 टावेल रूँए का हाथ मे  
 लाण्ड्री धुला, गोरा—  
 कोठी से निकल रहा बैरा।  
 चपरासी कसे बेल्ट,  
 सेकेटरी लिये डायरी,  
 गेट पर कार खड़ी,  
 लोगो का इन्तजार—  
 कौन आ रहा?  
 लीडर आ रहा।

(‘लीडर का निर्माता’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ-56)

प्रस्तुत कविता यद्यपि पचासो वर्ष पहले लिखी गयी थी लेकिन आज  
 जबकि ससद मे ‘लीडर’ एक दूसरे से हाथा—बाही तक कर लेते हैं, उनका  
 सटीक चित्र खीचती है। एक सामान्य जन के मन मे आज के ‘लीडर’ की जो  
 छवि बनी है, वह लगभग यही है जिसको माथुर जी ने अपनी कविता मे वाणी  
 दी है। इस कविता को पढ़ते हुए ऐसा लगता है, मानो एक कोई सामान्य व्यक्ति  
 किसी ‘लीडर’ की रहन—सहन देखकर चमत्कृत हुआ हो और किसी अन्य व्यक्ति  
 से उसका वृतान्त सुना रहा है। सामान्य बात—चीत मे अग्रेजी के जिन शब्दो का  
 हम बड़े धड़ल्ले से हिन्दी मे प्रयोग कर लेते हैं, उन्ही शब्दो मे से ‘झाइग रूम’,  
 ‘टावेल’, ‘बेल्ट’, सेकेटरी’ जैसे शब्दो का प्रयोग करके कवियत्री ने अपनी कविता  
 का ढॉचा खड़ा किया है। उनकी एक कविता है—“केसर रग रगे ऑंगन”। जो  
 बिल्कुल दूसरे ही धरातल पर लिखी गयी है। इसमे एक तरह के नैसर्गिक  
 सौन्दर्य की सृष्टि की गयी है—

“सुन्दरियो के गोल बदन  
 लिपटे गुलाल से  
 ज्यो सूरज पर सन्ध्या—बादल  
 जोर जमा खीचे पिचकारी  
 मुरकी जाये नरम कलाई  
 छोड़ फुहारे रग सब डाले  
 बजे चूड़ियाँ  
 फिसले साड़ी  
 मसल गये रग  
 मसल गये तन  
 मसल गयी अब मूठी गोरी  
 किरण उत्तर कर नभ से आयी  
 आज खेलने को ज्यो होरी।”

(‘केसर रग रंगे ऑगन’, ‘दूसरा सप्तक’, पृष्ठ 50)

प्रस्तुत काव्य पवित्रियों में माथुर जी ने होली खेलते हुए युवतियों का वर्णन बड़े ही तारूण्य बिम्बों से किया है। सुन्दरियों के गुलाब से लिपटे हुए गोल बदन को कवियत्री ने ‘ज्यो सूरज पर सन्ध्या बादल’ के बिम्ब से बाधा है। शाम के सूरज को बादल जब ढक देता है तो उसकी ललाई उन बादलों से झलकती है गुलाल से सने हुए युवतियों के गोल बदन कुछ ऐसा ही आभास दे रहा है। होली खेलते समय तन की सुध नहीं रह जाती। ‘कलाई का मुरकना’, ‘चूड़ियों का बजना’, ‘साड़ी का फिसलना’— एक होली का वातावरण ही उपस्थित हो गया है। इस होली के दृश्य को देखने से ऐसा लगता है मानो आकाश से सूर्य की किरणे होली खेलने के लिए उत्तर आयी हैं। उनकी एक कविता

है—‘जिन्दगी का बोझ। जो हिन्दी साहित्य का विश्लेषण करती हुई मालुम पड़ती है—

‘रेल के डिब्बे मे  
छोटे मे छोटा  
बड़े मे बड़ा है  
मानवो मे भेद  
एक कश खीचता है  
सिगरेट दाब कर  
छोटे से कहता  
गेट डाउन डैम’

x x x

चला जा रहा  
हिन्दी साहित्य  
रेल मे बैठ  
दौड़ती कहानी  
क्वाँरियो —सी  
घिसटे लेख भी  
पगु—से, झोली फटी, टुकडे विखर रहे।’

(‘जिन्दगी का बोझ’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ—54—55)

यह पूरी—पूरी की कविता हिन्दी साहित्य का पड़ताल करती हुई मालुम पड़ती है। एक रेल के डिब्बे मे मुसाफिर इकट्ठे बैठे हैं। एक ही साथ यात्रा कर रहे हैं— चाहे वह छोटा हो या बड़ा। फिर भी बड़े—छोटे का भेद साथ—साथ चल रहा है। बड़ा छोटे से कहता है—‘गेट डाउन डैम।’ हिन्दी साहित्य की दयनीय स्थिति का भी बड़े विचित्र ढग से वर्णन किया गया है जिस प्रकार रेल मे सभी

छोटे—बड़े एक साथ चलते हैं उसी प्रकार हिन्दी साहित्य चाहे वह स्तरीय हो या निम्न स्तरीय, रेल की तरह दौड़ रहा है। जिसमे ‘क्वारी—सी कहानी’ और ‘धिसटे लेख’ साथ—साथ चल रहे हैं। यहाँ कवियत्री ने एक अलग तरह की भाषिक सरचना निर्मित की है जो कुछ—कुछ व्यग्य का तेवर लिए हुए है।

अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भिक क्षणों को याद करते हुए कवि हरिनारायण व्यास लिखते हैं— “कविता की ओर बचपन से रुचि रही। मुझे किरानी की वह दुकान अभी तक याद है, जिस पर बैठकर रात को देर तक गाँव की किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति को लेकर तुकबन्दियों सुनाया करता था। मामा प० गोपी वल्लभ उपाध्याय के बौद्धिक प्रभाव से साहित्य की ओर झुका, फिर उज्जैन मे बन्धु गजानन मुकितबोध और गुरुवर प्रभाकर माचवे के सम्पर्क से कवि जीवन को चेतना प्राप्त हुई। गिरिजा कुमार माथुर का सहवास भी मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है।”

(‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—63)

आगे वे कविता के बारे मे लिखते हैं—‘कविता अपनी विशाल अमूर्तता के कारण समाज का व्यापक अनुभूतियों को स्पर्श करने की, उन्हे प्रेरित करने की क्षमता रखती है। इसी से कविता मे चिरस्थायित्व और सर्वदेशीयता एव सर्वलोप्रियता होती है। किन्तु सामाजिक विकास अथवा वातावरण का अन्तर भी उसको नया रूप देने का प्रधान कारण बन जाता है। समाज के विकास से मन की अनुभूतियों को भी विस्तार मिलता है। और मन का विस्तार अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा मे तथा अभिव्यक्ति शैली में भी नयापन जोड़ता है। नये शब्द, नये छन्द और अभिव्यक्ति के लिए नये प्रयोग, कवि के लिए लाचारी हो जाती है। अनुभूतियो का लावा जब पिघल कर फूट पड़ने को उतारू हो जाता है तो फिर प्रचलित मान्यताएँ अपने आप टूट पड़ती हैं और नयी कविता नये संगीत मे अवतरित होने लगती है। नयी कविता के लिए नये छन्द उसके

बन्धन नहीं बल्कि उसकी सुविधा होती है, अनुभूति का आकार देने का एक सरल और स्वाभिक मार्ग। इसलिए नये शब्द, और पुराने शब्दों के नये अर्थ, नयी अनुभूतियों की नयी मूर्तियाँ होती हैं, जिन का जन्म सामाजिक व्यक्तित्व से होता है।      **मेरी मान्यताएँ**

- 1      कविता के प्रतीक यथासाध्य जीवन के सान्निध्य से लिए जाने चाहिए। प्रकृति स्वय सौन्दर्य की प्रतिमा है। भारतीय कृषक के लिए वह एक वरदान है जो कविता के अन्तर्वाह्य स्वरूप के निखार में योग दे सकता है।
- 2      भाषा जीवन और समाज का एक प्रबल शस्त्र है, किन्तु उसे जीवन से अलग हो कर नहीं, जीवन में ही रहना है। यदि कविता की भाषा दुर्बोध रही तो उस का कर्म— अर्थात् लड़ने में मनुष्य का सहायक होना— अधूरा ही रह जाता है। इसलिए ग्राम—गीतों के शब्द और लय मुझे प्रिय हैं।
- 3      पुरानी मान्यताओं, पुराने शब्दों, पुरानी कहावतों को नये अर्थ से विभूषित कर के कविता में प्रयोग करने से पाठक की अनुभूतियों को छूने में सहायता मिलती है।

कविता एक सपनो का ससार है। और यह ससार यदि नये जीवन के कीड़ा, नये जगत् की रगीनी से सिक्त हो तो कवि का कर्म और उसका सामाजिक दायित्व सार्थक हो जाते हैं।”

(‘दूसरा सप्तक’ ‘वक्तव्य’ पृष्ठ—65—66)

जैसा कि इन्होंने अपनी ‘मान्यताएँ’ में स्वीकार किया है कविता के प्रतीक यथासाध्य जीवन के सान्निध्य से लिए जाने चाहिए’— का पूर्णतया निर्वाह करने की कोशिश की है। उनकी एक कविता है— ‘उठे बादल झुके बादल’। पूरी की पूरी कविता मानो सूखे से त्रस्त पृथ्वी की कहानी कह रही हो—

“उधर उस नीम की कलगी पकड़ने को झुके बादल।

नयी रगत सुहानी चढ़ रही है

सब के माथे पर ।

उडे बगुले, चले सारस,

हरस छाया किसानो मे ।

बरस भर की नयी उम्मीद

छायी है बरसने के तरानो मे ।

बरस जा रे, बरस जा ओ नयी दुनिया के

सुख सम्बल ।

पडे है खेत छाती चीर कर

नाले—नदी सूने ।

विलखते दादुरो के साथ सूखे झाड़

रुखे झाड़ ।

हवा बेजान होकर सिर पटकती

रो रही सर सर ।

जमी की धूल है बदहोश

भूली आज अपना घर ।

x      x      x

खड़ी हैं सिर पे लिए गागर

तुम्हारी इन्तजार मे

दरद करती कमर, दिल कापता है

बेकरारी मे ।

जहाँ की बादशाही भी जहाँ पर

सिर झुकाती है

उन्ही कोमल किशोरी का

दुखाकर दिल

कभी रस ले सकोगे क्या अरे दिल?  
उठे बादल, झुके बादल।

(‘उठे बादल, झुके बादल’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ—70,71)

प्रस्तुत कविता में कवि ने ‘वर्षा न होने’ के की स्थिति का अत्यन्त कुशलता से वर्णन करता है। सारे—के—सारे प्रतीक प्रकृति से ही लिये गये हैं। बादलों में वर्षा की एक हल्की सी आभा दिखाई दे रही है, जिसके कारण वे थोड़ा सा झुक गये हैं। कवि को लगता है कि ये झुके हुए बादल ‘नीम की कलगी’ को पकड़ने के लिए झुक रहे हैं। ‘नीम की कलगी’ से कवि का तात्पर्य उम्मीद की नयी किरणों से है। जिस प्रकार नीम में नयी कलगी है उसी तरह किसानों में भी उम्मीद एक नयी किरण पैदा हो गयी है। वह बादल से कहता है कि ‘ओ नयी दुनिया के सुख सम्बल’ बरस जाओ, ताकि पूरी दुनिया में आशा की एक नयी किरण जागृत हो जाये। पानी के अभाव का बड़ा ही सुन्दर वर्णन कवि ने किया है। गाँव में सूखे की स्थिति में सारे तालाब और पोखरे सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में गाव की किशोरियाँ पानी लेने जाय तो कहाँ जायें। किशोरियाँ सिर पर गागर रखे पानी का इन्तजार कर रही हैं। कवि ने बादल को नायक के रूप में चित्रित किया है। वह कह रहा है कि यदि नायिकाएँ दुखित रहेगी तो नायक रस ले सकेगा क्या? यहाँ ग्रामीण परिवेश से लिए गये बिम्बों और प्रतीकों का सघन प्रयोग है। कवि की एक दूसरी कविता है—‘नशीला चॉद’।

“नशीला चॉद आता है।  
नयापन रूप पाता है।  
सवेरे को छिपाती रात अचल मे,  
झलकती ज्योति निशि के नैन के जल मे  
मगर फिर भी उजेला छिप न पाता है।

बिखर कर फैल जाता है।

तुम्हारे साथ हम भी लूट ले ये रूप के गजरे  
किरण के फूल से गूँथे यहाँ पर आज जो विखरे।

इन्ही में आज धरती का सरस मन खिलखिलाता है।”

(‘नशीला चाद’ ‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ-71)

प्रस्तुत काव्य पक्षितयो मे कवि का एक दूसरा ही भाषिक तेवर दिखाई देता है पिछली कविता मे कवि ने जहाँ प्रकृति के कूर रूप को वाणी देता है वही इस कविता मे प्रकृति को सौन्दर्य की प्रतिमा के रूप मे स्वीकार करता है। यहाँ प्रकृति के माध्यम से प्रेम जैसी मासल अनुभूति को प्राकृतिक बिम्बो के माध्यम से चित्रित किया गया है। ‘नशीला चाद आता है, नयापन रूप पाता है’ से आधुनिकता का स्वर गुन्जरित हो रहा है, साथ ही नव-विकास और नव-विश्वास का सचार भी हो रहा है। रात अपने अचल मे सवेरे को छिपाना चाह रही है लेकिन सवेरा है कि वह छिप ही नही रहा है। यहाँ कवि ने जिस भाषिक सवेदना का विकास किया है, उससे कोई भी पाठक चमत्कृत हुए बिना नही रहता है।

व्यास जी कविताओ मे प्राकृतिक उपादनो की झलक—जगह—जगह मिलती है। उनकी कविताओ के बिम्ब और प्रतीक सबके सब प्रकृति-प्रदत्त है, जिनका अवगाहन पाठक जगह—जगह करता हुआ चलता है।

ग्रन्थालय-२

संस्कृत-विद्या  
आधुनिक-विद्या  
विज्ञान-विद्या  
विज्ञान-विद्या

प्राप्ति

“सप्तको और नयी कविता की विशाल सृजन भूमि पर जो कुछ विशिष्टतम् कवि व्यक्तित्व अकुरित, पल्लवित एव विकसित हुए तथा अपने पुष्ट गन्ध एव फल सम्पदा से हिन्दी जगत को परितप्त एव परिपूर्ण किये, उनमें एक विशिष्ट नाम श्री नरेश मेहता का रहेगा। जिन परिस्थितियों में श्री नरेश मेहता का जन्म एव प्रारम्भिक विकास हुआ वे अपने आप में इतनी वैविध्यपूर्ण एव तीखी हैं कि निश्चय ही उनकी आच में तपकर कोई विराट व्यक्तित्व ही निकल सकता था” ।

(‘नरेश मेहता कविता की उर्ध्वयात्रा’— डॉ० राम कमल राय— पृष्ठ-17)

कवि की अपने व्यक्तित्व पर स्वय की टिप्पणी है— “नरेश मूलत दो तरह का आदमी है एक तो हर आदमी से दोस्ती करना, पर समाज से दूर रहना। दूसरे, हर चीज को पीछे छोड़कर चलते जाना, आगे और आगे। आज वह जिस जगह है, वह उसे जहर लगती है। उसे दो बाते प्रिय रही हैं। पहली तो यह कि वह वैसा ही घूमता रहे जैसा कि उसने अपने बचपन में खानाबदोश लुहारो को अपने बैलों की घण्टियाँ बजाते हुए विन्ध्य की घाटियों में घूमते हुए देखा। क्योंकि उसे एक सजे हुए कमरे से कही अधिक किसी तम्बू में केवल पड़े रहना और कुहरे को देखना ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी यह कि वह लिखे और, आग लिखे।”

(‘दूसरा सप्तक’— स० अज्ञेय— पृष्ठ 109)

स्वय की इस टिप्पणी से श्री नरेश मेहता के कवि व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी कवि व्यक्तित्व पर उसके परिवेश का प्रभाव अनिवार्य है। कवि का एक निजी जीवन होता है, जिसमें उसका प्रेम, सघर्ष, पीड़ा तथा सकल्प विकल्प होते हैं। अपने जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों से जुड़कर या युक्त होकर वह सृजन करता है। वास्तव में रचनाकार रचना करते हुए अनुभूति को ही रूपायित करता है। रचनाकार के

दायित्व के विषय मे कवि नरेश मेहता का अपना दृष्टि कोण है कि— “बिना भोगे कृति रचना नहीं हो सकती। ऐसा भोगना सुन्दरतम् के साथ—साथ विकृतता के साथ भी करना होता है। रचना प्रक्रिया के स्तर पर सुन्दर और विकृति मे कोई भेद नहीं होता। इसलिए कलाकार का दायित्व वस्तुत अपने और रचना के प्रति सम्भव हो सकता है। यह बात दूसरी है कि प्रकारान्तर मे वह अन्य के प्रति भी दायित्व पूर्ण हो जाये। इसीलिए कला को मूलत असग होना चाहिए।”

(नरेश मेहता ‘प्रथम फाल्गुन’ पृष्ठ-133)

काव्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कि कवि ने अपने एक सकलन ‘अरण्या’ की भूमिका मे लिखा है—“ काव्य का स्थान समस्त वैचारिक सत्ता मे न केवल सर्वोपरि है, बल्कि अपनी भाववाची सृजनात्मक प्रवृत्ति के कारण उसे परमपद भी कहा जा सकता है। अन्य वैचारिक सत्ताएँ, भले ही वे धर्म, दर्शन, विज्ञान या अध्यात्म की ही क्यों न हो, भाववाची सृजनात्मक न होने के कारण वे किसी न किसी कारण से सीमाएँ हैं। इस अर्थ मे काव्य ही एक मात्र निर्दोष सत्ता है।                   काव्य ही शब्द शक्ति और प्राण शक्ति दोनों की पराकाष्ठा है। काव्य न तो विज्ञान की पदार्थिक खण्ड दृष्टि है और न ही अध्यात्म की अनासक्त तत्त्वभाषा और योग मुद्रा। यदि काव्य की कोई मुद्रा सम्भव है तो वह अर्धनारीश्वर जैसी ही होगी। लग्न मे जिस प्रकार ‘मिथुन’ और राशियों मे जिस प्रकार ‘कन्या’ है, प्रतीति और अभिव्यक्ति के क्षेत्र मे वही स्थिति काव्य की है। कहा जा सकता है कि सृष्टि, सृष्टि का कारण और सृष्टि की किया का यदि कोई नाम सम्भव है तो वह काव्य है।

(‘काव्य एक शब्द यज्ञ’ ‘अरण्या’ पृ०-९)

भाषा को लेकर कवि की दृष्टि को हम उन्हीं के शब्दों मे देखें—“ प्राय तो भाषा के स्तर पर ही अधिकाश कवि काव्य—श्रोता एव पाठक काव्यात्मकता

की तलाश मेरहते हैं। कितने जानते हैं कि काव्य, भाषा को शब्द और अर्थ से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया है। भाषा के बन्धन का नहीं मुक्ति का नाम काव्य है। शब्द मेरने निहित अर्थ और स्स्कार को जब तक काव्य, जाग्रत नहीं करता, तब तक वह भाषा या शब्द की उपरी सतह शब्दता पर ही टकराता रहेगा। कठिन भाषा या सरल भाषा, शब्द की शब्दता के ही नाम हैं। काव्य मेरे शब्द और अर्थ का प्रयोग उसके भोक्ता कवि और श्रोता दोनों को ही शब्द और अर्थ से मुक्त होने के लिए होता है। काव्य, भाषा और अर्थ इन तीनों से असग मत्रात्मकता ही शुद्ध काव्यात्मकता है। जिस प्रकार अग्नि, काष्ठ और हविष्य जन्मा होने पर भी वह न लकड़ी है और न हविष्य। उसी प्रकार काव्य शब्द और अर्थ जन्मा होने पर भी वह न शब्द है न अर्थ।"

(‘भूमिका’—‘प्रवाद पर्व’—पृष्ठ-9)

कवि का उदाहरण उसके भाषा सम्बन्धी दृष्टिकोण को काफी दूर तक साफ करता है। उसकी दृष्टि मेरे काव्य भाषा को शब्द और अर्थ से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया है। अर्थात् श्रेष्ठ और सफल काव्य तब चरितार्थ होता है जब काव्य का रचयिता और उसके श्रोता—पाठक शब्द और अर्थ की सीमा का अतिकरण करके उस आनन्द की भूमि पर पहुँच जाये जहाँ शब्दार्थ की सत्ता की अनुभूति भी नहीं रह जाय। काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर शायद इसीलिए कहा गया है।

सर्व प्रथम नरेश मेहता की कविताएँ सकलित रूप से हमे ‘दूसरा सप्तक’ मेरी प्राप्त होती हैं। इसमे उनकी कुल दस कविताएँ सकलित हैं। नरेश मेहता की इन कविताओं को नव्यतर रचना शैली द्वारा सुव्यवस्थित कविताएँ कहा जा सकता है। इन कविताओं मेरे उनके प्रकृति प्रेम और प्रगतिशीलता के दर्शन होते हैं। इन रचनाओं की चिन्तन भूमि व्यापक व ऊँची है। ‘किरन घेनुएँ, ‘उषस ‘अश्व की वल्या’ मेरे न केवल वैदिक बिन्दो का सुन्दर प्रयोग हुआ बल्कि

शब्दावली भी वैदिक है। इनमे सबसे लम्बी कविता 'समय देवता' है जिसमे प्रकृति प्रेम, प्रगति शीलता और शिल्प चेतना तीनों एक साथ परिलक्षित होती हैं। अन्य रचनाओं मे भारतीय स्स्कृति के प्रति लगाव जीवन के प्रति अटूट आस्था, प्रकृति के प्रति गहन आकर्षण तथा जीवन के प्रति यर्थाथवादी दृष्टिकोण आदि विशेषताएँ देखी जा सकती हैं।

'समय देवता! आज विदा लो,  
 किन्तु तुम्हारे रेशम के इस चमक वस्त्र मे  
 मिट्टी का विश्वास बाधकर  
 भेज रहा हूँ।  
 मेरी धरती पुष्पवती है,  
 और मनुज की पेशानी के चरागाह पर दौड़ रही है तुफानो की  
 नयी हवाएँ।'

(‘समय देवता’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ-133)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित 'समय देवता' शीर्षक कविता की इन अन्तिम पकितयों मे कवि की स्वस्थ मानवतावादी चेतना का स्वर मुखरित होता है। इन आशावादी स्वरों मे समाज के लिए उसकी आस्था की उत्कट आकाशा दिखाई देती है।

‘बनपाखी सुनो (1957) कवि का प्रथम स्वतन्त्र काव्य सकलन है। इसमे कुल 27 कविताएँ सग्रहीत हैं। इस सग्रह की लगभग सभी कविताएँ प्रकृति प्रधान हैं। इन कविताओं मे कवि कभी बदली का वर्णन करता है। तो कभी मेघा का कभी वर्षा का, तो कभी डाकती सध्या का। प्रकृति का विभिन्न रूपों मे वर्णन इस सग्रह मे मिलता है। ‘ये हरिण सी बदलियों’ ‘मालवी फाल्जुन’ ‘मेघ पाहुन छारे’ ‘पीले फूल कनेर के’ ‘तथा मेघ से पहले’ आदि कविताओं मे प्रकृति के माध्यम से रुमानी भावो को भी अभिव्यक्ति मिली है।

हम मिले थे सॉझा थी, तट था यही थी कदलियों।  
थी घिरी उस सॉझा कबरी हरिण सी बदलियों॥

(‘ये हरिण सी बदलियों’ ‘बन पाखी सुनो’ पृष्ठ-10)

‘बन पाखी सुनो’ सग्रह मे सकलित ‘ये हरिण सी बदलियों’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों मे आकाश मे घिर आयी बदली को देखकर कवि के हृदय पटल पर अचानक वो सन्ध्या उभर आती है, जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ गोमती के तट पर बितायी थी। इस सग्रह मे कवि ने भाषा और शिल्प के घरातल पर नई शब्दावली का प्रयोग किया है। नये उपमान, नये बिन्दु तथा प्रतीको को वैयक्तिक भावना से अनुराजित किया है। कुछ कविताओं मे हिन्दी और बगला का समन्वय भी है।

‘बोलने दो चीड़ को’ को कवि नरेश मेहता के काव्य-विकास का दूसरा आयाम कहा जा सकता है। यह 1961 मे प्रकाशित हुआ था। इसमे कुल 27 कविताएँ सकलित हैं। ‘बोलने दो चीड़ को’ मे कवि का प्रकृति सौन्दर्य शब्द-शिल्प तथा स्वस्थ सामाजिकता की ओर अधिक आकर्षित है। लेकिन कही-कही व्याय का पुट भी हैं। यहाँ तक आते-आते कवि का चिन्तन-बोध गहराने लगा था। अब कवि को यह आभास होने लगा था कि जो कल तक अनाम व उपेक्षित रहा है, वही आज स्वीकारा जा रहा है। शीर्ष बन्ध मे कवि ने स्वय स्वीकार किया है – “प्रत्येक नयी अभिव्यक्ति को आरम्भ मे विरोध सहना ही होता है, लेकिन बर्चस्व वरेण्य बनकर ही रहता है। कल तक, आज की कविता उपेक्षित थी, लेकिन आज स्वीकृता है। इसका एक मात्र कारण इस काव्य की उपलब्धियों हैं, जो समग्र हैं। कल जब ज्वार और भी शान्त होगा तब अधिक गहराइँया लक्षित हो सकेगी, व्यक्तिगत भी समष्टिगत भी।”

(‘शीर्षबन्ध’ ‘बोलने दो चीड़ को’- पृष्ठ-3)

कवि का आशय यह है कि कवि मन ज्यो-ज्यो परिक्व होता जाता है, त्यो-त्यो काव्य मे गहराइयों परिलक्षित होती जाती हैं, काव्य मे निखार आता जाता है। यद्यपि इस सग्रह की भी अधिकाश कविताएँ प्रकृतिपरक ही हैं और उनके शिल्प मे प्राकृतिक बिम्बो का प्रयोग किया गया है। 'बोलने दो चीड़ को', 'एक फाल्मुनी दिन' 'माघ-भूले', 'चाहता', 'सोनपर्वी दिन' आदि कविताएँ प्रकृति चित्रण से सम्बन्धित श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इन कविताओं मे प्रकृति के प्रति उदात्त दृष्टि कोण है। 'फाल्मुन' कवि को विशेष प्रिय है। इस सग्रह मे फाल्मुन सम्बन्धी छ रचनाएँ सग्रहीत हैं।

‘एक स्तबक की तरह  
टटके फूल वाला धूप भरा दिन  
फाल्मुन का पूरा एक दिन  
हाथो मे लिये चल रहा हूँ  
मै इसे किसी के द्वार पर  
रख आना चाहता हूँ  
फाल्मुनी दिन फूलो का यह स्तवक  
किसी को समर्पित कर देना चाहता हूँ।’

(‘एक फाल्मुनी दिन’ ‘बोलने दो चीड़ को’— पृष्ठ— 61)

‘बोलने दो’ चीड़ को’ सग्रह मे सग्रहीत ‘एक फाल्मुनी दिन’ शीर्षक कविता मे भाव विचार और कल्पना का सतुलन है। इसकी भाषा अत्यन्त व्यजनापूर्ण है। इस कविता मे फाल्मुन की श्री और समृद्धि तो है ही, समर्पण का भाव भी है।

यह सग्रह कवि की चेतना का ऐसा बिम्ब प्रस्तुत करता है। जिसमे अनेक सौन्दर्य की छवियों हैं कवि की एक निजी विशेषता है, भाषा की समाहार शक्ति, जिसके माध्यम से वह कम से कम शब्दो मे अधिक से अधिक बात कह सका

है। इस सकलन मे विचार, भाषा, शिल्प सजगता तथा सौन्दर्य बोध परम्परा से जुड़कर नये रूपो मे अभिव्यक्त हुआ है।

'मेरा समर्पित एकान्त' कवि नरेश मेहता के काव्य-विकास का तीसरा आयाम है। यह सग्रह दो खण्डो मे विभक्त है। प्रथम खण्ड मे 19 कविताएँ हैं तथा दूसरे खण्ड मे 'समय देवता' लम्बी कविता है। इस सग्रह की रचनाओ का वातावरण सास्कृतिक है। इन कविताओ मे सास्कृतिक वातावरण एक आध्यात्मिक और भक्ति भावपूर्ण परिवेश प्रस्तुत करता है। 'इतिहास के दावेदार' 'और कोई है' प्रगतिशील भूमि पर प्रेरित है। 'बोलने दो चीड़ को' मे जो एकान्त बोध था, सौन्दर्य का उफनता हुआ ससार था और प्रकृति की जो ताजा छवियाँ थीं उसी का विस्तार इस सग्रह की रचनाओ मे दिखाई देता है। ध्यातव्य यह है कि कवि का समर्पित एकान्त अकेले उसी का उकान्त नही है, उसमे मानव मात्र का एकान्त है। इस सग्रह मे कवि जीवन के इतना अधिक निकट आ गया है कि उसमे मानवीय जीवन की एक-एक झाकी मिलती है। इसमे कही पीड़ा बोध है तो कही मानव जीवन की विडम्बनाए कही एकान्त है तो कही कोलाहल कही प्रकृति चित्रण है तो कही रहस्य भावना। कवि का प्रकृति के प्रति पवित्रता और स्वस्थता का भाव है। कुल मिलाकर नरेश मेहता मे एक गहरा मानवीय सम्पर्श का तत्व व्याप्त है।

इस सग्रह की 'इतिहास के दावेदार' कविता मे साहित्य के क्षेत्र की उस राजनीति को विषय बनाया गया है, जिसके कारण लोग अवसर का लाभ उठाकर साहित्य की ऊँचाईयो को छूना चाहते हैं—

'साहित्य के इतिहास को  
नक्शा बना  
नेपोलियन मुद्रा मे  
अपने बन्धुओ को स्थापित करते

प्रदेश जयी भाव से सन्तुष्ट थे।

x      x      x

हम सब इतिहास के गलियारो मे  
विजयी सिकन्दर से टहल रहे।”

(‘इतिहास के दावेदार’ मेरा समर्पित एकान्त’ पृष्ठ 26–27)

‘मेरा समर्पित एकान्त’ सग्रह की ‘इतिहास के दावेदार’ शीर्षक कविता मे कवि ने नेपोलियन मुद्रा तथा विजयी सिकन्दर जैसे ऐतिहासिक उपमानों का उपयोग किया है। विजयी सिकन्दर मे गर्व सन्तुष्टि का भाव है और नेपोलियन मुद्रा मे विजय का भाव यानि कि हम आज झूठी शान शौकत पर गर्व और सन्तोष का अनुभव कर प्रसन्न मन से जीवन बिता रहे हैं।

‘उसत्वा’ एक प्रकार से नरेश मेहता की काव्य सवेदन का सम्पूर्ण सार—सत्त्व प्रस्तुत करता है। कवि की काव्य वैष्णवता का प्रतीकन प्रकृति और ब्रह्माण्ड चेतना के अत्यन्त उत्कर्ष पूर्ण बिम्बो द्वारा इस सकलन की कविताओं मे आख्यायित हुआ है।

इस सग्रह मे कवि ने ब्रह्म रूप प्रकृति का साक्षात्कार प्रकृति के विभिन्न उपादानो वृक्ष, वनस्पति, दूर्वादल, झरना तथा ओसबिन्दु आदि के द्वारा किया है। प्रकृति के इन उपादानो के माध्यम से कवि ने एक अदृश्य सत्ता की अभिव्यक्ति की है। ‘उत्सवा’ मे कवि सर्वत्र मनुष्य और सृष्टि मे मगल की कामना चाहता है। कवि सदा विराट के साक्षात्कार के प्रयत्न मे रहा है। ‘उत्सवा’ की रचना कवि की उस मनोभूमि पर हुई है, जहाँ आकर उन्हे यह सृष्टि किसी विराट स्त्री की लीला भूमि प्रतीत होती है और जहाँ स्थल—स्थल पर नित्य एक उपनिषद रचा जा रहा है।

‘उत्सवा’ मे प्रकृति चेतना का विराट रूप हमे उस समय मिलता है जब पक्षी वनस्पतियों को अपना गान सौंपते हैं, उन्हे राग सुनाते हैं और वनस्पतियों

अपनी सुगन्ध झरना मे प्रवाहित कर देती है और झरने अपने जल की शोभा और प्रवाह समस्त सृष्टि को प्रदान करते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों का साक्षात्कार कवि ने 'उत्सवा' मे किया है तथा प्रकृति के इस महाकाव्य को ईश्वरीय चेतना का महाकाव्य माना है।

‘कितना अपार सुख मिला  
जब किसी ने  
मेरे पुण्यो को फल समझ  
ढेले से तोड़ लिया।  
किसी के हाथो मे  
पुण्य सौप देना ही तो फल प्राप्ति है।’

('वृक्ष बोध'— 'उत्सवा'— पृष्ठ—29—30)

'उत्सवा' सग्रह की 'वृक्ष बोध' कविता मे कवि ने प्रकृति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि यदि प्रकृति के अनन्त समर्पण तथा निवेदन का भाव अगर मनुष्य मे आ जाए तो धरा का जीवन सार्थक हो जाए। जैसे नदी स्वय को सौपती है उसी प्रकार पुण्य को सौपना ही फल प्राप्ति है। कवि का मानसिक धरातल एक ऐसे वृक्ष की भाति जीता है जो अपने पुण्यो का फल भी किसी को सौप देना चाहता है।

कवि नरेश का प्रयास है— प्रकृति के विभिन्न तत्त्व— पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश, प्रत्येक तत्त्व की विराटता का विस्तार से वर्णन। इन तत्त्वो के विभिन्न रूप प्रकृति वानस्पतिकता से सम्बन्धित है। पृथ्वी जो किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं, पात्र—कुपात्र का विचार नहीं करती। पृथ्वी एक भागवत कथा है और दूर्वादल की भाषावरी है, जिसे वनस्पतियो ने तरह तरह के वस्त्र पहना रखे हैं। केवल पृथ्वी ही सबको अर्थ और सन्दर्भ देती है—

‘क्योंकि पृथिवी ही

सबको अर्थ और सन्दर्भ देती है।  
 यह पृथ्वी ही है  
 जो शून्य को आकाश की सज्जा देती है,  
 यह पृथ्वी ही है  
 जो प्रकाश को धूप की सज्जा देती है।”

(‘साक्षात् के लिए’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-9)

‘उत्सवा’ सग्रह की ‘साक्षात् के लिए’ शीर्षक कविता में कवि ने पृथ्वी को केवल धरती ही न मानकर जीवमात्र की कवच नारायणी माना है। पृथ्वी के कारण ही शून्य को आकाश की सज्जा मिली है। पृथ्वी एक ऐसी कृपा है जो सूर्य, ऋतुओं तथा सारे मानवीय दुख-सुख को पुष्प गन्ध भाव से समर्पित करती है।

इस सकलन की कविताएँ कवि की वैष्णवी दृष्टि का परिणाम हैं। एक ऐसी वैष्णवी दृष्टि जो वैदिक उपनिषदीय प्रकृति को नये बिम्बों और प्रतीकों के माध्यम से काव्यात्मक साक्षात्कार कराती है। इस सग्रह की कविताओं में कवि का मानस बाहरी जगत के द्वन्द्वात्मक धरातल से बहुत गहरे उत्तरकर एक ऐसी तन्मयता की स्थिति में आ चुका है, जहाँ उसे या तो प्राचीन मिथक या प्रतीकों की सत्ता अभिभूत किये हुए है या वानस्पतिकता से ओत-प्रोत प्रकृति की सत्ता। अधिकाश कविताओं में ये दोनों लोक एक दूसरे से घुल-मिल गये हैं। और कवि की चेतना उसी लोक में पूर्णत खो गई है।

‘तुम मेरा मौन हो’ (1982) कविता सग्रह द्वारा एक दृष्टि से कवि ने सर्वथा नवीन भावभूमि तथा विषय को चुनकर अपनी काव्य-चेतना में एक नवीन आयाम जोड़ा है। पुस्तक के शीर्षक के साथ ही काव्य-विषय का सकेत करती हुई एक विशिष्ट पवित्र है— ‘वैयक्तिक वैष्णवता की कविताएँ’। अपने इस नवीन भावफलक का तादात्म्य अपनी पूर्व चेतना से स्थापित करता हुआ कवि

‘भूमिकावत’ मे कहता है— “शायद इसके पहले कभी कविता को मैने इतने और ऐसे समग्र रूप मे नहीं अनुभव किया होगा, तभी तो ‘उत्सवा’ की कविताओं की वैष्णवता और इस सग्रह की कविताओं की वैयक्तिकता, दोनों ही समान रूप से काव्यात्मक निवेदन है। राग—पाश मे बधी आसक्ति की ये कविताएँ लिखी जा चुकने पर भी कैसे बारम्बार अपने लिखे जाने के आग्रह के साथ मेरे सामने आरात्रिक बैठी रहती हैं।”

(‘तुम मेरा मौन हो’ ‘भूमिकावत’ पृष्ठ 9–10)

काव्य—विषय की सूक्ष्माति—सूक्ष्म पकड़ एव शिल्प रगो की वैष्णव सकुलता की दृष्टि से इस सकलन की कविताएँ धर्मवीर भारती की ‘कनुप्रिया’ से आगे की दिशा को सघानित एव सकेतित करती हुई दिखाई देती हैं। ‘गीतगोविन्द’, ‘श्रीमद् भागवत’, तथा वैष्णव परकीय भाव की सम्पूर्ण रागात्मकता अपने अभिनव कलात्मक उत्कर्ष के साथ इस सकलन की कविताओं मे विराज मान हैं।

‘मैं जानता हूँ कि अवश हो जाने पर  
तुम्हारे पास  
पतझर जैसा मर्मरी निश्वास है  
नेत्र कोरो मे जल का आशय भी है  
और पूर्ण विवश हो जाने पर  
अपनी अगुली की दबाव से  
मेरे कन्धे पर लिख जाने के लिए  
नितान्त ऐकान्तिक अपनी देह भागवत  
की व्यथा है।’

(‘शिलालेख’ ‘तुम मेरा मौन हो’ पृष्ठ— 12–13)

'तुम मेरा मौन हो' सग्रह मे सकलित 'शिलालेख' शीर्षक कविता की ये पक्षितयों परम्परित मधुरभाव को नवीन भावशिल्प एव सवेदन आवेग के साथ व्यजित करती है ।

इस सग्रह की कविताएँ सचमुच प्रेम प्रधान ही हैं। जैसा कि कवि ने इस सकलन के 'भूमिकावत' मे स्वय कहा है— "यह प्रेम कविताओं का सकलन है।" इन्हे पढ़ने से पता चलता है कि इनमे प्रणयानुभूति एव प्रणय व्यथा ही अधिक है। कही—कही वैदिक, औपनिषदीय एव सास्कृतिक शब्दावली जैसे— कल्पवृक्ष, गन्धर्व, यक्ष, दीक्षा, वैष्णवता आदि अवश्य मिलते हैं। इन कविताओं मे कवि की वैयक्तिक प्रेम—पीड़ा नूतन उपमानों तथा प्रतीकों के माध्यम से उदात्त भाव भूमि पर अवतरति हुई है।

कवि का अगला काव्य सग्रह 'अरण्या' एक प्रकार से 'उत्सवा' की काव्य सवेदना का ही अग्रिम प्रसार है। 'उत्सवा' मे जीवन उत्सव बनकर सम्पन्न होता है, आकोश या कन्दन नहीं। किन्तु वानस्पतिका की यह अनुभूति मनुष्य जीवन से पहले प्रकृति के आगन मे सम्पन्न होती है। 'अरण्या' नरेश जी की उस प्रकृति से मानव—चेतना मे रचनात्मक वापसी है। इसमे कवि प्रकृति के पदार्थिक उत्सव मे मग्न नहीं है।, वह बार—बार अरण्यानी से अपनी धरती पर आने की कामना करता है। नरेश जी 'अरण्या' मे इसी धरती को 'पूजा के समय पार्थिव' बनाने मे तन्मय रहे हैं। 'अरण्या' की कविताओं मे उनका वैचारिक औपनिषदिक वर्चस्व पृथ्वी की निरीह करुणा मे घुलकर तरल हो उठा है और सहज से सहज दृश्यो मे उनकी कवि दृष्टि ऋषित्व को प्राप्त करने मे उद्ग्रीव हुई है।

काव्य मनुष्य को लोकोत्तर बनाने का आहवान सदा से करता आया है, किसी आचार—विचार से नहीं, शब्द की प्राण—शक्ति का आहवान करके, शब्द यज्ञ करके। शब्द द्वारा किया गया कवि का यह यज्ञ चेतना की विकास यात्रा की प्रक्रिया है जो देश और काल दोनों का अतिक्रमण कर जाती है। शब्द को

उच्चरित होने को ही मेहता जी यज्ञ कहते हैं। कवि स्वयं इस शब्द यज्ञ में चेतना के सुदीप्त गावाक्षों को खोल रहा है। नरेश जी का शब्द-यज्ञ अर्थ और विचार की आहुति रूप में प्रयुक्त हुआ है।

‘अरण्या’ की कविताएँ पृथ्वी पर केन्द्रित हैं। कवि ने वानप्रस्थी या आरण्यक भाव लेकर अरण्य में प्रवेश नहीं किया है, उसने तो अरण्य को अरण्या भाव अर्थात् फल-फूल से सम्पन्न फलते-फूलते वानस्पतिक रूप में परिणत किया है।

कवि को पृथ्वी सर्वथा एक सुभदा विग्रह लगती है। इसके महास्त्रोत को मनुष्य पढ़ नहीं पाता। कवि मेहता जी ने कभी पृथ्वी पर मृत्तिकोपनिषद् लिखा देखा तो कभी पच्चामरी महास्त्रोत। उसकी दृष्टि में पृथ्वी सदा ‘शिव रूपा’, ‘कल्याणरूपा’ ही है। वह कहता है—

“तमु क्यो नहीं समझते कि  
यह विश्वात्मना सृष्टि  
तत्त्वो की पचधातु की भाषा में लिखा  
एक प्रयोजन है  
पच्चामरी छदवाला महास्तोत्र है।  
पृथ्वी के इस उत्सवी सदाशिव विग्रह को  
पुन रूद्र मत बनाओ  
मत जगाओ तत्त्वो की इस शाभवी को  
मत जगाओ इस पचानन को  
मत जगाओ ।”

(‘पचानन’—‘अरण्या’—पृष्ठ-55)

‘अरण्या’ सग्रह की ‘पचानन’ शीर्षक कविता में कवि ने बेहद उत्सव भाव से पचतत्त्वो की पार्थिव लीला को कविता में उकेरा है। वह बार-बार मना करता

है कि इस ग्रह पर रुद्रभाव न जगाया जाय— किसी भी तत्त्व में रुद्र का जागरण न हो तभी पृथ्वी 'सदा शिव विग्रह' का रूपायन और सचार लगेगी।

'अरण्या' मे नरेश जी की वाणी उदात्त उद्घोष करती है। यहाँ भाषा मन्त्र बनने के अनुष्ठान मे आकाश—गगाओ, प्राचीन प्रकाशो, नवीन ज्योतियो, सौर मण्डलो, समुद्रो आदि की प्राकृतिक सम्पदाओं को शब्दबिम्बित करती छन्दव्यक्तित्व की एक ऐसी भद्र कविता को अवतरित करने मे सलग्न है जो विराट या विश्वात्मन् का वहन तो करती ही है, मनुष्य और सृष्टि को आश्वस्ति भी देती है।

औपनिषदिक बिम्बो और मिथको का इतना सघन और समृद्धि प्रयोग नरेश मेहता के इन दो सकलनो 'उत्सवा' और 'अरण्या' मे सम्पन्न हुआ है जो निश्चय ही पाठक को एक दूसरे भाषालोक मे ले जाता है। जहाँ एक ओर इस पृथ्वी की वानस्पतिक वैष्णवता है तो दूसरी ओर सम्पूर्ण आकाश मे विचरण करती हुई आकाश—गगाये, सूर्य, चन्द्र, निहारिकाये उसी वैष्णवता के विराटतर स्वरूप को साकार करता है।

'पिछले दिनो नगे पैरो'—यह एक ऐसा सकलन है जिसकी कविताओं मे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कूर फलक पर मुस्लिम शासकों के निर्मम आतक से थरथर कापती हुई रक्तरजिता मध्ययुगीन भारतीय सस्कृति का विदूप चित्र अकित किया गया है। असीर गढ के बहाने लिखी गयी इतिहास बोध की इन तमाम कतिआओ के माध्यम से हमे अधेरे मे थोड़ी—थोड़ी धूप और ताजी हवा भी मिलती है। यही धूप, हवा के झोके और आकाश के टुकडे इतिहास की घुटन और रक्तपात के बीच भी मनुष्य को आज तक जीवित रखे हुए हैं।

वास्तव मे इस सग्रह की कविताएँ मध्यकालीन जलती हुई ऐतिहासिकता पर नगे पैरो जैसा चलना ही थी अर्थात् कठिन या कष्टकर कार्य था। इस

सन्दर्भ मे नरेश जी ने स्वत लिखा है – “वस्तुत ये कविताएँ मध्यकालीन ऐतिहासिकता पर नगे पैरो जैसा चलना थी। इसलिए इस सग्रह की अन्तिम कविता की पहली पवित्र ‘पिछले दिनो नगे पैरो’ से उपयुक्त भले ही सार्थक न भी सही, दूसरा नाम या सज्जा, इस सकलन का नहीं हो सकता था।”

(‘पिछले दिनो नगे पैरो’—‘उपकमपूर्व’— पृष्ठ-10)

‘असीरगढ के किले’ के प्राकृतिक परिदृश्य का वर्णन करते हुए असीरगढ के प्रति रागात्मक मोह का उत्स कवि के हृदय मे फूट पडता है—

“मेरे साथ

यह कैसा असीरगढ चला आया है।

जिसके प्रागैतिहासिक एकान्तो ने मुझे भी

अभिशप्त चिरजीवी अश्वत्थामा बना दिया है”

(‘असीरगढ के किले’ ‘पिछले दिनो नगे पैरो’ पृष्ठ 30)

इस कविता मे कवि ने महाभारत के उस मिथक का प्रयोग किया है, जिसके अनुसार आर्चाय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो चिरजीवी था, द्रोणाचार्य की मृत्यु पर वह विक्षिप्त एव अभिशप्त हो गया था। कवि कहता है कि इस असीरगढ के प्रागैतिहासिक एकान्तो ने मुझे भी चिरजीवी अश्वस्थामा की तरह व्याकुल सा कर दिया है।

कवि ने इस सकलन की कविताओ मे पौराणिक बिम्बो एव मिथको के माध्यम से अपनी काव्यभाषा को नयी अर्थवत्ता प्रदान की है। उदाहरणार्थ— असीरगढ के किले, दरवाजो, दर—दरवाजो एव अग्रेजी रेजीमेण्ट की मेहराबो का वर्णन करते हुए वहों के प्राकृतिक दृश्यो के लिए ‘पितामह,’ ‘अश्वत्थामा’ ‘पाण्डवो के वृक्षासीन अयुधो’ जैसे मिथकीय उपमाने का प्रयोग किया गया है।

‘देखना एक दिन (1990) यह कवि का अन्तिम काव्य सकलन है। इसमे कुल 75 कविताएँ सग्रहीत हैं। इसके शीर्षबन्ध मे कवि का कथन है— “इधर के

काव्य सकलनो – ‘आखिर समुद्र से तात्पर्य,’ ‘पिछले दिनों नगे पैरो’ या यह सकलन ‘देखना एक दिन’ यदि पूर्व सकलनों से अलग लगते हैं, जो कुछ तो लगते ही हैं तो यह स्वरूपगत या बानकगत ही होगा । मैं किसी उर्ध्व से नीचे आकर अब धरती के ज्यादा निकट हुआ हूँ या लग रहा हूँ ऐसा मानना वास्तविक न होगा ।”

(‘शीर्षबन्ध’ ‘देखना एक दिन’ पृष्ठ- 2)

यद्यपि भले ही कवि ने इस बात को नकारा है किन्तु यह सच है कि इस सग्रह की कविताओं में एक अभिजात्य, एक सास्कृतिक बोध और मानवतावादी दृष्टि कोण दिखाई देता है। अन्य सकलनों की तरह इस सकलन की कविताएँ भी आध्यात्मिक धरातल एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर ही प्रतिष्ठित हैं—

“देखना –

एक दिन चुक जायेगा

यह सूर्य भी,

सूख जायेगे सभी जल

एक दिन

हवा

चाहे मातरिश्वा हो

नाम को भी नहीं होगी

एक दिन,

नहीं होगी अग्नि कोई

और उस दिन

नहीं होगी मृत्तिका भी ।”

(‘देखना एक दिन’ ‘देखना एक दिन’ पृष्ठ-10)

‘देखना एक दिन’ शीर्षक कविता मे कवि भारतीय वैदिक दर्शन से प्रभावित है। हमारे वैदिक साहित्यो मे जगत की नश्वरता वर्णित है। कवि के अनुसार यह भौतिक जगत जिन पाच तत्वो— क्षिति, जल, पावक, गगन एव समीर से बना है, उनमे से कोई भी नहीं रह जायेगा। यहाँ कवि भारतीय वैदिक दर्शन से प्रभावित है।

इस सग्रह के कविताओ की भाषा अपने आध्यात्मिक एव सास्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप प्राचीन आर्ष प्रतीको और मिथको की भाषा है। जो एक विशाल सर्जनात्मक फलक जैसी लगती है।

नरेश मेहता ने अपने खण्ड काव्यो की रचना मिथकीय आधार पर की है। ‘सशय की रात’, ‘महाप्रस्थान,’ ‘शबरी’ और ‘प्रवाद—पर्व’ सभी खण्ड काव्यो मे मिथक का आधार लिया गया है। समकालीन समस्याओ तथा प्रश्नो को कवि ने ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के मिथको से जोड़ा है। मिथक किसी जाति की सस्कृति के गहरे स्रोत होते हैं। वे अतीत से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक अपनी प्रवहमानता बनाये रहते हैं। भारतीय सन्दर्भ मे इन मिथको का आत्यन्तिक महत्व है। किसी भी भारतीय के लिए राम, कृष्ण, शिव आदि ऐसे प्रेरक शब्द हैं कि उनके उच्चारण मात्र से उसके हृदय मे स्फुरण होने लगता है।

‘सशय की एक रात’ कवि का पहला खण्ड काव्य है। इस खण्ड काव्य मे पहली बार किसी कवि ने राम कथा के सन्दर्भ को इस रूप मे देखने की कोशिश की है जहाँ युद्ध सहार का सबसे कुरुप और अमानवीय कर्म है और जिसके लिए कोई भी औचित्य बनता नहीं।

कवि और समीक्षक लक्ष्मीकान्त वर्मा द्वारा ‘सशय की एक रात’ पर लिखे गये एक समीक्षात्मक निबन्ध के ‘प्रसग दृष्टि’ उपशीर्षक की निम्न पवित्र्याँ इस खण्ड काव्य की सवेदना को काफी कुछ स्पष्ट कर देती हैं— “सशय की एक

रात मे श्री मेहता की प्रसग—दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आन्तरिक सषर्ष को मानवीय सन्दर्भ से जोड़ सकने से ओत—प्रोत है। राम के मन मे सघर्ष युद्ध और शान्ति को लेकर है। युद्ध स्वय मे मूल्यो के विघटन का परिणाम होता है। मर्यादाओ की विकृति ही युद्ध की आधार पीठिका होती है। स्वार्थ और परमार्थ जब इतने निकट आ जाते है कि उनमे कोई धुधली सी सीमारेखा भी अलगाव के लिए नही सम्भव होती तब सकमण की स्थिति जन्मती है। इस सकमण की अभिव्यक्ति हमेशा सशय मे ही हुई है चाहे वह महाभारत मे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अर्जुन का सशय हो, चाहे वह हैमलेट के निजी व्यक्तित्व मे बारम्बार उठने वाला 'टू बी आर नाट टू बी' के रूप मे हो। सशय हमेशा उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति है जिसके मानस मे एक चुके हुए सस्कार के वैभव की सृति तथा एक अजन्मे इतिहास की असमर्थता व्याप्त होती है। 'सशय की एक रात' उसी स्वार्थ—परमार्थ की, मर्यादा और दायित्व की, चुके हुए सस्कार की सृति तथा अजन्मे इतिहास की वेदना से कलात्मक रूप मे आद्यन्त ओत—प्रेत काव्य है।"

(‘आधुनिक कविता की उपलब्धि सशय की रात’— ‘सशय की एक रात’—पृष्ठ—14—15)

नरेश मेहता के राम दाशरथी सस्कार से जड़ी भूत व्यक्तित्व हैं, इतिहास से सम्बद्ध व्यक्तित्व हैं, युवराज राम है जो चौदह वर्ष बाद दाशरथी परम्परा को वाहक होगे, इतिहास के हाथो निर्वासित राम है, पुत्र के रूप मे पश्चाताप से ग्रस्त राम है जो बारम्बार कहते हैं—

“यदि मै कर्म हूँ  
तो यह कर्म का सशय है  
यदि मे क्षण मात्र हूँ  
तो यह क्षण का सशय है  
यदि मैं मात्र घटना हूँ

तो यह घटना का सशय है'

(‘सशय की एक रात’ पृष्ठ -51)

यहाँ उस राम का सशय है जो दशरथ की परम्परा को वाहक है। यह उस राम का सशय है जिसके मन में दाशरथी परम्परा का मोह है और जो कि इस मोह से मुक्त हो सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं।

चार सर्गों के इस प्रबन्ध में स्वयं सर्गों का नामकरण ही यह बताता है कि कवि ने सर्गों का विभाजन विषय या घटना के क्रम में नहीं किया है वरन् बिम्बों के क्रमिक सयोजन से उसने घटना, विषय और कथा तीनों को गुम्फित करने की चेष्टा की है। इसकी भाषा पैराणिकता और समसामयिकता के बीच जूझती हुई चलती है। यद्यपि इनका आग्रह पैराणिकता के प्रति है लेकिन इनका रचना-सकल्प इनको आधुनिकता से पृथक नहीं होने देता।

‘महाप्रस्थान’ कवि का दूसरा का खण्ड काव्य है। यह भी ‘सशय की एक रात’ की तरह युद्ध की समस्या पर केन्द्रित है। युद्ध, कवि नरेश मेहता के विन्तन को सर्वाधिक उद्देलित करने वाला मानव व्यापार है।

सचमुच युद्ध मानवीय सस्कृति की सबसे भयानक दुर्घटना है। इसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारी मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं। युद्धोपरान्त हिमालय जाते हुए युधिष्ठिर के मन को युद्ध से जुड़ी सारी समृतियाँ झक झोरती रहती हैं। कृष्ण के पुष्ट तर्कों और दार्शनिक उद्बोधन ने अर्जुन के मोह को तो समाप्त किया और वह भयानक युद्ध हुआ भी। परन्तु उस युद्ध के भयानक नरसहार और रक्तपात के पश्चात उस राज्य का भोग पाण्डवों के लिए सम्भव नहीं हो सका। उनका मानस परिताप और पापबोध से जलने लगता है और अन्तत वे हिमालय में गलने को चल देते हैं। इसी ‘महाप्रस्थान’ के प्रसंग को लेकर श्री नरेश मेहता ने इस दूसरे खण्ड काव्य की रचना की। यह खण्ड काव्य उस सारे मानसिक उहा-पोह को प्रस्तुत करता है जो हिमालय यात्रा के

क्षणों में पाण्डवों और द्रोपदी के मन में होता चलता है। पहले द्रोपदी हिम में छूबती है, फिर नकुल—सहदेव, फिर अर्जुन और अन्तत भीम और सर्वान्त में युधिष्ठिर। इस यात्रा में जो पाण्डवों के मन की अन्तर्यात्रा हुई है, जिसे एकालाप और सलापों के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया है। उससे एक बार फिर उसने आधुनिक युग के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को छेड़ा है। युद्ध की भयावहता और राज्य तथा व्यक्ति के सम्बन्ध के अत्यन्त आधुनिक पक्ष इस खण्ड काव्य में उभरते हैं।

“किसी भी साम्राज्य से बड़ा है

एक बन्धु

एक अनाम मनुष्य॥

मुझे मनुष्य में विराजे देवता मे

सदा विश्वास रहा है,

इस देवता के जाग्रत होने की प्रतिक्षा मे

मै अनन्तकाल तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ भीम।”

(‘महाप्रस्थान’— पृष्ठ-98)

यहाँ युधिष्ठिर भी ‘सशय की एक रात’ के राम की भाषा बोलते हुए कहते हैं कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ तत्त्व है उन्हे ही जगाना होगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा का अलख जगाये बिना मानवता इस प्रतिहिंसा और युद्धों के रास्ते चलकर हमेशा भटकती रहेगी। आज मनुष्य को मनुष्य बनाना ही सबसे बड़ा अभियान है।

‘महाप्रस्थान’ की भाषा—सरचना में धर्म—अस्मिता का बोध बेझिझक उभरता आया है इसमें विशेषणों की लड़िया आघ्यन्त गूठी पड़ी है, जिनसे इस काव्य की धर्म—अस्मिता साकार और सवेदित होती रही है। कहीं न कही यह काव्य तत्समता से सग्रहित अवश्य है पर शायद धर्म की जटिल अस्मिता के

लिए यह जरूरी है, नहीं तो निराला को 'राम की शक्ति पूजा' में ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग क्यों करना पड़ता? इस जटिल किन्तु सार्थक शब्द रचना के बीच भाषा का सहज सरल तरल रूप भी प्रवाहित होता रहा है।

'शबरी' नरेश मेहता का तीसरा खण्ड काव्य है। इस रचना के माध्यम से कवि ने इस देश में जाति और वर्ण जैसी जड़ीभूत व्यवस्था के अत्यन्त सवेदनशील पक्ष को उभारता है। कवि नरेश मेहता ने शबरी की कथा के माध्यम से एक नया आयाम उभारते हैं। जो 'शबरी' की भूमिका में लिखी हुई निम्न पक्षियों से ध्वनित होता है—

"शबरी अपनी जन्मगत निम्नवर्गीयता को कर्म दृष्टि के द्वारा वैचारिक उर्ध्वता में परिणत करती है। यह आत्मिक या आध्यात्मिक सघर्ष, व्यक्ति के सन्दर्भ में मुझे आज भी प्रासगिक लगता है। सामाजिक मूढ़ता, परिवेशगत जड़ता तथा युग के साथ सलापहीनता की स्थिति में व्यक्ति केवल अपने को ही जाग्रत कर सकता है। इसी सघर्ष के माध्यम से 'स्व', 'पर' हो सकता है, व्यक्ति समाज बन सकता है।"

('भूमिका'-‘शबरी’—पृष्ठ-9)

'शबरी' की मूल सवेदना व्यक्ति की अपनी अस्मिता को प्रमाणित करने की ही है। 'शबरी' उस सकल्य यात्रा में पूरी तौर पर खरी उत्तरती है। राम द्वारा की गयी शबरी की अभ्यर्थना—

"शबरी अन्त्यज है तो क्या  
वह शक्ति रूप है शूद्रा,  
है तेज रूप वह केवल  
शिव शक्ति रूप है शूद्रा।"

(‘शबरी’—पृष्ठ-70)

मानव—जीवन की सकल—सम्भवा क्षमता को प्रतिष्ठित करती है।

'शबरी' मे नरेश मेहता का भाषिक तेवर और स्वरूप बदला—बदला सा लगता है। इसकी रचना तुकान्तपदो मे की गयी है। इसकी भाषा अत्यन्त सरल है, तत्समता से युक्त और अर्थवान भाषा है। वैचारिकता के प्रति विशेष आग्रह न होने के कारण इस काव्य की भाषा आद्यत सहज बनी रही है। भावसम्प्रेषण के लिए उपमानो मे पावनता, स्निग्धता और ताजगी है।

कवि का अन्तिम खण्ड काव्य—'प्रवाद पर्व' राम कथा के 'सीता का निष्कासन' प्रसंग पर आधारित है। एक साधारणजन का सीता के चरित्र पर कलक लगाना राम को उद्विग्न करता है। राम के लिए सीता की पावनता पर प्रश्नचिन्ह राम की राजसी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। वे इसे मात्र अगुली नहीं प्रति इतिहास का प्रतीक मानते हैं। प्रति—इतिहास सदा अनाम और अलिखित होता है। यह इतिहास के प्रति एक प्रतिक्रिया है। इस खण्ड—काव्य मे धोबी एक अनाम साधारण जन के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। और उसकी शका की तर्जनी एक साधारण अनामजन की तर्जनी बन गयी है। राज्य जब—जब एकाधिकारवादी बनता है, उसे सदा से ही यह साधारणजन अपनी अनाम तर्जनी उठाकर चुनौती देता रहा है और यह चुनौती सदा से ही अत्यन्त शक्तिमान सिद्ध होती रही है। 'प्रवाद—पर्व' मे राज्य की निरकुश सत्ता के मुकाबले मे उठी साधारणजन की इस तर्जनी की ही प्रतिष्ठा है। राम शका की उस तर्जनी का शमन करने के लिए दमन का रास्ता नहीं वरन् परीक्षा का रास्ता चुनते हैं। परन्तु जिस युग—सन्धि पर यह काव्य लिखा गया था, उस समय की राजसत्ता को यह स्वीकार नहीं था। उस समय कवि ने जिस नैतिक बोध का परिचय निम्न पवित्रयो मे दिया है वह निश्चय ही श्लाघनीय है—

"व्यक्ति

चाहे वह राज पुरुष हो या

इतिहास पुरुष अथवा

पुराण पुरुष

मानवीय देश—कालता से ऊपर नहीं होता राम।

इतिहास से भी बड़ा मूल्य है

सत्य—

परात्पर सत्य ऋत्—

और

यही तुम्हारी चरित्र मर्यादा है,

ऋतम्भरा व्यक्तित्व है।”

(‘प्रवाद—पर्व’—पृष्ठ—35)

यहाँ कवि ने राजसत्ता से बड़ी जनसत्ता को और उसे भी सत्य और ऋत से जोड़कर ही स्वीकृति देता है।

‘प्रवाद—पर्व’ की भाषा रचनात्मकता से युक्त है। इसमें आये शब्द अर्थ को विस्तार देते हैं। इसकी शब्द योजना अर्धान्वित है। वह अर्थ को प्रेषित करती हुई अर्थ बोध को जगाती है। शब्द की जड़ता को समाप्त कर देती है। ‘प्रवाद—पर्व’ का शब्द—विधान—सस्वर है, सचल और सगध है। उसमें बिम्ब विधान की उद्भुत क्षमता विद्यमान है।

कवि कर्म की सबसे बड़ी कसौटी भाषा है। जिस बिन्दु पर अभिव्यक्ति कविता बन जाती है और कहाँ वह केवल एक कथन—मात्र बनकर रह जाती है, इसका निर्णायक तत्व भाषा ही है। अनुभूति और भाषा, भाषा और अनुभूति ये दो तत्त्व परस्पर एक दूसरे में घुलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे में चरितार्थ होते हैं। अनुभूति जहाँ एक ओर तात्कालिक परिवेश से उत्सर्जित होती है, रूपायति होती है, वही उसका उत्स रचनाकार की पूरी सस्कारिता में होता है। वही सस्कारिता रचनाकार को उसकी भाषा देती है। किसी श्रेष्ठ काव्य की पहचान की कसौटी जो तात्कालिक रूप में हमारे सामने आती है, वह यही है

कि किसी कवि की सस्कारिता उसकी काव्यानुभूति और काव्य-भाषा को किस सीमा तक जोड़ पाती है और उस जोड़ में वर्तमान की किस सीमा तक संगति और सार्थकता बैठती है तथा भविष्य को कितनी दूर तक आत्मसात किया जा सका है। नरेश जी इस दृष्टि से निश्चय ही एक विशिष्ट रचनाकार है। उनकी भाषा न केवल अन्य सभी कवियों की भाषा से जो उनके समकालीन है, अलग खड़ी है वरन् उस भाषा की खोज और उसके रूपायन में कवि को गहरी साधना करनी पड़ी है।

नरेश मेहता की भाषा का स्वरूप बहुत दूर तक इस देश की आर्ष-चिन्तन परम्परा से निर्मित हुआ प्रतीत होता है उसकी शब्दावली आर्ष-चिन्तन की शब्दावली है। जब हम नरेश जी की काव्यभाषा की अन्विति को स्वायत्त करने के लिए अग्रसर होते हैं तो सबसे गहरी विशिष्टता उनकी भाववाचकता प्रतीत होती है। उन्हे यह सृष्टि अपनी भावमयता में ही आहलादित करती है। प्रत्येक सज्जा व्यक्तिवाचकता और जाति वाचकता को अतिकमित करके अपनी भाववाचकता में ही कवि के लिए अर्थवती होती है उन्हे वनस्पति उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी वानस्पतिकता, वैष्णव उतना प्रभावित नहीं करता जितनी वैष्णवता, वृन्दावन उनके मन को उतना नहीं स्पन्दित करता जितनी वृन्दावनता। वानस्पतिक प्रियता, उत्सव-वैष्णवता, वैष्णवी सम्पूर्णता, आकाश की नीलवर्णता, राग की असमाप्तता, तापसी कुन्दता, विशाल कौटुम्बिकता, उपनिषदीय-आश्रमता, कारुणी असगता, वासुदेविक प्रकम्पिता, वैदिकता, आरण्यकता जैसे प्रयोग कवि के व्यक्तित्व की एक ढलान की ओर निर्भ्रान्त सकेत करते हैं और वह ढलान है वस्तु की आन्तरिक सत्ता, भाव सत्ता से साक्षात्कार की प्रवृत्ति।

“किसी स्नेह ने  
झोर-झोर झक झोर सिखाई

पीपल की कम्पन विनम्रता  
 हमे वर गये विराट स्वर, पर  
 गाने को अपनी अपात्रता  
 मेरी वाणी।  
 सिन्धु दुहो इस आयुशख के शीलपात्र मे।  
 जागेगी, निश्चय जागेगी  
 अपमानो का चीर यश प्रिया वैतालिकता॥

(‘देव कृपाएँ’ ‘वन पाखी। सुनो॥’ पृष्ठ-54)

अथवा

“विश्वास करो  
 स्मरण के उस गोचारण मे  
 कही तुम्हारे लिए  
 कोई प्रार्थना—धेनुएँ दुह रहा होता है,  
 व्यक्तित्व की यह वृन्दावनता ही प्रार्थना है।”

(‘प्रार्थना धेनुएँ’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-25)

अथवा

“कभी ब्रह्म मुहूर्त मे  
 मेघो का त्रिपुण्ड लगाये  
 इस सात्त्विक को देखा है?  
 इस मनस्वी को पचपात्री, ताम्रता ही पूर्व है  
 और तापसी कुन्दनता पश्चिम।”

(‘गायत्रिन्’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-33)

अथवा

“प्रति दिन पीताम्बरा यह  
वैष्णवी

किसके अनुग्रह सी  
आकाशो मे देववस्त्रो सी  
अकलक बनी रहती है?

सम्पूर्ण वानस्पतिकता

पीत चन्दन लेपित  
उदात्त माधवी, वैष्णवता लगती है  
मेरा यह कैसा अकेलापन”

(‘धूप कृष्णा’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-27)

अथवा

“आरात्रिक कैसी यह वानस्पतिप्रियता

धूप मे  
हवा मे  
माटी मे होती है,  
यह होना ही पूजा है।  
वृक्ष जब धर्म रूप होता है  
फूल खिलता है  
उसकी यह उत्सव वैष्णवता ही  
मुझे पूर्ण करती है।”

(‘पूर्णता’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-52)

अथवा

“वैयक्तिकता  
या अपनी अमूल्य ऐकान्तिकता को

चौराहे की चीज बनाकर क्या मिला है?  
काव्य या करुणा  
या किसी भी उदात्तता का  
तुम्हारे लिए शायद अब कोई अर्थ नहीं रह गया है।”

(‘एक प्रश्न’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-60)

अथवा

“पशु प्रिया दूर्वाओं में  
ये हरिद्र अकुर  
क्या मात्र पत्तियाँ हैं?  
इनमें स्तुतियों की सी कृतकृत्यता नहीं लगती?”

(‘महाभाव’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-42)

अथवा

“हवा में उड़ते तुम्हारे चीनाशुक में  
और पीले रग के केना के  
हिलते हरे प्रलम्ब पत्तों में  
केलि-प्रसग जैसी  
एक लयता है  
जो कि गुलाब उड़ाती  
कुमार गन्धर्व की आलाप की कमनीयता ही हो सकती है।  
रुमालों जैसे पतले दल के  
हिलते केना में  
और सान्ध्य धूप में  
लान पर टहलती तुम में  
जाने कैसी मध्यकालीन कुलीनता की साम्यता है

जो कि तोल्सतोय की नताशा मे ही सम्भव है।”

(‘पता नहीं कौन’ ‘तुम मेरा मौन हो’ पृष्ठ-1)

अथवा

“मेरे इस एकान्त की सीढ़िया चढ़कर देखो  
तुम्हे लगेगा कि  
किसी जल—वाद्य के परदो पर  
कमश चढ़ते हुए तुम  
मेरे एकान्त को मन्दाकान्ता भाषा दे रही हो।  
बाउल—गान की आकुलता वाले  
इस एकान्त की तन्मयता ही तुम्हारा स्मरण है प्रिया”

(‘स्मरण गन्ध’ ‘तुम मेरा मौन हो’ पृष्ठ -10)

अथवा

“यदि बन सको—  
इन पर्वतो की भाति औघड  
नदियो की भाति पारदर्शी स्वरूप  
और इन आदिम हवाओ की भाति अनागारिक  
तो, तुम्हे  
यह घासो वाली छोटी सी निर्जनता ही  
केश खोले किन्नरियो सी अलभ्य लगेगी  
और इसी अलभ्यता के आमन्त्रण के  
किसी छोर पर ही  
साधारण दूर्वाओ जैसी वह अप्राप्यता है  
जो कामधेनु है।”

(‘कामधेनु’ ‘अरण्या’ पृष्ठ 7-6)

अथवा

“राजमहिषी अलकृता भाषा ने  
जैसे ही एकान्त देखा  
तो अपने सारे आभरण, अलकार और सार्वजनिकता  
व्यक्तित्व पर से उतार डाले  
और परिरम्भण मुद्रा मे  
निर्धूम हो गयी ।”

(‘भाषानिपात’ ‘अरण्या’ पृष्ठ-16)

अथवा

“तपते तो घर भी है  
और वृक्ष भी,  
मगर यह तुम पर निर्भर करेगा, कि  
तुम किस तपस्विता को चुनते हो  
घर की  
या वृक्ष की ?”

(‘तपस्विता’ ‘आखिर समुद्र से तात्पर्य’ पृष्ठ-16)

अथवा

“सागर! तुम्हे नहीं लगता, कि  
तुम्हारी यह चिरजीविता  
स्वयं तुम्हारे लिए ही अभिशाप है?  
तुम किसी भी दिन क्या  
किसी भी क्षण  
कही भी  
ध्रुव से लेकर ध्रुव तक

अपनी इस विशालता को  
 कितना ही उलटो-पलटो  
 पछाडे खाओ  
 तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसी निबद्ध हो गयी है, कि  
 तुम्हे एक क्षण को भी  
 छोटे से जलाशयवाली  
 न मनोरम काम्यता ही प्राप्त हो सकती है  
 और न मधुरिमा ।”

(‘चिरजीविता’ ‘आखिर समुद्र से तात्पर्य’ पृष्ठ-80)

अथवा

“आक्षण, प्रतिपल दिग्मण्डल मे  
 यह कैसी अनाश्रयी चिन्मयता है  
 जो विपरीत गुणात्मकता मे  
 क्षण—क्षण पर अभिव्यक्त हो रही  
 लुप्त हो रही  
 हिम—आतपवाली इस भावसृष्टि मे  
 विद्युत की कणादता लेकर  
 घटित हो रही  
वैश्वनरता ।”

(‘महाप्रस्थान’ पृष्ठ-42)

अथवा

“ज्यारो के कशाघात सहते  
 योजनो विस्तार मे फैले  
 सागरो

समुद्रो को कभी देखा है?  
 यह कैसी वैश्वानरी विवशता है  
 जो वनस्पतियों से लेकर  
 दीपों की एकान्तता  
 वनों की अगाधता  
 आकाश की अगम्यताओं तक  
 अनासक्त भाव से व्याप्त है।"

(‘प्रवाद पर्व’— पृष्ठ-25)

अथवा

“उन नयानों में करुणा थी  
 औ, थी पवित्र पावनता  
 उसको सब प्रभुमय लगता  
 थी उसमें प्रभु की प्रभुता।

(‘शबरी’ पृष्ठ-40)

उपर की काव्य पवित्रियों में रेखाक्रित भाववाचक शब्दों की बहुलता कवि नरेश की काव्यभाषा के आयाम को दिखलाते हैं। जिनमें भाववाचक सज्जा उनकी अनुभूति चेतना का केन्द्रिय तत्व बन जाता है। नरेश जी ने अपनी काव्यभाषा को बार-बार उसी परिणति तक पहुँचाते हैं, जहाँ सज्जा की भाव वाचकता ही उनकी सृजन चेतना की पहचान बन जाती है। वस्तुत भाव वाचकता की तरफ उनकी रुझान लगातार स्थूल से सूक्ष्म की ओर उनके विकास की पर्याय है। इस भाववाचकता में उनके आत्मा की सुगम्भ एक सर्जनात्मक मिठास भरती है। पाठक भी उसी भाववाचकता में रमण करने लगता है। यह भाववाचकता केवल भाषिक तत्व नहीं है। यह कवि की सर्जनात्मक संवेदना की भाषिक परिणति है। कवि की संवेदना स्थूल धरातल पर टिकती नहीं है। वह हमेशा सूक्ष्म वायवीयता

की ओर बढ़ती है। इसी को दृष्टि मे रखकर यह कहा गया है कि नरेश मेहता की काव्य चेतना मे वायवीयता का प्राधान्य है। वे ठोस और तरल अवस्थाओं के कवि नहीं हैं। “नरेश मेहता की काव्यभूमि उस कड़ाही से तुलनीय है जिसके नीचे निरन्तर आग जलती हो और कड़ाही का तरल पदार्थ वाष्पपूरित होकर वायव्य अवस्था को प्राप्त होता रहता हो। मैंने नरेश मेहता की सर्जनात्मक भूमि को प्रेम के उन्नयन और उदात्तीकरण की एक भूमि के रूप मे ही देखा और पहचाना है। ‘उत्सवा’ की प्रत्येक कविता मे मनुष्यता की एक कल्याणी गन्ध नासा-पुटो को भरती रहती है। जैसा मैंने कहा नरेश जी की रचनाएँ अपने आयतन को प्रसारित करती हुई आकार को पात्र की क्षमता के अनुकूल बदलती हुई पात्र की चेतना को पूरा का पूरा भर देती हैं। एक अजीब तन्मयता का अहसास इन कविताओं से गुजरते हुए होता है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अपनी चेतना-सत्ता का अहसास पाठक के भीतर जैसे उतारता चला जा रहा हो।”

(‘आर्ष प्रज्ञा के कवि श्री नरेश मेहता’ ‘नई कविता नई दृष्टि’—पृष्ठ-122)

नरेश मेहता के काव्य भाषा की दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है— औपनिषदिक बिम्ब लोक की भाषा। नरेश जी का काव्यलोक मिथकों का लोक है, प्राचीन आर्ष—प्रतीकों का लोक है, भारतीय चिन्तन धारा को समोने वाला लोक है। नरेश मेहता का कवि व्यक्तित्व पूरी आर्ष—चिन्तन शीलता मे छूबा हुआ है। उनकी सम्पूर्ण शब्दावली उसी आर्ष—परम्परा मे सस्कारित हुई है। नरेश मेहता के कवि व्यक्तित्व का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, केन्द्रीय आयाम उनका बिम्ब विधान है, ये विम्ब प्रकृति से उठाये गये बिम्ब हैं, जिसमे पृथकी, आकाश और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समाविष्ट है। ये बिम्ब भारतीय आर्ष परम्परा से उठाये गये हैं, जिनका आधार सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय सस्कृत वाङ्मय, वेद, उपनिषद और अन्य भारतीय वाङ्मय जब नरेश मेहता किसी एक बिम्ब को प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ एक पूरा बिम्ब लोक पाठक की मनस

चेतना के सामने कौंध जाते हैं। वह मात्र एक बिम्ब नहीं रह जाता है, भारतीय चिन्ता धारा का एक महत्वपूर्णफलक पाठक की चेतना में कौंधने लगता है।

यो तो उनकी पूरी काव्य यात्रा एक प्रकार से इसी बिम्ब विधान की यात्रा है किन्तु 'उत्सव' तक आते—आते इसकी सघनता और मिथकीयता चरम पर पहुँच जाती है। आधुनिक कविता की भाषा पर जब हम विचार करते हैं तो इन प्रतीकों, बिम्बों और मिथकों का गहरा महत्व हमारी समझ में जाते हैं और कहाँ उनकी मिथकीय चेतना एक आने लगता है। नरेश मेहता कहाँ बिम्ब से चलकर मिथक लोक में गहरे बिम्ब विधान की अन्विति प्राप्त कर लेती है यह देखते ही बनता है। नरेश मेहता के काव्यभाषा का यह बिम्ब मिथक सश्लेष अपने आप में अनोखा है। 'उत्सव' की कोई भी कविता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे —

‘नित्य एक उपनिषद् लिखा जा रहा है  
जो आख्यान होते हुए भी  
आख्यान नहीं है  
जो शतपथ होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है  
परन्तु, आक्षण एक उपनिषद् लिखा जा रहा है।’

(‘उत्सव उपनिषद्’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ-106)

इस काव्याश में उपनिषद्, आरण्यक, आख्यान, शतपथ, और ब्राह्मण— ये सारे प्रयोग अपने पारम्परिक अर्थ का अति कमण करते हैं। और एक नयी औपनिषदिक सृजनात्मकता का सूत्रपात करते हैं। इसी प्रकार —

“एक दिन मनुष्य सूर्य बनेगा  
क्योंकि वह आकाश में पृथिवी का  
और पृथिवी पर आकाश का प्रतिनिधि होगा।  
मनुष्य के इस देवत्व के माध्यम से ही

यह सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरत्व प्राप्त करेगी  
 मनुष्य का अभिषेक  
 देवत्व का ही नहीं ईश्वरत्व का भी अभिषेक है।  
 इसीलिए होने दो अभिषेक।।  
 मनुष्य मात्र का होने दो अभिषेक।।”

(‘अभिषेक—पुरुष’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ—111)

इन काव्य पवित्रियों में भाषा और सवेदना का इतना गहरा सश्लेष है कि एक ओर ये मनुष्यता के चरम उत्कृष्ट का सदेश देती है तो दूसरी ओर पृथ्वी आकाश और सूर्य की सम्पूर्ण बिम्बात्मकता को व्यजित करते हुए नरेश मेहता की काव्य वैष्णवता का आख्यान करती है।

‘उत्सवा’ की एक अत्यन्त सशक्त कविता है ‘लीला—भाव।’ पूरी कविता अपने औपनिषदक बिम्बो के द्वारा, जो जितने बिम्ब हैं उतने ही मिथक, पाठक की चेतना को एक ऐसे उर्ध्व फलक पर खीच जे जाती है जहाँ धरती उसके बहुत नीचे छूट जाती है।

“हमारी आयु के ये वस्त्र  
 ये विभिन्न वर्ण मात्राएँ  
 थे विनम्र वनस्पतियाँ  
 ये कामातुर नदियाँ  
 हमारे जीवन की  
 भाषाओं की  
 पृथ्वी की  
 और पदहीन पदार्थों की स्वाहा—यात्राएँ होती है।  
 आकाशों के भी आकाश के वेदी पर रखे  
 सृष्टि के इस हवन कुण्ड मे

यह कौन पचानन  
 अहोरात्रि आह्वान कर रहा है?  
 अनन्त आयामी समय की समिधाएँ डाली जा रही हैं।  
 जो समस्त जलो का आचमन कर रहा है।  
 जिसने प्रकाश का त्रिपुण्ड लगा रखा है।  
 जो आकाश पर पैर रखकर  
 हवाओं को ब्रह्माण्ड में सुखा रहा हैं  
 और जो ध्वनियों को टिटकारता हुआ  
 गायों के झुण्ड सा  
 दिशाओं के बाडे से बाहर  
 के भी ब्रह्माण्ड में ले जा रहा है।  
 उस अग्नि के सग धू जटित का यह कैसा लीला भाव है।  
 सद् किसका लीलाभाव है ।”

(‘लीला भाव’ ‘उत्सवा’ पृष्ठ 97–98)

बिम्ब और मिथक के ये सश्लेष एक ऐसे विस्फोट सरीका है जहाँ  
 पाठक केवल अभिभूत ही नहीं होता, वह पूरी तौर पर चमत्कृत हो उठता है।  
 यहाँ उसकी चेतना में वह पचानन कौधने लगता है जो आकाशों के भी आकाश  
 की वेदी पर पाव रखकर सृष्टि के हवन कुण्ड में अहोरात्र आह्वान कर रहा है।  
 उसी मनस चेतना के सामने वह अग्नि के केशिन धूल जटित नाच उठता है जो  
 आकाश पर पैर रखकर हवाओं को ब्रह्माण्डों में सूखाता है और ध्वनियों को  
 गायों के झुण्ड सा टिटकारता हुआ दिशाओं के बाडे से बाहर निकालकर  
 ब्रह्माण्ड के भी ब्रह्माण्ड से बाहर ले जाती है। नरेश मेहता की काव्य भाषा का  
 यह चरस उत्कर्ष है जहाँ औपनिषदिक बिम्ब और मिथक एक दूसरे में सक्रिय  
 होते चलते हैं और एक ऐसी मिथकीय दृश्यावनियों को प्रस्तुत करते हैं जहाँ

पाठक पूरी भारतीय और औपनिषदिक परम्परा का दृश्यावलोकन करने लगता है।

अंकता ३

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति :

समाचार विभाग

का

समाचार विभाग

‘दूसरा सप्तक’ के अपने वक्तव्य में अपनी कविता की बनावट को स्पष्ट करते हुये रघुवीर सहाय ने लिखा है – ‘मैंने अपनी कविता के इस चरण तक पहुँचते—पहुँचते शैली में ताल और गति के कुछ प्रयोग कर पाये हैं । ताल को साधारण बोल—चाल की ताल के जैसा बनाने में कुछ कविताओं में, जैसे ‘अनिश्चय’ और ‘मुँह अँधेरे’ तथा ‘दुर्घटना’ में थोड़ी बहुत सफलता मिली है । हलाँकि उस कोशिश में भी कही—कही उर्दू की गति की बधी हुई शैली का सहारा लेना पड़ा है । भाषा को भी साधारण बोल—चाल की भाषा के निकट लाने की कोशिश रही है, मगर उसमें भी कही—कही भाषा की फिजूलखर्ची करनी पड़ी ।’

(‘दूसरा सप्तक’—‘वक्तव्य’—पृ०—138)

सुरेश शर्मा को दिये एक साक्षत्कार में काव्यभाषा के सम्बन्ध में रघुवीर सहाय कहते हैं— “मैं काव्यभाषा को न तो भाषा, शास्त्री की तरह देख सकता हूँ और न आर्लोचक की तरह से । यह तो नहीं कहूँगा कि सबकुछ मैं सहजभाव से कर देता हूँ और मुझे पता नहीं चलता । ऐसा तो नहीं है । मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ । बल्कि जैसा कि मैंने आपसे एक और प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अपने वैचारिक आधार को मैं जानता हूँ तो कविता करने के कारण जानता हूँ यानि कविता करते हुए मैं अपने वैचारिक आधार को पहचानता चलता हूँ, जबकि यह भी सच है कि एक वैचारिक आधार पहले से रहता है । उसी तरह से यहाँ भी आवाजों की शक्ल में बिन्दों की शक्ल में, शब्दों के अर्थों की शक्ल में शिल्प का एक नमूना—कुल मिलाकर पूरी रचना के रख—रखाव, तौर—तरीके, रुझान, तथा शक्ल, सबके सन्दर्भ में एक हलका सा कभी—कभी स्पष्ट और कभी अस्पष्ट नमूना—रचना करने से पहले रहता है ।”

(रघुवीर सहाय का कवि कर्म—सुरेश शर्मा—पृ०—149)

अपने कविता लिखने का आरम्भ और अपने उपर पड़े हिन्दी के विशिष्ट कवियों के प्रभावों की चर्चा करते हुए 'दूसरा सप्तक' के अपने वक्तव्य में सहाय जी ने स्वीकार किया है – 'मैंने 1947 में एक बार 'बच्चन' की कविताएँ पढ़ी और उनकी वेदना से मेरा कण्ठ फूटा । तभी से लिखना आरम्भ किया । कुछ समय बाद माथुर के कुछ सफल और कुछ असफल रगों ने मुझे अपनी थोड़ी बहुत सामर्थ्य का बोध कराया और मैंने अपनी कला के प्रति सजग होकर लिखने की कोशिश की ।

'पन्त' और 'निराला' का अगर असर हुआ तो बहुत टेढ़े तरीके से । अन्य आधुनिक कवियों में 'अज्ञेय' और शमशेर बहादुर ने जिनकी बौद्धिक आत्मानुभूति और बोध गम्य दुरुहता किसी हद तक एक ही-सा प्रभाव डालती है— मुझे अपनी आगामी रचनाओं के लिए काफी तैयार किया है ।'

(‘दूसरा सप्तक’ – पृ०-138)

शुरेश शर्मा ने रघुवीर सहाय द्वारा सृजित 'कामना' शीर्षक कविता को उनकी पहली सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहा है । उनके अनुसार— 'रघुवीर सहाय ने 1946 में लिखना शुरू किया । पहली बार उनकी कविता 'आदिम सगीत' शीर्षक से 'आजकल' के अगस्त 1947 अक्टूबर में प्रकाशित हुई । वैसे उनकी पहली कविता 'कामना' शीर्षक से लिखी गई थी जो सम्भवत कही छपी नहीं । कवि की उस समय की पुरानी डायरी पर इस कविता की रचना तिथि लिखी है '7 अक्टूबर 1946' ।'

(‘रघुवीर सहाय का कवि कर्म’ – ‘सुरेश शर्मा’ पृ०-१)

'दूसरा सप्तक' में रघुवीर सहाय की छोटी-बड़ी चौदह कविताएँ सकलित हैं, जिनमें एक गजल भी है । इन कविताओं में प्रेम, सौन्दर्य और प्रकृति चित्रण से सम्बन्धित कविताओं की अधिकता है । यद्यपि काव्य-विकास की दृष्टि से इन कविताओं को कवि का आरम्भ ही कहा जायेगा । इन आरम्भिक कविताओं

मे कही उनकी वैयक्तिक अनुभूति दृष्टिगत होती है तो कही प्रकृति के सुन्दर चित्र—

“लो, सहसा झर—झर कर पहला झोका आया  
हम बढ़े घरों की ओर तनिक जल्दी—जल्दी दौड़े—दौड़े ।  
दो गोरे—गोरे बलगर बैलों की गोई  
हो गयी ठुमककर खड़ी पकरिया के नीचे  
उड़ गयी चहककर नीबी की सबसे ऊँची ।  
फुनगी पर वैठी गौरैया  
फैली चुनरिया अटरिया चढ़ लायी उतार  
जल्दी—जल्दी घॉघर समेट घर की युवती ।

(‘दूसरा सप्तक’ ‘पहला पानी’ पृ० – 142)

‘पहला पानी’ शीर्षक इस कविता मे कवि ने अपने प्रकृति चित्रों मे प्राकृतिक सौन्दर्य और मनुष्य की स्थिति को एक साथ जोड़कर अकित करने का प्रयास किया है । ऐसे वर्णनों मे कवि की आत्मीयता और खुलापन दृष्टिगत होता है ।

‘दूसरा सप्तक’ के बाद 1960 ई० मे भारतीय ज्ञान पीठ, काशी से उनकी रचनाओं का पहला स्वतन्त्र सग्रह ‘सीढ़ियों पर धूप मे’ प्रकाशित हुआ, जिसके सम्पादक ‘अज्ञेय’ जी थे । इसमे कहानियाँ और लेख भी सकलित हैं । इसमे कुल 78 कविताए हैं । इन कविताओं मे रघुवीर सहाय के काव्यानुभव के अनेक आयाम खुलते हैं । अन्तर्वस्तु की विविधता की दृष्टि से यह सग्रह बड़ा ही समृद्ध है । इसकी भूमिका मे ही अज्ञेय जी ने लिखा है कि – “अपने छायावादी समवयस्कों के बीच ‘बच्चन’ की भाषा जैसे अलग आस्वाद रखती थी, उसी प्रकार अपने विभिन्न मतवादी समवयस्कों के बीच रघुवीर सहाय भी चट्टानों पर चढ़ नाटकीय मुद्रा मे बैठने का मोह छोड़ साधारण घरों की सीढ़ियों पर धूप मे

बैठकर प्रसन्न है । यह स्वस्थ भाव उनकी कविताओं को स्निग्ध मर्म स्पर्शिता दे देता है – जाड़ों के घाम की तरह उसमें तात्काणिक गरमाई भी है और एक उपर खुलापन भी ।”

(‘सीढ़ियों पर धूप में’ की भूमिका) – ‘अङ्गेय का वक्तव्य’ पृ०-५)

इस सग्रह में प्रकृति धूप, पेड़, खुशबू, फूल, बसन्त, मौ, गौरैया, प्रेम और सौन्दर्य तथा स्त्री सम्बन्धी कविताएं हैं । इन कविताओं में कवि की उदार और मुक्त सवेदना तथा मानवीय रागात्मकता के दर्शन होते हैं –

“आज फिर शुरू हुआ जीवन  
आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी  
आज मैंने सूरज को ढूबते देर तक देखा  
जीभर आज मैंने शीतल जन से स्नान किया  
आज एक छोटी सी बच्ची आयी, किलक मेरे कन्धेचढ़ी  
आज मैंने आदि से अन्त तक एक पूरा मान किया  
आज फिर जीवन शुरू हुआ ।”

(‘आज फिर शुरू हुआ’ – ‘सीढ़ियों पर धूप में’ पृ०-१६५)

‘सीढ़ियों पर धूप में’ में सकलित ‘आज फिर शुरू हुआ’ कविता में कवि ने जिस क्षण को पूरी समग्रता से लिया है उसी को ईमानदारी के साथ वाणी दी है । शुरेश शर्मा ने उपर्युक्त कविता के विषय में लिखा है – “जीवन की जिस स्वाभाविक रचनात्मक स्थितियों की खोज के द्वारा यहाँ कविता सभव की गयी है, उससे साधारण जीवन में ‘नया रस’ तथा ‘नया महत्व बोध’ उत्पन्न हो रहा है । पूरी दिनचर्या से कविता में जिन सामान्य स्थितियों का चुनाव किया गया है उसके प्रति कवि की सिर्फ आत्मीयता ही कविता में महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है यहाँ जीवन की सामायन्त्रिकों के बीच जीवन की स्वाभाविक रचनाशीलता की सार्थक पकड़ ।”

(‘रघुवीर सहाय का कवि कर्म’— ‘सुरेश शर्मा’— पृ०-३३)

‘आत्महत्या के विरुद्ध’ काव्य सग्रह रघुवीर सहाय की यश काया का एक सशक्त आधार है। उनके काव्य-विकास की दृष्टि से यह सग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें 1960 से 1967 तक की कविताएं सकलित हैं। यह उनका पहला स्वतन्त्र काव्य-सग्रह भी कहा जा सकता है। यह सग्रह कवित के अपने व्यक्तित्व की खोज की एक बीहड़ यात्रा है। मनुष्य से नगे वदन सम्पर्श करने के लिए ‘सीढ़ियों पर धूप में’ कवि ने अपने को लैस किया था। बाद में कवि का वही साक्षात्कार ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ की कविताओं में एक चुनौती बनकर उभरा है। अपने को किसी भी कीमत पर सम्पूर्ण व्यक्ति बनाने की लगातार कोशिश के साथ रघुवीर सहाय ने पिछले दौर से निकलकर ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ में एक व्यापक ससार में प्रवेश करने की कोशिश की है। इस ससार में भीड़ का जगल है, जिसमें कवि एक साथ अपने को खो देना चाहता है और पा भी लेना चाहता है। इस सग्रह में सामान्य मनुष्य की दयनीय स्थिति, राजनीतिक अवसरवाद लोकतन्त्र की हास्यास्पद स्थिति, रोज-रोज थोड़ा-थोड़ा मरते हुए मतदाता की व्यथा कथा तथा देश को पतन के गर्त में ले जाने वाले नेताओं के प्रति अत्यधिक आक्रोश को पूरी तरह कविता का विषय बनाकर बड़े ही साहस के साथ बेवाक ढग से प्रस्तुत किया गया है।

‘स्वाधीन व्यक्ति’ शीर्षक कविता में कवि ने स्वतन्त्र भारत में सामान्य जन की वस्तु स्थिति को उसकी विडम्बनाओं, समूची विसगतियों और व्यर्थताओं के साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में खोलकर रख दिया है—

“खण्डन लोग चाहते हैं या कि मण्डन  
या फिर केवल अनुवाद लिसलिसाता भवित से  
स्वाधीन इस देश में चौंकते हैं लोग  
एक स्वाधीन व्यक्ति से”

(‘आत्म हत्या के विरुद्ध’ – ‘स्वाधीन व्यक्ति’–पृ०-75)

‘हँसो— हँसो जल्दी हँसो’ काव्य संग्रह मे सहाय जी की 1967 से लेकर 1973 तक की कुल 51 छोटी-बड़ी कविताए संकलित है । इस संग्रह की कविताओ मे मुख्य रूप से शोषको द्वारा पूरी तरह से शोषित साधारण मनुष्य का त्रासद, उसका बेवस रूप, उसकी निरीहता, उसकी पीड़ा से कराहता रूप, उसकी दयनीय दशा, उसकी विडम्बना, उसकी अभाव से ग्रस्त जिन्दगी का चित्र है । नन्द किशोर नवल के शब्दो मे — “राजनीति ‘हँसो—हँसो जल्दी—हँसो’ की कविताओ का मुख्य विषय है, लेकिन इन कविताओ का असली नायक साधारण जन है, जो कविताएँ राजनीतिक हैं उनके पार्श्व मे भी साधारण जन ही खड़ा है, या फिर साधारण जन के नजरिये से ही कवि ने किसी राजनीतिक घटना या चरित्र को देखा है ।”

(‘रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्य भाषा’ – ‘डॉ० अनन्तकीर्ति तिवारी’  
—पृ०-34)

दमन और आतक से भरे वर्तमान समाज मे मुक्ति के अहसास की सबसे सहज और मानवीय अभिव्यक्ति ‘हँसी’ आज विचित्र विडम्बनाओ का शिकार हुई है । ‘हँसी’ के इस नये रूप को रघुवीर सहाय ने अक्सर अपनी कविता मे पहचानने की कोशिश की है । लोठार लुत्से से बातचीत के दौरान उन्होने कहा भी है कि— “हँसी को मैने आदमी की बदलती हुई हालत का सूचक जैसा मान लिया है और जहाँ भाषा से, उसकी भाषा से, उसको समझना उतना आसान नही होता है, वहाँ आप अक्सर देखते हैं कि आदमी की हँसी से आप उसको समझ लेते हैं ।”

(‘रघुवीर सहाय का कवि कर्म’—‘सुरेश शर्मा’—पृ०-125)

‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो’ शीर्षक कविता इस विडम्बनापूर्ण हँसी से साक्षात्कार का अन्यतम उदाहरण है —

“हँसते—हँसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हँसते हो  
सबको मानने दो कि तुम परास्त होकर  
एक अपनाने की हँसी हँसते हो जैसे सब हँसते हैं बोलने के बजाय ।

x                x                x

बेहतर है कि जब कोई बाज़ करो तब हँसो  
ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे ।”

(‘हँसो— हँसो जल्दी हँसो’ – ‘हँसो— हँसो जल्दी हँसो’ – पृ०-25)

रघुवीर सहाय की कविताओं में सिर्फ शोषित जनों की विडम्बनापूर्ण हँसी  
ही नहीं बल्कि शोषित वर्ग के प्रतिनिधियों की अश्लील और भयावह हँसी भी  
सुनाई पड़ती है –

“निर्धन जनता का शोषण है  
कहकर आप हँसे  
लोकतत्र का अन्तिम क्षण है  
कहकर आप हँसे  
सबके सब हैं भ्रष्टाचारी  
कहकर आप हँसे  
कितने आप सुरक्षित होगे  
मैं सोचने लगा  
सहसा मुझे अकेला पाकर  
फिर से आप हँसे”

(‘हँसो— हँसो जल्दी हँसो’–‘आप की हँसी’ – पृ०-16)

1975 से लेकर 1982 तक की कविताओं का सग्रह ‘लोग भूल गये हैं’  
नाम से राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इस सग्रह की  
कविताओं में जिन नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को लोगों ने भुला दिया है और

सस्कृति के सभी नियमों की उपेक्षा करने का प्रयास किया है, उसी की याद दिलाने की कवि ने भरसक कोशिश की है। इस सग्रह की कविताएँ सामाजिक नैतिकता को बचाने का सन्देश प्रस्तुत करती हैं और समाज में व्याप्त वैषम्य को समूल नष्ट करने के लिये भी एक अलग प्रेरणा प्रदान करती हैं। 'लोग भूल गये हैं' तक के अपने काव्य-विकास की यात्रा की बड़ी सूक्ष्म परख करते हुए रघुवीर सहाय ने इस सग्रह के अपने 'निवेदन' का आरम्भ करते हुये लिखा है – "इस सग्रह की रचनाएँ मेरे काव्य जीवन के जिस दौर मे लिखी गयी वह अभी हाल मे शुरू हुआ और अभी निबटा नहीं है, दिखता है कि वह अभी चलेगा। मङ्गधार मे या कहे कि बीच भैंवर मे लिखी हुई कविता प्रकाशित कर देने का यह मेरा पहला अवसर है। इसके पूर्व 'आत्महत्या के विरुद्ध' और हँसो- हँसो जल्दी हँसो' दोनो एक-एक निष्कृति के सूचक थे। उसके पहले 'सीढियो पर धूप मे' कविता के एक से अधिक पड़ावो तक सहेजकर ले जायी गयी उपलब्धियो का सचय था। उसके भी पहले 'दूसरा सप्तक' मे आकलित रचानाएँ अत्यन्त प्राथमिक कविताओं के अभ्यासमूलक दौर से निकलते ही अपनी दुनिया मे पैर रखने के समय की कविताएँ थीं अलबत्ता जैसा 'हँसो- हँसो जल्दी हँसो' मे हुआ था, प्रत्येक सग्रह मे कुछ रचानाएँ कही तो एक दिशा मे चलने की तैयारी करके वह रास्ता छोड़ देने की निशानियाँ थीं, कही भविष्य मे उस रास्ते को फिर पकड़ने के लिए पहचाने थीं।

('लोग भूल गये हैं' सग्रह के कवि के 'निवेदन' शीर्षक से उद्धृत)

'लोग भूल गये हैं' सग्रह की 'भविष्य' शीर्षक कविता मे अत्याचारी की पूरी जाँच पड़ताल की गयी है। निम्नाकित पवित्रों मे कवि सत्ताधारीयों के मनुष्य विरोधी दुहरे चरित्र की ओर इशारा करते हुये अवसरवादी भ्रष्ट शासन के लोगों के उपर कड़ा प्रहार करते हुए तथा वर्तमान स्थिति का सटीक चित्रण किया है –

“होशियार हल चल है बहुत गतिविधियाँ हैं  
 तीस साल से जो अध्यक्ष थे बने हुए  
 दो मुँही भाषा के बूते जो एक साथ  
 निर्भीक दिखते थे पाखण्डी भी थे  
 आज इन दो को छोड़ कुछ नहीं रह गया  
 अब वह बर्बरता के बूते अध्यक्ष हैं ।”

(‘लोग भूल गये हैं’ – ‘भविष्य’– पृ०-२५)

‘कुछ पते कुछ चिठियाँ’ शीर्षक सग्रह सन् 1989 मेरा राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था । इसमे सन् 1982 से लेकर सन् 1989 तक की कविताएँ सग्रहीत हैं ।

सहाय जी ने इस सग्रह मे चिठियों के रूप मे जो अमर सन्देश लिखने का प्रयास किया है, वे चिठियाँ डाक से नहीं भेजी जा सकती हैं, क्योंकि पते बदलते रहते हैं । इस सग्रह मे सकलित कविताएँ कोई व्यक्तिगत सन्देश नहीं हैं और न तो गश्ती परिपत्र । ये कविताएँ हर आदमी के पास पहुँचने और बोली या पढ़ी जाने पर चिठियाँ बनती हैं ।

“पिछले सग्रह की कविताएँ लिखते समय सामाजिक चेतना और रचनात्मक अभिव्यक्ति के जिस दौर के बीच से कवि अपनी कविताएँ लेकर पाठकों के सामने अपनी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था वह दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है । भाषा के अनेक प्रकारों पर राजनैतिक और व्यावसायिक कब्जे ने भाषा की रचनात्मकता को अनेक प्रकार से विकृत और कुठित किया है ।”

(‘रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्या भाषा’–डॉ० अनन्त कीर्ति तिवारी–पृ०-५७)

स्वयं रघुवीर सहाय ने इस सग्रह के निवेदन मे लिखा है – “कवि का आज का सकट नया नहीं है । नया केवल सघर्ष के पिछले दौर मे पराजय

बोध है और साथ ही यह प्रश्न भी कि अन्याय और दासता की पोषक और समर्थक शक्तियों ने जब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि मानवीय अधिकारों के लिए सघर्ष करने वाले अपनी हर लड़ाई में उन्हीं के आदर्शों की पूर्ति करते दिख रहे हैं, जिनके विरुद्ध सघर्ष है, तब रचनाकार इस सघर्ष में अपनी हिस्से दारी कैसे निबाहे ।”

(‘कुछ पते कुछ चिठ्ठियाँ’ के निवेदन से उद्घृत)

आर्थिक रूप से विपन्न सामान्य व्यक्ति के समूचे दुख दर्द को सहाय जी ने अपनी कविताओं में वाणी दी है । ‘अखबार वाला’ शीर्षक कविता में कवि एक अखबार बेचने वाले के सघर्ष को अपनी कविता का विषय बनाया है –

“धधकती धूप मे रामू खड़ा है  
खड़ा भुल—भुल से बदलता पाव रह—रह  
बेचता अखबार जिसमे बड़े सौदे हो रहे हैं ।

x            x            x

वहाँ जब छाँह मे रामू दुआएँ दे रहा होगा  
खबर वातानुकूलित कक्ष मे तय कर रही होगी  
करेगा कौन रामू के तले की भूमि पर कब्जा ।”

(‘कुछ पते कुछ चिठ्ठियाँ’— ‘अखबार वाला’—पृ० 75)

रघुवीर सहाय की मृत्यु के उपरान्त 1995 मे राज कमल प्रकाशन से उनका अन्तिम कविता संग्रह ‘एक समय था’ प्रकाशित हुआ, जिसके सकलन कर्त्ता और सपादक सुरेश शर्मा हैं । इस संग्रह मे 78 कविताएँ हैं । इन कविताओं का सकलन और सम्पादन करते समय सुरेश शर्मा ने यह महसूस किया कि सहाय जी की ये कविताएँ उनके सम्पूर्ण कविता लेखन का उपसहार हैं । ऐसा लगता है कि जैसे इन कविताओं मे वे अतीत के अपने सारे किए हुए पर टिप्पणी कर रहे हैं और अपने समय के सघर्ष की परिणति भी बता रहे हैं ।

इस सग्रह की अधिकाश कविताएँ रघुवीर सहाय के जीवन के अन्तिम चार—पाँच वर्षों की हैं। इन कविताओं में कवि की मृत्यु के कुछ पहले की सोच को रेखांकित किया जा सकता है। एक तरह से इस सग्रह में कवि के व्यक्तित्व की सम्पूर्णता को लक्ष्य किया जा सकता है।

वर्तमान समय से सत्ता और वाणी का द्वन्द्व तीव्रतर होता जा रहा है, भाषा के माध्यम से ही अपना विरोध प्रगट किया जा सकता है लेकिन शक्तिशाली शासन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि कोई उसका विरोध करने का साहस ही न कर सके। 'प्रश्न' शीर्षक कविता की निम्नांकित पक्षितयों इसका अन्यतम उदाहरण है—

“और उसने निडर होकर कहा  
आप जनता की जान नहीं ले सकते  
सहसा बहुत से सिपाही वहाँ आ गये ।”

("एक समय था"—'प्रश्न'—पृ०—85)

रघुवीर सहाय की काव्यभाषा की निम्नांकित विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है—

- 1— सामान्य भाषा का काव्यभाषा में रूपान्तरण
- 2— पत्रकारिता की भाषा का काव्यभाषा में रूपान्तरण
- 3— सपाट बयानी
- 4— व्यग
- 5— रघुवीर सहाय की कविता में बिम्बात्मकता

सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है, उसे सामान्य भाषा कहते हैं। सामान्य भाषा और कविता की भाषा में अन्तर होता है। पालं बेलरी की धारणा है कि सामान्य भाषा वही समाप्त हो जाती है जब उसे समझ लिया जाता है। सामान्य कथन

सूचनात्मक होता है, काव्यात्मक कथन संदेश परक । सामान्य भाषा के शब्द रुढ़ और सहिताबद्ध होते हैं । कवि उनहे नये सदर्भ और नयी अर्थ – छायाएँ देता है । काव्यात्मक सरचना मेरु रुढ़ शब्द भी नये मुलम्मे के कारण अद्वितीय और विशिष्ट बन जाते हैं । कुओंरी धूप, सॉवले तनाव, मधुमय अभिशाप, अधा चौंद इसी प्रकार के सन्देश परक प्रयोग हैं । इन प्रयोगों मेरु सर्जक की अनुभूति और पाठक के प्रति उसकी अभिवृत्ति ही उजागर नहीं होते बल्कि कविता की भाषिक सरचना आन्तरिक सन्देश परक भूल्यवत्ता के कारण स्थायी महत्व पा जाती है ।

(‘रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्य भाषा’ डॉ० अनन्त कीर्ति तिवारी’—पृ०—104)

जीवन की समग्रतर अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्नशील होने के कारण नयी कविता मेरु भाषा का बोलचाल रूप खुले यह स्वाभाविक है । पिछले युगों की कविता उदात्त चरित्रों के उदात्त जीवन की उदात्त अभिव्यक्ति थी । नयी कविता उदात्त की अवहेलना नहीं करती, पर अब तक ज्यादातर उपेक्षित साधारण जीवन को केन्द्र मेरु रखती है ।

(‘नयी कविताएँ’ ‘एक साक्ष्य’— ‘डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी’—पृ०—28)

‘सामान्य भाषा का विवेचन करते समय शिष्टउच्चारण का मापदण्ड माना गया है कि बोलते समय यह अनुमान न लगाया जा सके, कि वक्ता भाषा क्षेत्र के किस प्रदेश से सम्बद्ध है । कुछ ऐसी ही कसौटी बोलचाल के परिनिष्ठित रूप के सम्बन्ध मेरु भी स्वीकार की जा सकती है । बोलचाल की स्वभावत अनेक शैलियाँ हो सकती हैं – पुराने नामों को ले तो ‘पडिताऊ’ शैली, ‘मुशी’ शैली, ‘बाजार’ शैली आदि । पर यदि हम कहे कि बोलचाल वही परिनिष्ठित है जिसके बोलने वाले या लिखने वाले का क्षेत्र या वर्ग ज्ञात न हो सके तो शायद हम वस्तु स्थिति से दूर न होगे । इस दृष्टि से समकालीन कविता मेरु रघुवीर

सहाय आदर्श कहे जा सकते हैं। जहाँ तदभवता और देसीपन न किसी प्रतिक्रिया मे है और न किसी आवेश मे, वह सिर्फ है और उसका होना अपने मे पर्याप्त है।”

(‘नयी कविताएँ एक साक्ष्य’ – ‘डॉ राम स्वरूप चतुर्वेदी’ पृ०-३१)

रघुवीर सहाय की काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उन्होने काव्यभाषा के उपकरणो—बिन्ब, प्रतीक इत्यादि का कम से कम इस्तेमाल किया है। रघुवीर सहाय ने बोल—चाल की भाषा को जो तरलता प्रदान की है, जो व्यजकता प्रदान की है, वही उनके काव्य भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कविता देखने मे तो बहुत सामान्य प्रतीत होती है लेकिन जब थोड़ी गम्भीरता से उसके परिवेश को ध्यान मे रखकर देखा जाता है तो उसका अर्थ बहुत गहरे भीतर तक प्रभावित करता है तथा उसकी व्यजना को बढ़ा देता है।

‘फिर मिट्टी मे जीवन की आशा जागी है  
गलते हैं दकियानूसी मिट्टी के ढेले  
पिछली फसलो की गिरी पड़ रही हैं मेडे  
सारे अन बोये खेतो की उजली धरती  
अब एक हुई, स्वीकार कर रही हैं नव जल  
गुरु आज्ञा—सा’

(‘दूसरा सप्तक’ – ‘पहला पानी’-पृ०-१४२)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘पहला पानी’ शीर्षक कविता की साधारण सी दिखने वाली इन पक्तियो मे, कवि के प्रकृति प्रेम एव ग्राम—जीवन के चित्राकन के साथ—साथ एक गहरी व्यजना भी दृष्टिगत होती है। कवि दयिकानूसी विचार को समाज के स्वाभाविक विकास के लिए बाधक समझता है। वह उन नये विचारो को स्वीकार करने के लिये कहता है जिनसे समाज का विकास सम्भव है—

“लो होता श्रम का समय शेष  
 अब शीतल जल की चिन्ता मे  
 लगती बहुओं की भीड़ कुर्झ पर  
 मैंजी गगरियों पर से किरणे धूम—धूम  
 छिपती जाती पनिहारिन के सॉवल हाथों की चुड़ियों मे  
 धीरे—धीरे झुकता जाता है शरमाये नयनो—सा—दिन

(‘दूसरा सप्तक’—‘सायकाल’—पृष्ठ—153)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘सायकाल’ शीर्षक कविता की सामान्य सी दिखने वाली पक्तियों मे काव्य के वे सारे चमत्कार मौजूद हैं जिनसे कविता की उत्कृष्टता समझी जाती है। अस्त होते हुए सूरज की किरणे मद्विम पड़ती जा रही हैं। कवि ने उसे ‘पनिहारिन’ के सॉवल हाथों की चुड़ियों मे छिपाया है। और दिन के झुकने को ‘शरमाये हुए नयन’ की संज्ञा दी है।

“लोग ही लोग हैं चारों तरफ लोग, लोग  
 मुँह बाये हुए लोग और आँख चुँधियाये हुए लोग  
 कुछते हुए लोग और सहलाते हुए लोग  
 खुजलाते हुए लोग और बिराते हुए लोग  
 दुनिया एक बजबजायी हुई सी चीज हो गयी है।”

(‘सीढ़ियों पर धूप मे’—‘दुनिया’—पृष्ठ—139)

‘सीढ़ियों पर धूप मे’ सकलन की ‘दुनिया’ शीर्षक कविता की ये पक्तियों सामान्य भाषा का काव्य भाषा मे रूपान्तरण का एक सशक्त उदाहरण है। इन सामान्य से शब्दों मे एक गहरी व्यजना है। कवि को अकर्मण्य और कायर लोगों से धिरी हुई यह दुनिया बजबजायी हुई सी प्रतीत होती है।

“बाघ मे दारार, पाखड़ वक्तव्य मे  
 मिलावट दवाई मे, नीति मे टोटका

अहकार भाषण मे, आचरण मे खोट हर हफते मैंने विरोध किया  
सचमुच स्वाधीन हो जाने का इतना भय, एक दास जाति मे।

(‘आत्मा हत्या के विरुद्ध’—‘एक अधेड भारतीय आत्मा’—पृष्ठ-88)

‘आत्म हत्या के विरुद्ध’ की ‘एक अधेड भारतीय आत्मा’ शीर्षक कविता  
किसी भी काव्य के चमत्कारिक गुण से विहीन होने के बावजूद वर्तमान भारत  
की भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त तस्वीर को प्रस्तुत करने मे सक्षम है।

“पानी पानी  
बच्चा—बच्चा  
हिन्दुस्तानी  
माग रहा है  
पानी पानी  
अपना पानी  
अपनी बानी हिन्दुस्तानी  
बच्चा बच्चा माग रहा है।

(‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो—‘पानी—पानी’—पृ०-6)

‘हँसो हँसो जल्दी हँसो’ सग्रह की ‘पानी—पानी’ शीर्षक कविता की  
सामान्य सी दिखने वाली इन पक्षियो भे सामान्य आदमी की लाचारी भी उभरी  
है और साथ ही साथ प्रभुता सम्पन्न शोषक वर्ग जो पानी पर अधिकार जमाकर  
बैठे हैं, उनसे बड़े ही अधिकार पूर्वक पानी की माग भी है।

“मै वही पास मे बैठा था डरता सा अपने से  
तुम जागी जैसे ढारस बधा  
और थोड़ी देर बाद तुम सो गयी  
चेहरे पर दर्द उभर कर आया  
छा गया

एक छोटे अक्षर मे छपी हुई पुस्तक—सा खुल गया  
वह चेहरा।”

(‘लोग भूल गये हैं’—‘नीद’—पृष्ठ—41)

सामान्य स्त्रियो के दुख दर्द को रघुवीर सहाय ने अपनी तमाम कविताओं मे वाणी दी है। ‘लोग भूल गये हैं’ सग्रह की ‘नीद’ शीर्षक यह कविता स्त्री के समूचे दर्द को अपने आप मे समेट ली है।

रघुवीर सहाय की भाषा खबर की भाषा है— नितात निरावरण और दो टूक। उसमे प्रतीकों और बिम्बों का घटाटोप उलझाव नहीं है। खबर मे घटना और पाठक के बीच भाषा जितनी पारदर्शी होगी, खबर की सम्प्रेषणीयता उतनी ही बढ़ेगी। सहाय जी अपनी कविताओं मे इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

(‘रघुवीर सहाय—प्रतिनिधि कविताए’—‘स० सुरेश शर्मा’ — पृष्ठ—6)

सहाय जी ने स्वयं कहा है कि वे साहित्यकार और पत्रकार दोनों को अलग करके नहीं देखते। उनके अनुसार दोनों का उद्देश्य एक ही है— “पत्रकार और साहित्यकार मे कोई अन्तर है क्या? मानता हूँ कि नहीं है। इसलिए नहीं कि साहित्यकार रोजी के लिये अखबार मे नौकरी करते हैं। बल्कि इसलिए कि पत्रकार और साहित्यकार दोनों नये मानव सबन्ध की तलाश करते हैं। साहित्यकार के लिए तथ्यों की जानकारी उतनी ही अनिवार्य है जितनी पत्रकार के लिए है, परन्तु उन तथ्यों का गतानुगत कम उसके लिए नहीं है, बल्कि तथ्यों के परस्पर सबन्ध को जना बूझकर तोड़कर साहित्यकार उसे नये सिरे से कमबद्ध करता है और इस प्रकार नये सम्पूर्ण सत्य की सृष्टि करता है जो एक नया यथार्थ है। एक सभव यथार्थ है। पत्रकार के लिए यथार्थ वही है जो सभव हो चुका है। साहित्यकार के लिए वह है जो सभव हो सकता है।

(‘लिखने का कारण’—पृष्ठ—177)

सहाय जी ऐसे कवियों में नहीं है जो एक चली आ रही काव्य परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। वे ऐसे कवियों में हैं जो बदले हुए समय की जलरत के अनुसार कविता की भूमिका को नये उद्देश्य से जोड़ते हैं। ऐसे कवियों को पुरानी भाषा में युगान्तकारी कवि कहा जाता रहा है। रघुवीर सहाय भी अपनी कविताओं से एक नये दौर की शुरूआत करते हैं। यह दौर सहाय जी के अर्जित काव्य गुणों से बना है जिनके केन्द्र में है— निवारण भाषा में नई जीवन—स्थितियों की अभिव्यक्ति। सहाय जी का सौन्दर्य शास्त्र खबर का सौन्दर्यशास्त्र है। इसलिए उनकी भाषा खबर की भाषा है और अधिकाश कविताओं की विषय वस्तु खबर धर्मी।

(‘प्रतिनिधि कविताएं रघुवीर सहाय’—‘स० सुरेश शर्मा’—पृष्ठ-5)—(कविता में  
लिखी खबरे शीर्षक से उद्घृत)

“कहना होगा कि रघुवीर सहाय की कविताएं एक गहरे अर्थ में राजनैतिक चेतना लिए हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने अखबार की भाषा में राजनीति लेकर उसे कविता में गढ़ा है। आज जबकि साहित्यिक रचना पर पत्रकारिता का दबाव बढ़ता जा रहा है समाचार पत्रों से व्यवसायत जुड़े कवि ने अखबार को कविता में रूपातरित किया है। यहाँ फिर समस्या वही है, बोलचाल की भाषा को सप्रेषण के लिए अपनाने की। अखबार स्वभावत बोलचाल और दैनदिन जीवन से जुड़ा हुआ है, और कवि वही से अपने अनुभव के लिए भाषा उठाता है। यहाँ जोखिम जितना अधिक है रचना की जड़ उतनी ही गहरी। अखबार, राजनीति, दैनदिन जीवन— ये सामान्यत कविता के प्रतिरोधी रूप माने जाते रहे हैं, उनके लिए गद्य और कथा साहित्य ही उपर्युक्त रचना—माध्यम समझे गये हैं। रघुवीर सहाय एक साथ इस व्यापक अनुभव परिवेश को बिना किसी ऊपर से दिखते उद्यम या कि प्रदर्शन के कविता बना देते हैं।”

(‘नयी कविताएं एक साक्ष्य’—‘बोलचाल और सप्रेषण सदर्भ रघुवीर सहाय’—  
पृष्ठ-42)

“कल जब घर को लौट रहा था देखा उलट गयी है बस  
सोचा मेरा बच्चा इसमे आता रहा न हो वापस  
टेलिविजन ने खबर सुनायी पैंतीस घायल एक मरा  
खाली बस दिखला दी खाली दिखा नहीं कोई चेहरा  
वह चेहरा जो जिया या मरा व्याकुल जिसके लिए हिया  
उसके लिए समाचारों के बाद समय ही नहीं दिया।”

(‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो’—‘टेलिविजन’ पृष्ठ-49)

‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो’ सग्रह की ‘टेलिविजन’ शीर्षक इस कविता मे एक  
दुर्घटना को इस सन्दर्भ के साथ उद्घृत किया गया है कि सामान्य व्यक्तियों के  
जीवन का मूल्य सरकारी मीडिया के लिये कुछ नहीं है।

“मुझसे कहा कि मृत्यु की खबर लिखो  
मुर्दे के घर नहीं जाओ, मरघट जाओ  
लाश को भुगताने के नियम, खर्च और कुप्रबध  
—खोज खबर लिख लाओ  
यह तुमने क्या लिखा— “झुर्रियॉ उनके भीतर उनके  
प्रकट होने के आसार,  
ओंखों से उदासी—सी एक चीज दिखती है—”  
यह तुमने मरने के पहले का वृत्तात क्यों लिखा?”

(“कुछ पते कुछ चिट्ठियॉ”—‘खोज खबर’—पृष्ठ-82)

‘कुछ पते कुछ चिट्ठियॉ’ सग्रह की ‘खोज खबर’ शीर्षक कविता की भाषा  
समाचार पत्र की भाषा है जो कवि के पत्रकार व्यक्तित्व की उपज है।

“फिर जाडा आया, फिर गर्मी आयी

फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आयी  
 न जाड़ा ज्यादा था न लू ज्यादा  
 तब कैसे मरे आदमी  
 वे खडे रहते हैं तब नहीं दिखते,  
 मर जाते हैं तब लोग जाडे और लू की मौत बताते हैं।”

(‘एक समय था’—‘ठड से मृत्यु’—पृष्ठ-52)

‘एक समय था’ सग्रह की —‘ठड से मृत्यु’ शीर्षक कविता की भाषा भी खबर की भाषा है। जो कवि के पत्रकार व्यक्तित्व की ही उपज है। पत्रकार—कवि रघुवीर सहाय अखबार में लू और ठड से मतदाता की मृत्यु की खबर रचते हैं और कविता में मृत्यु की ओर बढ़ती जीवन—स्थितियों की खबर ।

“700 मर गये अखबार कहता है,  
 खेंडहर और लाश दूरदर्शन दिखाता है  
 बहुत सी खबरे मेरे अन्दर से आती हैं  
 सबको चीर कर हहराती—”

(‘एक समय था’—‘खबरे’—पृष्ठ-53)

‘एक समय था’ सग्रह की ‘खबरें’ शीर्षक कविता में पत्रकार—कवि रघुवीर सहाय उस खबर की बात करते हैं जो अखबार या टी० वी० में लिखने—दिखने से रह जाती है, लेकिन वह खबर कवि के भीतर से हहराती हुई फूटती है।

“सपाट बयानी” का अर्थ है सीधे—सीधे कहना। सपाटबयानी बोल चाल की भाषा को काव्य—भाषा में परिणत करके आविष्कृत किया जाने वाला कवि सुलभ गुहावरा है। इस शैली का सौन्दर्य यह है कि कविता जहाँ आम जिन्दगी का वार्ता प्रतीत होती है, वही इसके केन्द्र में सहज समाज का सारा स्वरूप दर्पण में चित्र के समान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सपाट बयानी की बुनावट

सीधे वक्तव्यों की वाक्याशो द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें इतिवृत्तात्मकता नहीं होती। यह एक आन्तरिक लयपूर्ण मानसिकता है।”

(‘रघुवीर सहाय की काव्य-भाषा और काव्यानुभूति’—‘डॉ० अनन्त कीर्ति तिवारी’—पृष्ठ—114)

सपाट बयानी को भाषा का एक प्रमुख गुण मानते हुये नामवर सिह कहते हैं— “कविता में सपाट बयानी का यह आग्रह वस्तुत गद्य सुलभ जीवन्त वाक्य विन्यास को पुन प्रतिष्ठित करने का प्रयास है; जिसके मार्ग में बिम्बवादी रूझान निश्चित रूप से बाधक रहा है।”

(‘कविता के नये प्रतिमान’—‘डॉ० नामवर सिह’— पृष्ठ—134—135)

सपाट बयानी से आशय सपाट और सरल गद्यात्मक नहीं है बल्कि कविता में उस भाषा के प्रवेश से है जो अपनी शक्ति केवल बिम्बों, प्रतीकों और अप्रस्तुतों से ग्रहण करने के स्थान पर सीधे अनुभव की नाटकीयता से अधिक अर्जित करती है। अनुभव की नाटकीयता क्योंकि जनसाधारण की सवादधर्मी बोलचाल की भाषा और उसके ‘गद्य सुलभ जीवन्त वाक्य—विन्यास’ में अनायास व्यक्त होती है और इसीलिए सपाट बयानी का आग्रह कविता में इसी बोलचाल की भाषा पर अधिक निर्भर है। स्पष्ट है कि सपाट बयानी का तात्पर्य काव्यत्व का अभाव या महज गद्यात्मकता से नहीं है—यह अवश्य है कि इसमें काव्यत्व की स्थिति पारम्परिक बिम्ब—प्रतीक या अप्रस्तुत—विधान के जगह पर जनसाधारण की बोलचाल की सवादधर्मी भाषा और उसके ‘गद्य सुलभ जीवन्त वाक्य विन्यास’ की सहज नाटकीयता और तनाव में निहित है। सातवें दशक में सपाटबयानी के सर्जनात्मक दोहन का आर्दश उदाहरण रघुवीर सहाय की कविता में दृष्टिगत होता है। ऊपर से देखने पर अत्यन्त सरल तथा गद्यात्मक लगने वाली उनकी भाषा बोलचाल की उस भाषा की समस्त नाटकीयता और

तनाव को अपने भीतर समेटे हुए है जो सहज ही वस्तु-स्थितियों की विडम्बना का उदघाटन कर देती है।

(‘रघुवीर सहाय की काव्यनुभूति और काव्य भाषा’—‘डॉ० अनन्त कीर्ति तिवारी’—  
पृष्ठ—114)

“नारी बिचारी है  
पुरुष की मारी है  
तन से क्षुधित है  
मन से मुदित है”

(‘सीढियो पर धूप मे’—‘नारी’—पृष्ठ—172)

‘सीढियो पर धूप मे’ सग्रह की ‘नारी’ शीर्षक कविता की सरल सी दिखने वाली इन गद्यात्मक पवित्रियों मे वह नाटकीयता और तनाव है जिससे पुरुष के अत्याचार से पीड़ित नारी की विडम्बना मूर्त हो जाती है। कवि के अनुसार मध्यवर्गीय नारी की यही नियति है कि वह शरीर से भूखी रहती हुई भी मन से प्रसन्न रहे। वह अपनी कारुणिक स्थिति मे ही सन्तुष्ट है।

“जिसको आगे चलकर राजकाज करना है।  
दौत माज रखता है मुस्कराने के लिए  
मुसकाकर प्राध्यापक परिषद ने मुझे ऑख मारी  
गृह मन्त्री ने  
कहते तुम ठीक हो चुप रहो  
और मेरे साथ बैर्झमानी मे शरीक हो  
सघ रहे सघ रहे उसने कहा  
भारत का। चाहे हर भारतीय हर भारतीय का  
गुलाम रहे”

(‘आत्महत्या के विरुद्ध’—‘एक अधेड भारतीय आत्मा’—पृष्ठ—88)

‘आत्महत्या के विरुद्ध’ सग्रह की ‘एक अधेड भारतीय आत्मा’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों मे न तो कोई बिम्ब है, न कोई प्रतीक, और अप्रस्तुत जैसा कुछ विशिष्ट भी नहीं है। किन्तु बोलचाल की भाषा मे रची गयी गद्यात्मक सी दिखने वाली इन सरल पक्षियों मे वह नाटकीयता और तनाव है जिससे भारतीय जनतत्र मे सत्ता के छद्म और जन की उपेक्षा की विडम्बना मूर्त हो जाती है।

“मै अभी आया हूँ सारा देश घूम कर  
पर उसका वर्णन दरबार मे करूँगा नहीं  
राजा ने जनता को बरसो से देखा नहीं  
यह राजा जनता की कमजोरियों न जानसके इसलिए मैं  
जनता के क्लेश का वर्णन करूँगा नहीं दरबार मे”

(‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो’—‘दो अर्थ का भय’—पृष्ठ-3)

‘हँसो—हँसो जल्दी हँसो’ काव्य सग्रह की ‘दो अर्थ का भय’ शीर्षक कविता की इन सपाट पक्षियों मे कवि ने शासन तन्त्र की आलोचना तथा शासक वर्ग के वास्तविक जन विरोधी चरित्र को उजागर किया है।

“हाथ मे शराब का गिलास ले  
वे अपने मस्त हो जाने की कामना नहीं करते  
आज की दुनिया के नष्ट हो जाने की करते हैं  
जिससे वे निष्कटक बच रहे।”

(‘कुछ पते कुछ चिठियों’—‘विजय जयती’—पृ०-81)

‘कुछ पते कुछ चिठियों’ सग्रह की ‘विजय जयती’ शीर्षक कविता की इन सीधी—साधी पक्षियो मे कवि ने हत्यारो, अत्याचारियो शोषको के मूल चरित्र को उद्घाटित किया है।

व्यग्य नयी कविता की ऐसी प्रवृत्ति रही है जो कमश विकसित होती रही है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि – “व्यग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठो मे हस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, फिर भी कहने वाले को जबाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना होता है।”

(‘कबीर’ ‘डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी’—पृष्ठ—103)

नयी कविता और साठोत्तरी से जुड़े होने के कारण रघुवीर सहाय की कविताओं मे व्यग्यात्मक तेवर अधिक हैं। उन्होने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी बातों को लेकर अपने व्यग्यात्मक तेवर की पुष्टि की है। अपनी सर्जन प्रक्रिया मे उन्होने जिस क्षेत्र को चुना उसमे व्याप्त पाखण्ड, ढोग और व्यर्थ के दिखावे पर व्यग्य और छीटाकशी की तीखी धार प्रकट की है। रघुवीर सहाय औरों को चुपचाप सुनने वाले और उनकी आदतो पर नजर रखने वाले उत्तम पर्यवेक्षक थे। यही कारण है कि उनका व्यग्य निर्स्थक न होकर सार्थक ही सिद्ध होता है। उनके तीखे व्यग्य उनकी काव्य भाषा को अतिशय समृद्ध बनाते हैं।

“पढ़िये गीता  
बनिये सीता  
फिर इन सबमे लगा पलीता  
किसी मूर्ख की हो परिणीता  
निज घर बार बसाइये।  
होय केटीली  
आँखे गीली  
लकड़ी सीली, तबियत ढीली  
घर की सबसे बड़ी पतीली

भरकर भात पसाइये।”

(‘पढ़िये गीता’—‘सीढियों पर धूप मे’— पृष्ठ—149)

‘सीढियों पर धूप’ मे सग्रह की ‘पढ़िये गीता’ शीर्षक इस कविता मे व्यग्य के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की पूरी जीवन गाथा ही कवि ने कह दी है। मध्यवर्ग की नारी के विवाहोपरान्त सकीर्ण दायरे तथा उसकी विवशता को कवि वाणी देता है। मध्य वर्गीय स्त्री का पूरा जीवन सिर्फ घर की चहारदीवारी मे सिमट कर भोजन बनाने मे ही बीत जाता है—

“हर सकट भारत में एक गाय

होता है

ठीक समय ठीक बहस कर नहीं सकती है

राजनीति बाद मे जहाँ कहीं से भी शुरू करो

बीच सड़क पर गोबर कर देता है विचार”।

(‘आत्महत्या के विरुद्ध’—‘एक अधेड़ भारतीय आत्मा’ पृष्ठ—88—89)

रघुवीर सहाय ने लोकतन्त्र मे आस्था होने के कारण इस कूर राजनैतिक व्यवस्था की विसगतियो को अपनी कविता का विषय बनाया है। ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ काव्य सग्रह की ‘एक अधेड़ भारतीय आत्मा’ शीर्षक कविता की इन पक्षियो मे व्यग्य द्वारा कवि ने राजनैतिक परिस्थितियो का खुलासा किया है।

“हमारी हिन्दी’ एक दुहाजू की नयी बीबी है

बहुत बोलने वाली बहुत खाने वाली बहुत सोने वाली

गहने गढ़ाते जाओ

सर पर चढ़ाते जाओ

वह मुटाती जाये

पसीने से गन्धाती जाये घर का माल मैके पहुँचाती जाये।”

(‘आत्महत्या के विरुद्ध’—‘हमारी हिन्दी’—पृष्ठ—83)

‘आत्महत्या के विरुद्ध’ सग्रह की ‘हमारी हिन्दी’ शीर्षक इस कविता में जितना तीखा व्यग्य है, उतना ही तीव्र आत्मलोचन। यहाँ भाषा और हिन्दी क्षेत्र के मध्यवर्गीय जीवन को एक दूसरे में मिला दिया गया है। पूरी कविता में यह रूपक चलता है— सीधा और साफ।

“हँसो हँसो जल्दी हँसो  
इसके पहले कि वह चले जाए  
उनसे हाथ मिलाते हुए  
नजरे नीची किए  
उनको याद दिलाते हुए हँसो  
कि कल भी तुम हसे थे।”

(‘हँसो हँसो जल्दी हँसो’— ‘हँसो हँसो जल्दी हँसो’— पृष्ठ-26)

‘हँसो हँसो जल्दी हँसों’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों में हित चितक की सलाह से यह व्यग्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि, समाज में उपर्युक्त स्थितियों की हद तक दयनीय बनो तभी तुम ताकतवरों के समाज में जीवित रह सकते हो। उन पराधीन स्थियों पर यह आत्यतिक व्यग्य है जिसमें आज हमें जीना पड़ रहा है।

“और आज जो बचपन में उस गुलामी में पिसते हैं  
जिसमें पिसते थे हम इस शोषक सम्यता में शासक पक्ष में  
मिल जाने के पहले  
उनसे हम कहते हैं देखो हमको देखो हम पर विश्वास करो  
हमने भी बचपन में दुख ये उठाये हैं  
ये प्रमाण पत्र हैं जिनके आधार पर हम अधेड़पन में  
उस शोषण के साथ दे सकते हैं शान्ति से।”

(‘लोग भूल गये हैं’—‘मुआवजा’—पृष्ठ-68)

‘लोग भूल गये हैं’ सग्रह की ‘मुआवजा’ शीर्षक कविता की इन पक्कियों में वस्तु स्थिति की पूरी समग्रता को शब्द दिया गया है। वर्तमान समय की विसंगतियों और विडम्बनाओं को व्यग्य के माध्यम से वाणी दी गयी है।

‘क्यों कलाकार को नहीं दिखाई देती अब  
गदगी, गरीबी और गुलामी से पैदा?  
आतक कहाँ जा छिपा भागकर जीवन से  
जो कविता की पीड़ा में अब दिख नहीं रहा ?  
हत्यारों के क्या लेखक साझीदार हुए  
जो कविता हम सबको लाचार बनाती है?’

(‘आज की कविता’—‘कुछ पते कुछ चिठ्ठियाँ’—पृष्ठ-13-14)

‘कुछ पते कुछ चिठ्ठियाँ’ सग्रह की “आज की कविता” शीर्षक कविता की इन पक्कियों में कवि ने कलाकार के प्रति अपनी खीज को व्यग्य के माध्यम से वाणी दी है।

“अग्रेजो ने अग्रेजी पढ़ाकर प्रजा बनाई  
अग्रेजी पढ़ाकर अब हम राजा बना रहे हैं।”

(‘अग्रेजी’—‘एक समय था’—पृष्ठ-52)

‘एक समय था’ सग्रह की अग्रेजी शीर्षक कविता में कवि ने व्यग्य के माध्यम से अग्रेजी भाषा के सामने हिन्दी की दयनीय स्थिति को सन्दर्भित किया है।

नयी कविता के अधिकाश कवियों की तरह बिम्ब रचना एव प्रतीक योजना रघुवीर सहाय की काव्य रचना की विशिष्टता नहीं है चूंकि रघुवीर सहाय सपाट बयानी के कवि रहे हैं इसलिए वे बिम्बवादी नहीं हैं। यह निश्चित है कि बिम्ब रचना रघुवीर सहाय की काव्य-भाषा का कोई मौलिक उद्देश्य नहीं रहा है, फिर भी उनके काव्य सृजन में बिम्ब अनायास ही प्रवेश करते गये हैं।

उन्होने यह स्वीकार किया है कि कविता में बिम्ब अपने—आप में कोई उद्देश्य नहीं है। यह कविता में जीवनानुभव को रचनात्मक और मूर्तिमत्ता में सम्प्रेषित करने का मात्र उपकरण ही है। अपनी विल्कुल आरम्भिक दौर की कविताओं में रघुवीर सहाय ने जीवन्त गत्यात्मक बिम्बों की सृष्टि की है—

“दूर क्षितिज पर महुओं की दीवार खड़ी है  
जिस पर चढ़कर सूरज का शैताना छोकरा  
झाक रहा है  
चौड़े चिकने पत्तों की ललछौर फुनगियों को सरकाकर  
नीडों में फिर लौटी मँडराती पिडकुलियाँ”

(‘सायकाल’—‘दूसरा सप्तक’— पृष्ठ—152)

‘दूसरा सप्तक’ में सग्रहीत ‘सायकाल’ शीर्षक कविता की इन पक्षितयों में प्रकृति के सम्पूर्ण बिम्ब मौजूद हैं। ‘जिसमें गन्ध, गति, वर्ण, स्पर्श एवं ध्वनि बिम्बों की व्यक्ति और अव्यक्ति रूप में योजना है। ‘महुआ’ में गन्ध, ‘चिकने पत्तों, में स्पर्श बिम्ब तथा ‘ललछौर फुनगियों’ में वर्ण बिम्ब झाक रहा है। ‘मँडराना’ तथा ‘लौटना’ में गति बिम्ब है। ‘नीडों’ में फिर लौटी मँडराती पिडकुलियाँ’ में ध्वनि बिम्ब अनाभिव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हो जाता है।

“कितने सही है ये गुलाब  
कुछ कसे हुए और कुछ झरने—झरने को  
और हल्की—सी हवा में और भी जोखम से  
निखर गया है उनका रूप जो झरने को हैं।”

(‘धूप’—‘सीढियों पर धूप में’— पृष्ठ—158)

‘सीढियों पर धूप में’ सग्रह की ‘धूप’ शीर्षक कविता की इन पक्षितयों में कवि बोलचाल के सीधे से वर्णन में बिम्ब की एक छवि दे रहा है। यहाँ वर्णन

और बिम्ब जैसे एक दूसरे से घुल-मिल गया हो। इस तरह के चित्र-बिम्ब रघुवीर सहाय की काव्य-भाषा को अतिशय समृद्ध करते हैं।

“सिहासन उचौं है समाध्यक्ष छोटा है  
अगणित पिताओं के, एक परिवार के  
मुँह बाये बैठे हैं लड़के सरकार के  
हल्की सी दुर्गच्छ से भर गया है सभाकक्ष”

(‘मेरा प्रतिनिधि’— ‘आत्महत्या के विरुद्ध’—पृष्ठ-21)

‘आत्महत्या के विरुद्ध’ सग्रह की मेरा प्रतिनिधि’ शीर्षक कविता में किसी सामान्य सभा कक्ष का वर्णन भी है और किसी विशिष्ट सभाकक्ष का बिम्ब भी है। इन पक्षियों में वर्णन और बिम्ब के स्तरों की टकराहट अर्थ को असाधारण विस्तार देती हैं।

अपने बाद के काव्य सग्रहों में सहाय ने पूर्णतया यथार्थवादी बिम्बों के द्वारा ही यथार्थ की पथरीली सतह को खोलने का प्रयास किया है। उनके यथार्थवादी बिम्ब औरतों की दुर्दशा से सम्बद्ध सारी कविताओं में उपलब्ध हैं।

“हाथ बालों पर नहीं जिनके कभी फेरा गया  
बैठकर दो चार के सग  
तजुर्बे अपने सुनाने का नहीं मौका मिला  
औरते वे सूखकर रह गयी  
उनकी बच्चियों ने जवाँ होकर दादियों की  
काठियों पाई।”

(‘औरते’—‘कुछ पते कुछ चिठियॉ’— पृष्ठ-44)

‘कुछ पते कुछ चिठियॉ’ सग्रह की ‘औरते’ शीर्षक कविता में औरत की लाचारी— बेबसी उसके समूचे दुख दर्द को मुकम्मल वाणी मिली है। ‘दादियों की काठियॉ’ में पूर्णतया यथार्थवादी चित्र-बिम्ब लेकर कवि उपस्थित हुआ है।

काव्यभाषा के स्तर पर रघुवीर सहाय अपने समकालीनों में एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। अपने शिल्प के प्रति ये बड़े सजग हैं। सरल भाषा में सहज करुणा और जिन्दगी की शिरकत उनकी कविताओं की एक विशिष्ट पहचान है। रघुवीर सहाय की काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उन्होंने काव्यभाषा के उपकरणों बिम्ब मिथक, प्रतीक इत्यादि का कम से कम इस्तेमाल किया है। उन्होंने बोल—चाल की भाषा को जो तरलता व्यजकता प्रदान की है, वही उनकी काव्यभाषा की सबसे बड़ी ताकत है। सीधी—सी दिखने वाली पक्षियों में असाधारण अर्थ भर देना रघुवीर सहाय की काव्यभाषा की विशेषता है। सपाटबयानी के माध्यम से बोलचाल की भाषा में ऐसी गहन व्यजना रघुवीर सहाय की कविता में मिलती है जो उनको समकालीनों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। उनकी काव्यभाषा सरल, साफ—सुथरी, सहज व्यवहार की भाषा है। सीधी—सादी दिखने वाली भाषा को उसके परिवेश में देखने पर अर्थ बहुत गहरे भीतर तक प्रभावित करता है और उसकी व्यजना को बढ़ा देता है। यही रघुवीर सहाय की काव्यभाषा की सबसे बड़ी ताकत है।

अस्ट्री-4

शासनीय लहाना

प्रकाशन

मार्गा को

“जा उठा के पढ़ ले कागज जिस पर मेरा शेर है,  
देखना वह शेर है या दूसरा शमशेर है।

यह आत्म-स्तवन नहीं, शमशेर की रचना का सौ—फीसदी सच है। उनका सम्पूर्ण साहित्य आत्म-प्रतिरूप है— उनकी खूबियो—खामियो, विचार, अनुभव, कल्पना, सरोकार, विचलन, स्वीकार—अस्वीकार ,विकास, बेचैनी, आकाशा वैविध्य, उदारता—सब कुछ स्वच्छ दर्पण के आगे रखा हो जैसे। खरापन और शुद्धता”।

(शमशेर बहादुर सिंह—प्रभाकर श्रोत्रिय—पृ० 101)

जीवन के कटुतम सघर्षों को लेकर उन्हे कविता मे एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है और इस रचना क्षमता का बराबर अप्रदर्शन कवि का चरित्र। “शमशेर की कविताओं को समझने के लिए विश्लेषण अपेक्षित हो सकता है, विशेषण नहीं। उनकी कविताओं मे सगीत की मन स्थिति बराबर चलती रहती है। एक ओर चित्रकला की मूर्तता उभरती है और फिर वह सगीत की अमूर्तता मे डूब जाती है। चित्रकला, सगीत और कविता धुल—मिलकर उनके यहाँ रचना सभव करते हैं। भाषा मे बोलचाल के गद्य का लहजा, और लय मे सगीत का चरम अमूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है यही कारण है कि जागतिक सदर्भों के कम से कम रहने पर भी हमे एक सम्पूर्ण रचना —सासार दिखाई देता है।”

(‘नयी कविताएँ एक साक्ष्य’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ—73)

अपनी कविता और अपने ऊपर पड़े प्रभावो के बारे मे ‘वक्तव्य’ मे कवि का कथन है— “अपनी कविता मे मेरी खास कोशिश यह रही है कि हर चीज की, हर भावना की जो एक अपनी भाषा होती है, जिसमे वह कलाकार से बाते करती हैं, उसको सीखूँ। इस तरह की कोशिश जहाँ—जहाँ भी कामयाब होती

देख सका, मैंने उस से असर लिया, ज्यादातर अँगरेजी की मौजूदा कविता से, खास तौर से टेक्नीक मे।”

(‘दूसरा सप्तक’ ‘वक्तव्य’ पृष्ठ-85)

आगे इसी ‘वक्तव्य’ मे उन्होने लिखा है—“मेरी भावनाओं पर सबसे गहरा असर पड़ा है ‘परिमल’ और ‘अनामिका’ का । पन्त ने भी मुझे पहले—पहल कविता की भाषा दी । उर्दू गजलियत और उलझे हुए भावों को लिए हुए सपनों की सी चित्रकारी और कुछ चलती हुई लयों और इधर आकर बात—चीत के लहजों और उसके उतार—चढ़ाव को भी मैंने अपनी कविता के रूप और छन्द का आधार बनाना चाहा है।”

(‘दूसरा सप्तक’ ‘वक्तव्य’ पृष्ठ-85)

शमशेर की कविताएँ पाठक को दुर्लह लगती हैं। क्योंकि उनकी कविता का अर्थ उन वर्णनों और चित्रों मे नहीं मिलता जो कविता मे दिखते हैं बल्कि उन सकेतों और इशारों मे होता है जो कविता के भीतर शब्दों, वाक्यों के नितात निजी सघटन या आत्मा के भीतर से ध्वनित होता है। अपनी कविता की दुरुहता के सम्बन्ध मे कवि स्वयं कहता है।

“नशशा मुझे नहीं होता है। नहीं होता  
मुझे पीने वालों को  
होता  
है— मेरी कविता को अगर वो उठा सके और एक घूटें  
पी सके  
अगर”

(‘एक नीला दरिया’ ‘चुका भी हूँ नहीं मैं’ पृष्ठ-13)

यह चुनौती ही नहीं, वस्तु स्थिति है शमशेर के काव्य—ससार की। इसे स्वीकार करने के बाद, उनके काव्य ससार मे गहरे ढूबने पर यह अनुभव होता

है कि शमशेर ने एकान्त मे जैसे अपनापन ही सौंप दिया है। यह अपनापन मगर नया प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक ऐसे कवि के द्वारा हम तक पहुँचता है, जो अपनी विलक्षण कविताओं से हमारी सवेदनाओं को गहराई से छूता ही नहीं, अपितु हमारे भीतर नई सवेदनाएँ भी जगाता है। इन सवेदनाओं की लय, इनके चित्र, बिम्ब, स्वरूप—सभी, कभी परिचित, कभी नये—से और कभी नये लगते हैं। परिचय—अपरिचय के इस दौर मे उनके रचना—ससार के और भी अनेक पहलू हमारे सामने खुलते जाते हैं।

अलग—अलग अर्थ स्तरों को खोलने वाली इनकी, उनके सम्भावना युक्त भाषा, उनकी कविता मे निहित विभिन्न विरोधाभासों को सामने लाती है। एक विशेष सर्जनात्मक सजगता के साथ उनका पाठक उनकी कविता से मुखातिब होता है।

‘दूसरा सप्तक’ मे पहली बार कवि शमशेर प्रकाशित हुए। यद्यपि वे बहुत दिनों से कविताएँ लिख रहे थे। इनकी कविताओं को देखकर उनके काव्य—ससार की निर्मित होने वाली सम्भावनों का अनुमान होता है। इसमे उनकी कुल बीस रचनाएँ सकलित हैं जिसमे से अधिकाश बाद के सग्रहों मे शामिल कर ली गयी हैं। ‘दूसरा सप्तक’ मे छपा उनका ‘वक्तव्य’ उनकी कविताओं के बारे मे और साथ ही नयी कविता के बारे मे उनके दृष्टिकोण को जानने की दृष्टि से आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।

इनका पहला स्वतन्त्र काव्य सग्रह ‘कुछ कविताएँ’ 1959 मे प्रकाशित हुआ। इस सग्रह की कविताओं का चयन जगत शख्धर ने किया है। इसमे कुल 36 कविताएँ हैं। शमशेर का समग्र गीतिस्वरूप यहाँ प्रकट नहीं होता, इस अर्थ मे कि केवल अछान्दस रचनाएँ ही इसमे सकलित हैं। शमशेर प्रयोगशील हैं, यह बात इसमे लक्षित होती है।

‘कुछ और कविताएँ’ नाम से 1961 मे इनका दूसरा काव्य सग्रह प्रकाशित हुआ। इसमे कुल 49 कविताएँ सग्रहीत है। इन कविताओं का चयन उन्होंने स्वयं किया है। विषय—वैविध्य और शिल्पगत विशेषता दोनों ही दृष्टियों से यह उनका उत्तम काव्य सग्रह माना जा सकता है। इसमे एक ओर जहाँ ‘टूटी हुई, बिखरी हुई’ व ‘सावन’ जैसी उत्कृष्ट प्रेम रचनाएँ हैं, वही ‘बात बोलेगी’ और ‘वाम वाम दिशा’ जैसी प्रगति वादी विचार धारा से प्रभावित रचनाएँ भी हैं। कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जो सुरियल भावसृष्टि को भी प्रस्तुत करती हैं। इसमे उनके गीत, गजल, सॉनेट, रूबाई सभी समाविष्ट हैं।

1975 ई0 मे उनका तीसरा काव्य सग्रह ‘चूका भी हूँ नहीं मै’ प्रकाशित हुआ। इसके चयनकर्ता भी जगत शख्घर है। इस सग्रह मे कुल 50 कविताएँ सकलित हैं। इसमे अछान्दस रचनाएँ ही हैं। अन्य सग्रहों की तुलना मे इस सग्रह की अधिकतर रचनाएँ उनकी सामाजिक अभिमुखता को प्रकट करती हैं। शिल्प प्रयोग की दृष्टि से ‘दो मोती कि दो चन्द्रमा होते’ उनकी विशिष्ट रचना है। इस तरह प्रयोग धर्मिता, उनके इस सग्रह की भी विशेषता बन जाती है।

1980 मे राजकमल प्रकाशन द्वारा उनका चौथा काव्य सग्रह ‘इतने पास अपने’ प्रकाशित हुआ। यह कुल 33 कविताओं का सकलन है। इस सग्रह द्वारा कवि शमशेर एक तरह से अपना स्थायी परिचय देते हैं। उनकी चेतना का विकास किस दिशा मे हुआ है यह इस सग्रह की रचनाओं से जाना जा सकता है। इस सग्रह की पहली ही कविता ‘सध्या’ उनकी प्रयोग धर्मिता को स्पष्ट कर देती है। इस सग्रह की अधिकतर कविताएं कला, साथी कलाकारों की कला का स्वीकार, साहित्य और समय के चिन्तन पर हैं। साथ ही मृत्युबोध सम्बन्धी रचनाएँ हैं जो उनका प्रिय विषय रहा है। कवि को समझने का बहुत पैना सुराग ये कविताएँ देती हैं।

1980 मे ही उनका 'उदिता' काव्य सग्रह भी प्रकाशित हुआ। यह एक प्रकार से कवि की अभिव्यक्ति के सघर्ष का कवित्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमे सकलित रचनाओं पर छायावाद और प्रगतिवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही इसमे ऐसी भी रचनाएँ हैं जो विशिष्ट 'शमशेरी अन्दाज' को स्थापित करने का आरम्भिक बिन्दु बनती है। यही बाद मे चलकर शमशेर की कविता का स्थायी गुण बन गया। ये रचनाएँ उनके कवि स्वभाव का परिचय देती हैं।

1981 ई0 मे 'बात बोलेगी' काव्य सग्रह प्रकाशित हुआ। कुल 48 रचनाओं का यह सकलन घटना या विषय-साम्य, की दृष्टि से दो खण्डो और सात विभागो मे बटौ है। उनकी वे लगभग सभी रचनाएँ इस सकलन मे सकलित हैं जो देश के स्वतन्त्रता- आन्दोलन या मार्क्सवाद से सम्बन्धित है। कुछ शोकगीतों का भी इसमे समावेश है जो उनके उत्कृष्ट शोकगीतों मे गिने जा सकते हैं।

कवि शमशेर का अन्तिम काव्य सग्रह 'काल तुझसे होड है मेरी' सन् 1988 मे प्रकाशित हुआ। इसमे पिछले दस-पन्द्रह सालो मे लिखी गई रचनाए सकलित हैं। इनका चयन रजना अरगडे का है। इन रचनाओं के बारे मे स्वय शमशेर का कहना है— "मैं सदा ही अपने मानसिक परिवेश को चित्रित करता रहा हूँ। परिवेश के साथ उसके माहौल को भी 'अपने पास' 'इतने पास अपने' खीचता रहा हूँ कि मेरा अन्दरूनी व्यक्तित्व, अन्दरूनी कवि और चित्रकार अपने अक्स को उसमे उत्तरने से बाज नही रख सके। गालिब का शेर है—

"फरियाद की कोई लय नही है।

नाला पाबन्दे— नै नही है ॥"

कोई बॉसुरी बजा रहा है,— बजा नही रहा है, अपने दुखते हुए जख्म को सहला रहा है। 'नाला' यानी आह-कराह रोना धोना। 'नै'- बॉसुरी। बॉसुरी कभी अन्तर की आह-कराह को बाध नही सकती, क्योंकि 'नाला' बॉसुरी बजाने की

कला के अधीन नहीं है, इससे आजाद है। इसी आजादी की खोज मेरी कविता है।”

(‘सीधी सी बात है’ ‘काल तुझसे होड है’ पृष्ठ-8)

इसी ‘सीधी सी बात है’ मे वे आगे कहते हैं— “मरी कविता के निर्माण मे आस-पास की साधारण सी वस्तु भी या कोई ऐसा व्यक्ति जो एकाएक मेरी कविता के पथ मे खड़ा हो जाता है, मैं उसको भी अपने रग मे लपेट कर अपनी कविता मे शामिल कर लेता हूँ। इसके बाद जो कविता का विकास होता है वह रचना की अपनी शर्तों पर होता है। मेरी अन्दर की अनुभूतियाँ झूठी न पड़े इसलिए मैं उस सामग्री मे और कुछ जोड़ देता हूँ और इस तरह कविता मे एक नया पात्र आ जाता है, जिसका पहले मुझे आभास भी नहीं था।”

(‘सीधी सी बात है’ ‘काल तुम्हारे होड है’ पृष्ठ-8-9)

ऊपर शमशेर के काव्य-विकास की एक झलक प्रस्तुत की गयी है। उस पूरी काव्य-यात्रा मे पाठक को शमशेर की काव्य भाषा की अनेक विशिष्टियाँ औ से साक्षात्कार होता है। शमशेर जितना अपने शब्दो से बोलते हैं उतना ही शब्दो के बीच के अन्तराल से। शमशेर के शब्द केवल अर्थ की ही सृष्टि नहीं करते बल्कि उनमे गहरी गौँजे और अनुगौँजे होती हैं। उन गौँजो मे जहाँ एक ओर वर्तमान का समय होता है वही उसमे इतिहास की झकृतियाँ भी। शमशेर की काव्य भाषा मे एक गहरा लयात्मक तत्व है। लय उनके काव्य स्वेदना की एक गहरी आन्तरिक सत्ता है। वे लय की सूचना करते हैं। और लय का आविष्कार करते हैं। लय मे से ही नये-नये अर्थों की सृष्टि होती है। उनके काव्य भाषा मे एक विचित्र प्रकार की झज्जनाहट जैसे उर्गली से वीणा के तार छेड़ देने पर एक राग-रागनियों की सृष्टि होती है उसी प्रकार शमशेर का शब्द-विन्यास नयी-नयी झकृतियाँ उत्पन्न करते हैं। शमशेर की कविता एक ऐन्द्रजालिक सरचना की तरह पाठक के सामने उभरती है। वे अपने शब्द विन्यास मे जिन

अन्तरालों को छोड़ते हैं उन्हे भरने का काम पाठक स्वयं करता है और इस प्रकार हर संवेदनशील और सृजनशील पाठक उनकी कविता से नये—नये अर्थों की उपलब्धि करता है। शमशेर के काव्य का बिम्ब—विधान भी बहुत असामान्य है। उनके बिम्ब— कहीं दृश्य हैं तो कहीं श्रव्य, कहीं वे सुगन्ध विखेरते हैं, तो कहीं स्पर्श का बोध करते हैं।

### शमशेर की काव्यभाषा में झकृतियाँ—

‘डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी’ ने एक जगह लिखा है—“ साधारण बोलचाल में शब्दों का अर्थ निश्चित और सीधा होता है, घण्टे की तरह टन—टन। साहित्य में उसी शब्द का अर्थ अपने पूरे वैविध्य में तारों की झकार के साथ उभरता है। पर भाषा में की यही झकार बिना शब्दों के आपस में टकराहट से नहीं बनती इसीलिए बोलचाल का एक शब्द भी (‘आओ’,—‘चले’ ‘अच्छा’ याकि ‘सुनो’ भी ) अर्थ देगा। पर कविता बिना शब्द कम के नहीं बनेगी।”

(‘सर्जन और भाषिक सरचना’ ‘डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी’—पृष्ठ—24)

कविता में प्रत्येक शब्द एक दूसरे के पास रख देने से उसका अर्थ कैसा ध्वनित या झकृत होता है, यह उनकी आपसी रगड़ से पता चलता है। शब्द अर्थ देता है, पर मात्र यह अर्थ कविता में प्रेय नहीं है। कविता में तो रगड़ से उत्पन्न अर्थ की अपेक्षा व्यजनात्मक अर्थ ही प्रेय रहता है। “शब्दों की रगड़ से अर्थ वैसे ही व्युत्पन्न होते हैं। जैसे लकड़ियों को जलाकर ऋषि अग्नि जलाते हैं।”

(‘डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी’)

भाषा के इस महत्व का स्वीकार शमशेर के यहाँ भी है। उनके पूरे काव्य ससार को समझने पर इस बात की बार—बार प्रतीति होती है कि उनकी प्रकृति शब्दों की जड़ों तक जाने की है। ‘विवेचना’ की एक गोष्ठी में साही जी ने कहा था कि “शमशेर की कविताओं में ऐसे शब्द साथ—साथ ‘हलकी मीठी

‘चा—सा दिन’—‘हँसी का फूल’, ‘मौत के रगीन पहाड़’, ‘अगोरती विभा’, ‘कागजी विस्मय’, ‘सुलगता हुआ पहरा’ आने लगते हैं जिनके साहचर्य की कल्पना पहले नहीं की गई थी। ‘सास की गगा’, ‘मोतियों को चबाता हुआ’ गुल जैसे प्रयोग सिर्फ चौकाने वाले करिश्मे नहीं लगते, बल्कि गूजते हुए अर्थ से भर जाते हैं। कविता शब्दों और शब्दों के संयोग से नहीं बनती बल्कि शब्दों का जाल जो यथार्थ पर फेका जाता है, उससे बनती है। यह फेका हुआ जाल ही अर्थ है।

(‘छँठा दशक’ ‘विजय देवनारायण साही’ पृष्ठ-218)

“हलकी मीठी चा— सा दिन  
मीठी चुस्की —सी बाते  
मुलायम बाहो— सा अपनाव।  
पलको पर हौले—हौले  
तुम्हारे फूल—से पॉव  
मानो भूलकर पड़ते  
हृदय के सपनो पर मेरे।”

(‘दूब’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-36)

अथवा

“जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था, वो पत्थर  
सजग—सा होकर पसरने लगा  
आप से आप।”

(‘सुबह’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-44)

अथवा

“वो हमारे सास के सूर्य।  
सास की गगा  
अनवरत बह रही है।

तुम कहाँ ढूबे हुए हो?”

(‘रात्रि’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-45)

अथवा

“हे अगोरती विभा,  
जोहती विभावरी।  
हे अमा उमामयी,  
भावलीन बावरी।  
मौन—मौन मानसी  
मानवी व्यथा भरी।”

(‘धनी भूत पीड़ा’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-58)

अथवा

“धूप कोठरी के आइने मे खड़ी  
हस रही है  
पारदर्शी धूप के पर्दे  
मुस्कराते  
मौन आगन मे  
मोम—सा पीला  
बहुत कोमल नभ”

(‘धूप कोठरी के आइने मे खड़ी है’ ‘कुछ और कविताएँ’

पृष्ठ-117)

अथवा

“हसती मौन विद्युत—सी , ओंखो मे  
बोलती अकाट्य

नियम—सी, मौलिक। हमारे  
 तुम्हारे  
 बीचोबीच  
 खड़ी मूर्त लय—सी  
 अमर।”

(‘हवा सी एकदम पतली’ ‘इतने पास अपने’ पृष्ठ—18)

उपर्युक्त उद्घरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शमशेर अलग—अलग शब्दों को पास या दूर रख करके अपनी कविता की अल्प छायाओं का विस्तार करते हैं। अलग—अलग बिम्बों की अलग—अलग अर्थ छवियाँ हैं। एक सिकुड़े हुए पत्थर का सहसा कमश बड़ा आकार प्राप्त करते रहना ऐसा बिम्ब है— अर्थ विस्तार का पाठक के मन में एक चाक्षुष छवि प्रदान करता है। डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह उकित बहुत ही सार्थक और सटीक है कि “शमशेर के शब्द—विन्यास को जरा—सा छूने पर वैसी ही झकूतियाँ पैदा होती हैं जैसा वीणा के तारों को उगुलियों से छेड़ने पर होती हैं।”

**शमशेर की कविता का बिम्ब—विधान —**

नयी कविता की एक विशिष्ट पहचान है बिम्ब यह वह विशिष्ट तत्व है जो कविता की रचना प्रक्रिया का एक अग है। जो हमारी ऐन्द्रिक अनुभूति को समृद्ध और समृद्धतर करता है। शमशेर की कविताओं में बिम्ब उनकी कविता के अर्थ विकास में योग देते हैं और इसीलिए उनके बिम्ब कई बार वर्गीकरण की सीमा लाघ जाते हैं। शमशेर की रचना प्रक्रिया जटिल है और अभिव्यक्ति सकेतात्मक, इसीलिए उनके बिम्ब अधिकतर सकुल होते हैं। वे ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय दोनों अनुभूतियों को अपनी रचनाओं में बिम्बों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

बिम्बो का जो ससार शमशेर की रचनाओं में प्रकट हुआ है उससे उनकी कविताओं का सौन्दर्य व्यक्त होता है। उनके रचना ससार में 'शाम', 'समुद्र', 'दिवस', 'सूर्य', 'आकाश', 'छितिज', 'नदी', 'धूप', 'लहरे' इत्यादि बिम्बात्मक अभिव्यक्ति पाते हैं। उनकी कविताओं में अनेक रग हैं। वैसे तो सारी रग—सृष्टि हल्के रगों की है, पर एक सावलापन और गहरापन सतत रहता है। हल्की रेखाओं और रगों से वे ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि पाठक के मन पर उसकी एक छाप अकित हो जाती है।

“प्रात नभ था बहुत नीला शख जैसे  
भोर का नभ”

('ऊषा' 'कुछ कविताएँ' पृष्ठ-8)

'कुछ कविताएँ' सग्रह की 'उषा' शीर्षक कविता में प्रात कालीन नीलिमा को बताने के लिए कवि ने 'नीले शख' का बिम्ब चुना है। कालिमा—युक्त शख से मात्र रग बताना हो ऐसी बात नहीं है। 'शख—ध्वनि' मागल्य का प्रतीक है। तो जब नीले शख सा आकाश है, तब वह मगलमय बेला है, यह बात सूचित हो ही जाती है।

“एक नीला आईना  
बे—ठोस सी चादनी  
और उसके भीतर  
चल रहा हूँ मैं। उसी के महातल के मौन मे”

('एक नीला आईना बेठोस' 'कुछ कविताएँ' पृष्ठ-13)

'कुछ कविताएँ' सग्रह की 'एक नीला आईना बेठोस' शीर्षक इस कविता में आकश के लिए कवि ने 'बेठोस नीले आईने' का बिम्ब दिया है जो ठोस नहीं बे—ठोस है क्योंकि कवि उसके भीतर चल सकता है। यहाँ आकाश भी बेठोस है और चादनी भी। और इस बेठोस के भीतर चलते—चलते कवि भीतर—ही—भीतर

धसते चले जाते हैं— गहरे तक।

“मैली हाथ की धुली खादी

सा है

आसमान

जो बादल का पर्दा है मटियाला धुँधला—धुँधला

एक सार फैला है लगभग

कही—कही तो जैसे

हलका नील दिया हो।”

(‘सावन’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ-140)

‘कुछ और कविताएँ’ सग्रह की ‘सावन’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों में ‘सावन के मटमैले’ आसमान के लिए कवि ने ‘मैली हाथ की’ ‘धुली खादी— सा’ बिम्ब उपस्थित किया है। यहाँ ‘हाथ की धुली’ कहकर कवि ने एक अनगढ़पन का बोध कराया है और यह भी कि धुलकर एकदम वह शुभ्र नहीं हुई है ‘खादी’ कहने से एक खुर दुरे पन का भी अनुभव किया जा सकता है।

इसी कविता में आगे कवि ढूबते हुए सूरज को जो रग दिया है, वह है—

“जैसे घोल गया हो कोई गँदले जल मे

अपनी हल्की मेहदी वाले हाथ।”

शाम का समय है। ढूबते सूरज का हल्का अहसास आसमान में झलक रहा है। लेकिन गुलाबीपन ऐसा लग रहा है जैसे कोई नायिका अपने मेहदी लगे हाथों को पानी में घोल दिया हो।

“सच्चाइयाँ

जो गगा के गोमुख से मोती की तरह बिखरती रहती हैं

हिमालय की बर्फाली चोटी पर चादी के उन्मुक्त नाचते

परो में झिलमिलाती रहती है

जो एक हजार रगो के मोतियो का खिलखिलाता समन्दर है।  
 उमगो से भरी फूलो की जवान कश्तियाँ  
 कि वस्त के नये प्रभात—सागर मे छोड दी गयी हैं।”

(‘अमन का राग’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ-18)

‘कुछ और कविताएँ’ सग्रह की ‘अमन का राग’ शीर्षक इस कविता मे सत्य जैसे पवित्र मूल्य की बिम्बात्मक अभिव्यक्ति है। सच्चाइयाँ— मानो गोमुख जैसे पवित्रतम स्रोत से विखरते मोती है। यहाँ सच्चाई हिमालय की ऊँची बर्फीली चोटियो मे चादी के उन्मुक्त परो की तरह झिलमिलाती है। हिमालय की बर्फीली चोटी मे चादनी अर्थात एक ऊँचाई के साथ—साथ श्वेतत्व का बोध। फिर एक चमक भी । उज्जवलता। सत्य मे भी वही ऊँचाई है, श्वेतत्व है। उज्जवलता है। चमक है ।

यहाँ सच्चाई हजार रगो के मोतियो का खिलखिलाता समुन्दर है। उस श्वेत रग मे से ही मानो ये हजारो रग, फूट पडे हो। इसमे एक उल्लास है, विस्तार के साथ—साथ रगो की भी सृष्टि खड़ी हो जाती है। सम्भवत कवि कहना चाहता है कि सत्य हमे उल्लास देता है, रगो मे सराबोर करके हमारे व्यक्तित्व को विस्तार देता है।

“एक नीला दरिया बरस रहा है  
 और बहुत चौड़ी हवाएँ हैं  
 मकानात हैं मैदान  
 किस कदर ऊबड—खाबड  
 मगर  
 एक दरिया  
 और हवाएँ  
 मेरे सीने मे गूंज रही है।”

(‘एक नीला दरिया बरस रहा’ ‘चुका भी हूँ नहीं मैं’—पृष्ठ-9)

‘चुका भी हूँ नहीं मैं’ सग्रह की ‘एक नीला दरिया बरस रहा’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों में एक विशिष्ट प्रकार का बिम्ब उपस्थित होता है। नीला दरिया बह नहीं रहा है, बरस रहा है, अर्थात् यह दरिया की नहीं आकाश की बात है जो बादलों की उपस्थिति से फेनिल लहरों का आभास दे रहा है। ‘हवाएँ चौड़ी हैं’ में एक विस्तार का बिम्ब उभरता है। जो आगे चलकर मैदान और मकानात की उपरिथिति से ऊबड़-खाबड़ हो जाता है।

“मैं इस तरह मुस्कराया  
जैसे शाम के पानी में ढूबते पहाड़  
गमगीन मुस्कराते हैं।”

(‘चेहरों की शामों में’ ‘इतने पास अपने’ पृष्ठ-46)

‘इतने पास अपने’ सग्रह की ‘चेहरों की शामों में’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों में कवि ने अपनी ‘गमगीन’ मुस्कराहट को ‘शाम’ के बिम्ब से बिम्बित किया है। ढूबती हुई शाम में गहराते अन्धकार में ढूबते जहाड़ जैसे गम्भीर और विवश लगते हैं—वैसे ही कवि मुस्कराता है।

“कर्त्थर्झ गुलाब  
दबाये हुए हैं  
नर्म नर्म  
केसरिया सावलान मानो  
शाम की  
अगूरी रेशम की झलक  
कोमल  
कोहरिल  
विजलियों—सी

लहराए हुए हैं”

(‘कत्थई गुलाब’ ‘इतने पास अपने’ पृष्ठ—17)

‘इतने पास अपने’ सग्रह की ‘कत्थई गुलाब’ शीर्षक कविता की इन पवित्रियों के सारे बिम्ब एक दूसरे में इस प्रकार वलयित हैं कि उन्हें अलग—अलग करके देखना कविता के पूरे सौन्दर्य परिप्रेक्ष्य को खण्डित करना है। कवि का यह बिम्ब विधान वास्तव में उसके चित्र—विधान की एक प्रकार की प्रतिछिवि है। इस प्रकार का बिम्ब विधान उसी कवि के लिए सम्भव हो सकता है जो चित्रकला का गहरा मर्मज्ञ हो। साथ ही इन बिम्बों में ऊपरी तौर पर एक अन्त्विरोध सा लगता है जैसे ‘केसरिया सावलापन’ अथवा ‘कोहरिल बिजलियों’ किन्तु अधिक सूक्ष्मता से देखने पर यह परस्पर विरोध ही एक अन्तरिक संगति को ओर ईशारा करती है। क्योंकि कुहासे और श्यामता के बीच से विद्युतलता कौँधती है और फिर उसी में विलीन भी हो जाती है। इसी प्रकार केसरिया सावलापन भी सौन्दर्य बोध का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है।

“यह पूरा

कोमल कासे में ढला

गोलाइयों का आईना

मेरे सीने से कसकर भी

आजाद है

जैसे किसी खुले बाग में

सुबह की सादा

भीनी—भीनी हवा”

(‘प्रेयसी’ ‘काल तुझसे होड है मेरी’ पृष्ठ—98)

‘काल तुझसे होड है मेरी’ सग्रह की ‘प्रेयसी’ शीर्षक कविता में शमशेर की कल्पना में सौन्दर्य लोक किस प्रकार रूपायित होता है, इसका एक अनूठा

उदाहरण प्रस्तुत बिम्बो मे झाकता है। बन्धन और मुक्ति का भी एक सश्लेष होता है। कही—कही बन्धन ही मुक्ति का भी एहसास दिलाता है, गोलाइयों को अपने सीने मे कस लेना और उनके भीतर आजादी का एहसास पैदा करना ऐसे ही परस्पर विरोधी अनुभवों का सश्लेष है जिसकी अपनी एक विशेष प्रकार की सगति है।

“चिकनी चादी—सी माटी  
वह देह धूप मे गीली  
लेटी है हँसती—सी!”

(‘चिकनी चादी—सी माटी’ ‘काल तुझसे होड है मेरी’ पृष्ठ—103)

शमशेर मूलत सौन्दर्य के कवि है। यदि उनके पूरे काव्य ससार को किसी एक तत्व से पहचानने का प्रयास किया जाय तो वह तत्व उनका सौन्दर्य बोध ही है। यह सौन्दर्य लोक बाहर से उनके भीतर जाता है और भीतर से रचा जाकर बाहर आता है ‘चिकनी चादी—सी माटी’ अपनी सुन्दरता और स्निग्धता मे कितनी बेजोड है। यह वही जान सकता है जो कुम्हार के उगुलियो के द्वारा चाक पर गीली माटी से नाना प्रकार की सौन्दर्याकृतियो को निरायाश बनते देखा हो। चक्का धूम रहा है। कीली पर गीली मिट्टी रखी हुई है और कुम्हार की अँगुली का जादुई स्पर्श कितनी—कितनी छवियो को नाना प्रकार की आकृतियो मे निर्मित करता चलता है, ठीक वैसा ही जादुई स्पर्श शमशेर की कल्पना का है। जिसमे कितने—कितने सौन्दर्य लोको का निर्माण होता चलता है।

शमशेर की कविता में अन्तरालो का सर्जनात्मक प्रयोग —

शमशेर की कविता का स्वभाव सूक्ष्म और साकेतिक है उसमे अन्तरालो का सर्जनात्मक प्रयोग बहुत व्यजक है। यह एक बात को दूसरी से अलग करने भर के लिए नही है, अनेक तरह से बोलता हुआ भी है। कई बार यह पाठक को

आत्मान्वेषण का अवसर देता है, कई बार शब्दों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली भाव सकुलता से बचाता है, कई बार भाव या अनुभूति को विकसित करता है, कई बार भावों को गहरा करता है, कई बार अतीत के प्रसग को नए तथ्य से जोड़ता है कुल मिलाकर उनके अन्तराल पाठक की रचनात्मक भागीदारी बढ़ाते हैं और कथन को नए सर्जनात्मक आयाम देते हैं।

“मोम—सा पीला

बहुत कोमल नभ

एक मधुमक्खी हिलाकर फूल को

बहुत नन्हा फूल

उड़ गयी

आज बचपन का

उदास माँ का मुख

याद आता है।”

(‘धूप कोठरी के आइने मे खड़ी’ ‘कुछ और कविताएँ’—पृष्ठ-117)

‘कुछ और कविताएँ’ संग्रह की ‘धूप कोठरी के आइने मे खड़ी है’ शीर्षक कविता की पक्कियाँ कोठरी के आइने मे धूप का उतरना, मोम— सा पीला कोमल नभ आदि माँ के उदास मुँह की याद दिलाते हैं। फिर याद आती है बचपन की स्मृति, माँ का कोमल स्पर्श और उसी उम्र मे उसका जीवन से चले जाना। इसके लिए कवि ने बिम्ब चुना है— ‘नन्हे फूल को अपनी छुअन से थरथराता छोड़ मधुमक्खी के उड़ जाने’ का। पहला अन्तराल माँ के उदास मुख के स्मृति बिम्ब को फलैश बैक के क्षणों मे बदलने का अवकाश देता है। तथा दूसरा अन्तराल उपस्थित बिम्ब तथा फलैश बैक के झटके को एक सम्पूर्ण वेदना

परक स्मृति से जोड़ने के लिए है। जिसमे वेदना और राग दोनों एकत्र हैं। स्मृति और स्मृति ततुओं को अलग तरह से झकूत करने वाली अनुभूति को अन्तराल से कितना व्यजक स्पर्श मिला है। यह यहाँ देख सकते हैं।

“बा द ल अ व तू ब र के  
ह ल के र गी न ऊ दे  
म द ध म् म द ध म् रू क् ते  
रू क् ते - से आ जा ते  
इ त ने पा स अ प ने।”

(‘सध्या’ ‘इतने पास अपने’ पृष्ठ-13)

‘इतने पास अपने’ सग्रह की पहली ही कविता ‘सध्या’ सगीत के नोटेशन जैसी लिखी गई है। शब्द के वर्ण पृथक किए गये हैं।— पाठ को धीमे पढ़ने के लिए, ताकि धीरे-धीरे हल्के-हल्के तैरते बादल का धीमापन रूपायित हो सके। इस कविता को पढ़ते हुए पाठक बादल की गति को न केवल महसूस कर सकता है बल्कि उस विलबित सगीत को भी महसूस कर सकता है जो उस समय प्रकृति मे चल रहा होता है। यहाँ कवि ने एक ही शब्द के वर्णों के बीच अन्तराल रचकर उसका अत्यन्त सर्जनात्मक उपयोग किया है। जैसे बलाधात और स्वराधात के द्वारा हम शब्दों के अर्थों मे नयी-नयी व्यजनाएँ पैदा करते हैं, उसी प्रकार शमशेर जी एक शब्द मे प्रयुक्त होने वाले अक्षरों के बीच अन्तराल देकर शब्दार्थ की नयी व्यजनाएँ प्रस्तुत की हैं।

**शमशेर की काव्य-भाषा की चित्रात्मकता —**

कलाकार के व्यक्तित्व के मूल मे कोई एक चीज, कोई कला-रूप होता है, वह उसकी रचनाशीलता के भीतर अर्मूत रूप से सचारित होता है। जैसे अङ्गेय के कर्तृव्य का मूल गद्य है, जैसे प्रसाद के सूजन के भीतर कविता सचारित है, वैसे ही शमशेर की कविता के भीतर उनका चित्रकार बैठा है। कई

बार वह दिखता है, कई बार नहीं दिखता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह नहीं है। मुक्ति बोध का तो कहना यह है कि “शमशेर ने अपने हृदय में आसीन चित्रकार को पदच्युत करके कवि को अधिष्ठित किया है।” शमशेर में ड्राइग-पेटिंग के प्रति विशेष रुझान ही नहीं था, उन्होंने ढेरों स्केच, पेटिंग बनाए हैं। जो हो यह बहुत साफ है कि शमशेर की कविता के चित्रों में उनका मनस्तत्व अधिक सक्रिय है, जिसके उपयोग से वे कविता में विलक्षणता पैदा करते हैं। कई बार शमशेर की कविता चित्रों की अपेक्षा चित्रों की ओर उठी हुई उँगली लगती है।

कविता में आमतौर पर जो चित्र आते हैं, वे बिम्बधर्मी होते हैं और ऐन्ड्रिय सवेदनों को जगाते हैं। इन्हीं के सहारे पाठक अतीद्रिय अमूर्त्तन या कविता में निहित साकेतिकता तक पहुँचता है। परन्तु शमशेर के चित्र और मूर्ति की उपस्थिति का एक भिन्न अर्थ है। शमशेर के भीतर बिम्ब या अनुभूति काव्यभाषा में नहीं चित्र भाषा में अवतरित होती है। उनकी कविता में सम्पूर्ण मूर्ति या चित्र ज्यों के त्यों आ जाते हैं जो सबधित कला-माध्यम द्वारा पहले प्रतीक रूप ले चुके हैं। यद्यपि शमशेर चित्र को काव्यभाषा में बदलने की कोशिश करते हैं परन्तु उनकी काव्यभाषा भी अपने में विरल और किसी हृद तक निजी होती है, फिर भी वे जीवनानुभूति, चित्र और कविता के बीच भाषा का ऐसा सेतु बनाते हैं कि थोड़ा प्रयत्न करने पर न चित्र अव्याख्येय रहते हैं और न कविता के सवेदन।

“कठिन प्रस्तर मे अग्नि सूख  
मौन पर्ती मे हिला मैं कीट  
(ढीठ कितनी रीढ है तन की—तनी हैं)

आत्मा है भाव

भाव—दीठ

अगम अन्तर मे

अनगिनत सूराख सी करती ।”

(‘कठिन प्रस्तर मे’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-39)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह की ‘कठिन प्रस्तर मे’ शीर्षक कविता की इन पवित्रियों मे ‘अनगिनत सूराखों वाले पत्थर मे हिलता हुआ कीट’ एक प्रतीकात्मक शिल्पाकृति है जो अमूर्तन की हैसियत पा चुकी है। अब कवि इसे कविता की भाषा मे रूपातरित करता है। इसका पहला माध्यम है— मै, और दूसरा है नियत पवित्र से अलग कोष्ठक मे रखी हुई पवित्र। इनके द्वारा शिल्पाकृति का काव्यार्थ खुलने लगता है, आकृति मे निहित मानवीय अर्थ बनने लगते हैं। ‘मैं’, ‘कीट’ का रूप ले लेता है या ‘कीट’, ‘मै’ का। कवि कहता है ‘आत्मा है भाव’—यानी भाव ही आत्मा है, जिसकी दीढ़(दृष्टि) झुकी हुई है। तात्पर्य है— आत्मान्वेषणशील दृष्टि। यह दृष्टि अगम्य अन्तर मे उतरती है जो अभी पत्थर की तरह ठोस है। क्योंकि अपने सस्कारों और जड़ताओं मे यह भाव—दृष्टि इसी मन मे आवद्ध है, जो अनगिनत सूराख करती हुई पतर—दर—परत उसे भेदने की कोशिश करता है। इस बोध के बाद दोनों अशों के सश्लेष की अर्तकिया पाठक मे प्रारम्भ हो जाती है कि जैसे कोमल सा प्रतीत होने वाला कीट पत्थर मे अगणित सुराख करता रहता है। वैसे ही अपनी जड़ता और सीमा के कारण प्रस्तर हो गये मानव मन मे आत्मा की भाव—दृष्टि अनगिनत सूराख करती रहती है।

“सुन्दर

उठाओ

निज वक्ष

और—कस—उभर।

क्यारी  
 भरी गेदा की  
 स्वर्णारक्त  
 क्यारी भरी गेदा की  
 तन पर  
 खिली सारी—  
 अति सुन्दर। उठाओ।”

(‘एक मुद्रासे’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ-138)

‘कुछ और कविताएँ’ संग्रह की ‘एक मुद्रा से’ शीर्षक कविता की ये पक्कियाँ मानो एक पोट्रेट बनाने वाले चित्रकार या मूर्तिकार द्वारा अपने माडल से की जाने वाली माग हो। जो पूर्ण और सुगठित सौन्दर्य को केन्वास पर उभारने या पत्थर मे उकेरने की सर्जनात्मक कोशिश कर रहा है। सारा दृश्य सौन्दर्य का एक गहरा साक्षात्कार प्रतीत होता है और कवि की लेखनी से एक शब्द का वाक्य फूट पड़ता है— ‘सुन्दर’। यही सौन्दर्य मूर्तिकार या चित्रकार के समुख पूरे कसाव और उभार मे प्रत्यक्ष होता है, जिससे प्रति कृति मे सौन्दर्य अपनी पूर्णता के साथ उतर सके। कलाकार की इस भूमिका के बाद कवि की भूमिका प्रारम्भ होती है। कवि चित्र मे अपने रग भरता है। वह कहता है ‘क्यारी भरी गेदा की स्वर्णारक्त / क्यारी भरी गेदा की तन पर खिली सारी— अति सुन्दर’ ऐसे कथन से वह भराव, रग, शृगार आदि को ऐन्द्रिय बिम्ब शृखला मे बदलकर एक सम्पूर्ण सयोजन रखता है। इस तरह प्रारम्भिक पक्कियों का औचित्य खुलने लगता है और चित्रकार या शिल्पकार की सर्जनात्मक लेकिन अनासक्त प्रतीति कार्याथ मे बदलने लगती है।

“सीग और नाखून

लोहे के बक्तर कन्धो पर।

सीने मे सूराख हड्डी का  
आँखों मे धास काई की नमी।

एक मुर्दा हाथ  
पॉव पर टिका  
उलटी कलम थामे।

तीन तसलो मे कमर का घाव सज्ज चुका है।

जडो का भी कडा जाल  
हो चुका पत्थर।

(‘सीग और नाखून’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ-154)

‘कुछ और कविताएँ’ सग्रह की ‘सीग और नाखून’ शीर्षक इस कविता के बारे मे स्वयं कवि ही रजना अरगडे से एक साक्षात्कार के दौरान कहता है—‘सीग और नाखून’ की बात जब आप कहती है। तब असल मे सारी बाते बाते नहीं रहती—बाते अनुभव मे ट्रान्सफर्म हो जाती है। उन दिनो मेरे ससुर साहब बिमार थे। उन्हे कैसर था, एच० वी० पी० था बहुत बिमार थे। मुझे बिमारी देखने का मौका मिला। मैं अस्पताल मे रहता था। प्रोबेवली आई थिक सो डैट दीज थिग्स हैव कम फाम देयर यह तो मेरा एक्सपीरियस हुआ फिर मेरी पत्नी विमार रही। वही से ये इमेज आये।’’ शमशेर यह भी कहते हैं कि ये सब चित्र मे आये। इन भयावह अनुभवो के स्मृति चित्र कवि के मानस मे लगातार घुमडते रहे होगे जो बाद मे इस कविता मे रूपायित हुए।

## शमशेर की काव्य-भाषा की लयात्मकता—

शमशेर की काव्यलय पर चर्चा करने से पहले काव्यलय के विषय में आरभिक चर्चा करना ज्यादा उचित होगा। काव्यलय के बारे में दो नितान्त विरोधी मत हैं। एक मत यह है कि लय अनिवार्यत नियमित आवर्तन है। अर्थात् छन्द के साथ इसका निकट का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। साथ ही गद्य-लय की सारी सम्भावना समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि मुक्त छन्द भी इसकी चर्चा से बाहर हो जाता है। दूसरा मत नियमित आवर्तन न होने पर भी रचना में लय का अस्तित्व स्वीकार करता है। इससे सामान्य बातचीत में वर्तमान लय का भी जायजा लिया जा सकता है। लय कविता के समग्र विश्व को अनुभूति कराने में सहायक सिद्ध होती है। कविता अगर मुक्त छन्द में हो तो लय बहुत ही उप कारक सिद्ध होती है।

“शमशेर की कविताओं में सगीत की एक मन स्थिति बराबर चलती रहती है, जिसका सगमन बीच-बीच में चित्रकला से बराबर होता है। कविता, सगीत और चित्राकन की एक अद्भुत त्रिवेणी शमशेर के यहाँ प्रवाहित है। एक ओर चित्रकला की आकृति उभरती है। और फिर वह सगीत की अमूर्तता में छूब जाती है। यो चित्रकला, सगीत और कविता घुल-मिलकर रचना सम्भव करते हैं। भाषा में बोल चाल के गद्य का लहजा और लय में सगीत का चरम अमूर्तन इन दो परस्पर मन स्थितियों को उनकी कला साधती है।”

(‘तार सप्तक से गद्य कविता’ ‘डॉ रामस्वरूप चतुर्वेदी’ पृष्ठ-33)

शमशेर की अधिकतर रचनाएँ मुक्त छन्द में हैं। उनकी ऐसी कविताओं में लय की बात बराबर की जाती रही है जो सही भी है। लय विधान की दृष्टि से ‘राग’ शमशेर की कला को अच्छे ढंग से खोलती है। पूरी कविता की लय अत्यन्त प्रशमित है। इसका अन्तिम बद है—

“तब छन्दों में तार खिचे—खिचे थे,

राग बधा—बधा था,  
 प्यास उँगलियो मे विकल थी—  
 कि मेघ गरजे  
 और मोर दूर और कई दिशाओ से  
 बोलते लगे— पीयूआ। उनकी  
 हीरे नीलम की गर्दने बिजलियो की  
 हरियाली के आगे चमक रही थी  
 कही छिपा हुआ बहता पानी  
 बोल रहा था अपने स्पष्ट मधुर  
 प्रवाहित बोल ।“

(‘राग’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-20)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह की ‘राग’ शीर्षक कविता की इन प्रकृतियो मे  
 बादल, मोर और बहते पानी के बोल मे कवि जैसे अपनी आवाज मिला देता है।  
 यहाँ दृश्य श्रव्य बन जाता है और श्रव्य दृश्य। हीरे—नीलम की विजलियों और  
 हरियाली पानी के स्पष्ट मधुर बोल मे झूब जाते हैं, और मेघ का गरजना  
 हरियाली मे। विभिन्न सवेदन मिलकर रचना की सवेदना मे लय हो जाते हैं।

“भूलकर जब राह—जब राह भटका मैं  
 तुम्ही झलको, हे महाकवि  
 सघन तम की आँख बन मेरे लिए,  
 अकल कोषित प्रकृति का विश्वास बन मेरे लिए—  
 जगत के उन्माद का  
 परिचय लिए—  
 और आगत—प्राण का सचय लिए, झलके प्रमन तुम,  
 हे महाकवि। सहजतम लघु एक जीवन मे

अखिल का परिणय लिए—

प्राणमय सचार करते शवित औ छवि के मिलन का ह्वास मगलमय,

मधुर आठो याम

विसुध खुलते

कठ स्वर मे तुम्हारे कवि

एक ऋतुओं के विहँसते सूर्य।

काल मे (तम घोर) —

बरसाते प्रवाहित रस अथोर अथाह।

छू किया करते

आधुनिकतम दाह मानव का

साधना स्वर मे

शात शीतलम।”

(‘निराला के प्रति’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-15)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह मे सकलित ‘निराला के प्रति’ शीर्षक कविता, मुक्त छन्द और अतुकान्त होते हुए भी, मे लय का सम्पूर्ण निर्वाह हुआ है। यह स्वाभाविक ही है कि ‘निराला के प्रति’ शीर्षक इस कविता मे कवि की चेतना मे वही लय प्रवाह प्रवहमान है जो स्वय निराला की छन्द मुक्त कविताओं मे हमे देखने को मिलता है ‘जूही की कली’, ‘विधवा’, अथवा ‘वह तोडती पत्थर’ जैसी कविताओं मे निराला इसी लय के बल पर ही पाठको के मानस मे कितनी सघनता से उतरते जाते हैं। ऐसा इसी लिए सम्भव हो सका है कि शमशेर बहादूर सिंह भी मूल्तर्त नाद सौन्दर्य के कवि हैं। असल मे हिन्दी काव्य की वास्तविक शवित यह नाद सौन्दर्य ही है।

“य” शाम है

कि आसमान खेत हैं पके हुए अनाज का।

लपक उठी लहू भरी दरातियॉ

कि आग है

धुआँ—धुआँ

सुलग रहा

गवालियर के मजूर का हृदय।“

(‘य’ शाम है’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-40)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह मे सकलित ‘य’ शाम है’ शीर्षक कविता की इन पक्षितयो मे लय— विधान का सम्पूर्ण निर्वाह हुआ है। जबकि यह कविता अतुकान्त और मुक्त छन्द मे लिखी गई है। कविता की पहली ही पक्षित ‘य’ शाम है’ जितनी बार गुनगुनायी जाय उतनी ही पाठक की चेतना मे निनादित होती चली जाती है। ऐसा लगता है कि कवि इस कविता को बार—बार गुनगुनाता है और उसकी गूज और अनुगूज स्वयं कवि के मन मे बहुत गहरे उत्तरती चली गयी है।

“मौन आहो मे बुझी तलवार

तैरती है बादलो के पार।

चूमकर उषाभ आशा अधर

गले लगते हैं किसी के प्राण।

—गह न पायेगा तुम्हे मध्याह्न

छोड दो ना ज्योति का परिधान।“

(‘मौन आहो मे बुझी तलवार’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-34)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह मे सकलित ‘मौन आहो मे बुझी तलवार’ शीर्षक कविता ध्वनि साम्य का एक सुन्दर उदाहरण है। यहॉ पहली तीन पक्षितयो का अन्त ‘र’ और अन्तिम दो पक्षितयो का अन्त ‘न’ वर्ण पर हुआ है। जिसके कारण इस कविता मे लय विधान का निर्वाह हुआ है।

“यह विवशता  
 कभी बनती चाँद  
 कभी काला ताड़  
 कभी खूनी सड़क  
 कभी बनती भीत, बाध  
 कभी बिजली की कड़क जो  
 क्षण—प्रतिक्षण चूमती—सी पहाड़।”

(‘यह विवशता’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-59)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह मे सकलित ‘यह विवशता’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों मे ‘कभी’ का बार—बार आवर्त्तन इस कविता को सहज ही लयात्मक बना देता है। कवि मनुष्य के अन्तर मे व्याप्त उस आन्तरिक प्रेरणा द्वारा परिचालित है। यहाँ कविता की लय मन के ज्वार से परस्पर वलयित हो रही है। प्रकम्पित करने वाला वह ज्वार किस प्रकार काव्य—भाषा के लय मे सक्रिय होता है, इसका अद्भूत उदाहरण यह कविता सम्प्रेषित करती है।

“शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा।  
 सावली पलके नशीली नीद मे जैसे झुके  
 चादनी से भरी भारी बदलियाँ हैं,  
 खाब मे गीत पेग लेते हैं  
 प्रेम की गुझियाँ झुलाती हैं उन्हे  
 —उस तरह का गीत, वैसी नीद, वैसी शाम—सा है  
 वह सलोना जिस्म।”

(‘वह सलोना जिस्म’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-64)

इस प्रकार शमशरे की काव्य मजूषा से ऐसी अनेक कविताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण व्यजना उसके लय से से ही फूटी। कुछ ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

“एक पीली शाम

पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता

शात

मेरी भावनाओं मे तुम्हारा मुख कमल

कृश म्लान हारा—सा

(कि मैं हूँ वह, मौन दर्पण मे तुम्हारे कही)

वासना ढूबी

शिथिल पल मे

स्नेह काजल मे

लिए अद्भूत रूप—कोमलता

अब गिरा अब गिरा वह अटका हुआ औँसू

सान्ध्य तारक—सा

अतल मे ।”

(“एक पीलीशाम” ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-29)

यह पीली शाम शमशेर की ‘य’ शाम है से अलग एक दूसरे ही प्रकार की गद्य—लय प्रस्तुत करती है जिसमे वह प्रवाह नहीं जिसे हमने ‘य’ ‘शाम है’ मे देखा था किन्तु इसकी परणिति लय की एक विचित्र किस्म की है जो अन्तिम पक्षियों मे उसी प्रकार प्रतिध्वनित होती है जैसे कोई सगीतज्ञ अपनी अन्तिम परिणति मे सहसा थम जाता है—“अब गिरा / अतल मे।” लय की यह परिणति सगीत का एक प्रतिगूज सी प्रतीत होती है।

“एक नीला आइना

बेठोस—सी यह चॉदनी  
 और अन्दर चल रहा हूँ मैं  
 उसी के महातल के मौन मे।  
 मौन मे इतिहास का  
 कन किरन जीवित, एक बस।  
 एक पल के ओटे मे है कुल जहान।”

(‘एक नीला आइना बेठोस’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ-21)

‘कुछ कविताएँ’ सग्रह की ‘एक नीला आइना बेठोस’ शीर्षक कविता की इन पक्षियो मे अर्थ और लय का इतना गहरा सश्लेष है जो स्वयं शमशेर के यहाँ भी बिरल है।

शमशेर की कविता मे गद्य की लय का अर्थात् कुछ गद्य—सरचनाओ का काव्यात्मक उपयोग पूरे कौशल के साथ हुआ है—

“हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरो से करती हैं  
 जिन मे वह फस्ते नही आती  
 जैसे हवाएँ मेरे सीने से करती हैं  
 जिसको वह गहराई तक दबा नही पाती  
 तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुम से करता हूँ

(‘दूटी हुई विखरी हुई’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ-133)

‘तुम’ को सम्बोधित यह नाट्य एकालाप गद्यवत है। प्रेमी वक्ता अपने प्रेमास्पद के सामने प्रेम का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। ‘जल बीच मीन’ और ‘सीने मे हवा’ के बिन्दु इस प्रकथन को काव्य परम्परा से जोडते हैं। ‘आती—पाती’ की तुक तथा सरचना और व्यजना का असारधारण संगुम्फन इन गद्यवत वाक्यो को ऊर्जस्वित कविता बना देता है।

शमशेर के काव्य—भाषा की नजाकत —

शमशेर उर्दू काव्य भाषा का सस्कार लेकर हिन्दी कविता मे आये थे। उर्दू काव्य भाषा मे मुहावरे और वाक्य विन्यास पर खास जोर दिया जाता है। अज्ञेय जी ने अपनी 'शाश्वती' मे उर्दू और हिन्दी इन दो भाषा स्वभावो की चर्चा के दौरान 'शमशेर की बात की हैं वे मानते हैं कि— "शमशेर मूलत उर्दू के कवि हैं और रहे हैं, उनकी सवेदना का सस्कार उर्दू का रहा है।" शमशेर ने भाषा की नजाकत का जो रूप अपनी कविताओ मे उकेरा है, वह उर्दू और हिन्दी दोनो का मिला—जूला समन्वित रूप है। वह सर्वथा उनका अपना, उनका निजी है। उर्दू और हिन्दी शब्द इतनी सहजता से उनकी कविताओ मे एक साथ आते हैं कि कविता की रचना प्रक्रिया मे शमशेर के यहाँ यह भेद रह ही नही जाता कि यह उर्दू का शब्द है या हिन्दी का। कुछ भी सयास नही है। काव्य भाषा मे शमशेर ने हिन्दी और उर्दू के बीच सेतु का काम किया है। हिन्दी को उर्दू की मिठास, तरास और लोच देने का श्रेय शमशेर को ही जाता है। यही काम प्रेमचन्द ने हिन्दी गद्य क्षेत्र मे किया। नीचे उदाहरण स्वरूप कुछ कविताओ के अश दिये जा रहे हैं, जिनसे इस मान्यता की सच्चाई को समझा जा सकता है—

"बेखबर मैं,

बाखबर आधी—सी रात

बेखबर सपने हैं।

बाखबर है एक, बस, उसकी जात।

तू मेरी।

आमीन।

आमीन।

आमीन।"

(रेडियो पर एक योरपीय सगीत सुनकर 'कुछ कविताएँ' पृष्ठ-26)

अथवा

“क्यों यह धुकधुकी, डर—  
 दर्द की गर्दिश यकायक सास तूफान मे गोया।  
 छिपी हुई हाय—हाय मे  
 सुकून  
 की तलाश।  
 बर्फ के गालो मे है खोया हुआ  
 या ठडे पसीने मे खामोश है  
 शबाब।”

(‘आओ।’ ‘कुछ कविताएँ’ पृष्ठ—66)

अथवा

“गुलशन से जो इतराती आगन मे बहार आयी  
 खुश जौक दुल्हन उसकी शोखी को सँवार आयी।”

“यह कौन निगार आया, फिर बॉगे—हजार आयी  
 कलियो ये निखार आया, फलो पे बहार आयी।”

(‘कुछ शेर’ ‘कुछ और कविताएँ’ पृष्ठ—107)

अथवा

“कबूतरो ने एक गजल गुनगुनायी  
 मै समझ न सका रदीफ काफिये क्या थे  
 इतना खफीफ इतना, इतना हल्का, इतना मीठा  
 उनका दर्द था।”

अथवा

“सिर्फ एक बहुत

काली बहुत लम्बी जुल्फ थी जो जमीन तक  
साया किये हुए थी”

उपर्युक्त काव्याशो मे बेखबर, बाखबर, आमीन, गर्दिश, सुकून, तलाश,  
खामोश, शबाब, गुलशन, बहार, खुशजौक शोखी, गजल, रदीफ काफिये, खफीफ  
जैसे शब्द शमशेर की काव्य भाषा को जो प्रवाह और गति देते हैं वह शुद्ध  
हिन्दी मे लिखने वालो के लिए ईर्ष्या की वस्तु है। वास्तव मे उनकी कविताओ मे  
उर्दू और हिन्दी के अलग-अलग शब्द ढूढ़ने की कोई विशेष सार्थकता भी  
महसूस नही होती । वे इतनी सहजता से कविताओ मे आते हैं कि कभी  
अजनबी लगते ही नही। हिन्दी भाषी समाज मे यह बहस बहुत लम्बे समय से  
चलती रही है कि भाषा विशेषकर सर्जनात्मक भाषा का रचाव कैसा हो, क्या वह  
विशुद्ध तत्सम स्स्कृतिष्ठ शब्दावली द्वारा निर्मित होनी चाहिए जैसा कि हम  
जयशकर प्रसाद की काव्य-भाषा या निराला की ‘राम की शक्ति पूजा’ जैसी  
कविताओ की भाषा मे देखते हैं या कि उसके निर्मिति मे अत्यन्त सहजता से  
हिन्दी उर्दू का एक रसायन होना चाहिए जैसा कि धर्मवीर भारती या फिर  
रघुवीर सहाय या शमशेर की भाषा मे हम देखते हैं। गद्य के सन्दर्भ मे इसका  
उत्तर प्रेमचन्द ने दिया है। और काव्य के सन्दर्भ मे धर्मवीर भारती और शमशेर  
बहादुर सिंह ने। सच बात यह है कि काव्य भाषा की क्षमता इस बात पर निर्भर  
नही करती कि शब्दो का स्रोत क्या है। समाज-जीवन मे जो शब्दावली रवॉ है  
उसे अपनाकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचनाएँ लिखी जा सकती हैं। वशर्ते वे जीवनानुभव  
से अनुप्रमाणित हो और पाठक मे सच्ची अनुभूति का सचार करती हो। शमशेर  
इस कसौटी पर बहुत खरे उतरते हैं। परन्तु शमशेर की काव्य-भाषा के रचाव  
को केवल इस बात के मद्देनजर रखकर नही समझा जा सकता है कि शब्दो  
का स्रोत क्या है? शमशेर के शब्द-विन्यास मे जो एक कलात्मकता है उसे  
ग्रहण कर पाना हर पाठक के बूते की बात नही है।


अन्याय ५

भवानी प्रसा-

श-

प्रसा तरह हम

दे हैं



प्रसा तरह हम  
दे हैं

‘दूसरा सप्तक’ की कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र अपनी भाषिक ऋजुता के कारण सभी से अलग हैं। एक विशेष प्रकार की ऋजुता भाषा के धरातल पर रघुवीर सहाय में भी देखने को मिलती है। परन्तु रघुवीर सहाय मूलत एक आधुनिक सरल और नागर भाषा के आविष्कर्ता हैं और चूंकि उनकी भाषा की खोज मुख्य रूप से दिल्ली के समाचार पत्रों में काम करते हुए निष्पन्न हुई है, इसलिए उस भाषा की शब्दावली पत्रकारिता की और समाचार जगत से पूरी गहराई से जुड़ी हुई शब्दावली है। परन्तु भवानी प्रसाद मिश्र का भाषा ससार हमारे रहने-सहने की सामान्य जिन्दगी से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके शब्दों की खोज किसी विशेष कोने में हमें नहीं ले जाती। पूरी प्रकृति और हमारा सम्पूर्ण व्यवहार जगत उनकी भाषा परिधि में आता है। परन्तु उनकी उपलब्धि इस बात में है कि उन्हे पढ़ते हुए हमें बार-बार लगता है कि वे हमसे बतिया रहे हैं। बात-चीत को इस प्रकार की सर्जनात्मक रेखाओं में बाधना और एक नये प्रकार की ऋजु शब्दावली और नये भाषा विन्यास की निर्मिति पाठक की पूरी तौर पर सहलाते और सर्वेदित करते हुए उसके भीतर एक नये प्रकार का सर्जनात्मक उन्मेष पैदा करना भवानी प्रसाद की काव्य-भाषा का एक खास चमत्कार है। कवि भवानी जब लेखन के क्षेत्र में आये उस समय न केवल लिखने और बोलने की भाषा अलग-अलग थी बल्कि लिखने और लिखने की भाषा ही अलग थी। एक वह भाषा थी जिसे हम कोरी साहित्यिक कह सकते हैं और दूसरी वह जो लोक जीवन से जुड़ी हुई थी। जिसका व्याकरण किताबों में बन्द न था बल्कि जनता द्वारा अनुशासित और नियन्त्रित था। मिश्र जी ने अपनी कविता के लिए भाषा के इसी रूप को चुना। एक जगह उन्होंने स्वयं कहा है— “मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोलकर देखता हूँ और बोली उसमे बजती नहीं है तो मैं पक्तियों को हिलाता-डुलाता हूँ। बोलचाल

हिन्दी की मेरी ताकत है।” इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भाषा उतनी नहीं है जितनी की वह ‘बोली’ है।

अपने ऊपर पढ़े अन्य कवियों के प्रभावों और अपनी कविता की भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है— “ मुझ पर किन—किन कवियों का प्रभाव पड़ा है, यह भी एक प्रश्न है। किसी का नहीं। पुराने कवि मैंने कम पढ़े, मुझे जँचे नहीं। मैंने जब लिखना शुरू किया तब अगर श्री मैथलीशरण गुप्त और श्री शियाराम शरण को छोड़ दे तो छायावादी कवियों की धूम थी। ‘निराला’, ‘प्रसाद’ और ‘पन्त’ फैशन में थे। मेरी कम्बख्ती (जिसे कहने में भी डर लगता है)— ये तीनों ही बड़े कवि मुझे लकीरों में अच्छे लगते थे। किसी एक की भी एक पूरी कविता बहुत नहीं भा गयी। तो उनका क्या प्रभाव पड़ता। अँगरेजी कवियों में मैंने वर्डस्वर्थ पढ़ा था और ब्राउनिंग—विस्तार से। बहुत अच्छे मुझे लगते थे दोनों। वर्डस्वर्थ की एक बात मुझे पटी कि ‘कविता की भाषा यथा सम्भव बोलचाल के करीब हो तत्कालीन हिन्दी कविता इस ख्याल से बिल्कुल दूसरे सिरे पर थी। तो मैंने जाने—अनजाने कविता की भाषा सहज रखी। प्राय प्रारम्भ की एक रचना में (‘कवि से’) मैंने बहुत—सी बातें की थीं दो लकीरें याद हैं

जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख,  
और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख।”

(‘वक्तव्य’ ‘दूसरा सप्तक’ स० अङ्गेय पृष्ठ—20)

आज इतने दिनों बाद भी इन पकितयों के भीतर से ध्वनित होने वाला सत्य जरा भी धूमिल नहीं हुआ और न ही मलिन। डॉ राम कमल राय ने अपने एक लेख में लिखा है— “ जिस बात को अङ्गेय काफी गहरे विश्लेषण, तर्क एवं युक्ति के सहारे ‘दूसरा सप्तक’ की भूमिका में समझाते हैं, वही सत्य इतने सहज रूप में इन दो पकितयों में कौंध जाता है। ‘कविता क्या है?’ इस प्रश्न का उत्तर युगों से मनीषी देते आये हैं। आचार्य रामाचन्द्र शुक्ल का पूरा लेख इस

गुरुथी के विभिन्न पक्षों को सुलझाने का प्रयास करता है। परन्तु भवानी भाई ने जो बात कह ही वह अपने आप में लाजबाब है।"

(नई कविता नई दृष्टि डॉ राम कमलराय पृष्ठ-137)

भवानी प्रसाद मिश्र सुराजी थे। सुराजी भवानी भाई और कवि भवानी मिश्र में शुरू से ही एका रही है। सच तो यह है कि प्रभात फेरियो जेलो और जनान्दोलनों के बीच कविता उनकी सहधर्मिणी परिणीता की तरह उनके साथ होती थी। चाहे भवानी भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो या आजाद हिन्दुस्तान में रह रहे हो, कविता सदैव उनके साथ होती। नौकरी, शादी, बिमारी और मौत के तमाम मोर्चों पर वह उनके साथ खट्टी, गाती, बेचैन होती और जूझती हुई जिन्दगी जितने रगों में ढूबी है, जितने कीचड़ में सनी है, जितने बोझ से लदी-फदी है, उनकी कविता भी उतनी ही ढूबी, सनी और लदी-फदी है। सहज और स्वभाव सिद्ध होने के कारण ही वह हर क्षण बजती है। पढ़ने में जितना वह खुलती है, उससे कही अधिक सुनने और गुनने में।

गाधी विचार धारा से सम्पृक्त होकर जीवन को देखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र की जीवन के भौतिक मूल्यों के प्रति विद्रोही दृष्टि रही है। मानववाद के प्रति उन्मुख होते हुए गाधी जी की तरह साम्य वादी विचार और पूरे समाज को धर्म, जाति, ऊँच-नीच, वर्ग, वर्ण-भेद से ऊपर उठाने की प्रवृत्ति का प्रभाव कवि मन पर पड़ा है। कवि पूरे देश को छूआ-छूत, काले गोरे, हिन्दू-मुसलमान के भेद-भाव से ऊँचा उठाना चाहता है। भवानी भाई की कविता समूचे मनुष्य को लेकर चलती है। वह जो भविष्य में जितना है, उससे कही अधिक अतीत में है। और इस अतीत को स्रकिय किये बिना भविष्य घट ही नहीं सकता। अतीत गर्भ केन्द्र है। भविष्य उसका शिशु है। भवानी भाई जब 'भूत जगाने' की बात करते हैं तब वे उसी मानव इतिहास की ओर इशारा कर रहे होते हैं।

गांधी और गांधी दर्शन के प्रति भवानी भाई का लगाव तब से था जबसे उन्होंने उपने आस-पास के परिवेश को जानने और समझने की कोशिश शुरू की थी। गांधीवाद उनके लिए सिर्फ एक वैचारिक प्रेरणा का स्रोत भर नहीं रह गया था, बल्कि उनकी चेतना और स्वेदना तत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। निःसकोच कहा जा सकता है कि वे कविता के गांधी थे। चाहे अंग्रेजी हो अथवा हिन्दी, गांधी जी ने इन दोनों भाषाओं का एक अत्यन्त ऋजु स्वरूप विकसित किया था। गांधी कवि तो नहीं थे लेकिन गांधी जी की पत्रकारिता का दायरा बहुत विस्तृत था और उसका अभ्यास बहुत ही लम्बा। वे जीवन भर पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे। और चाहे 'यग इण्डिया' हो या 'हरिजन' वे बराबर एक ऋजु भाषा के विकास की दिशा में असाधारण उपलब्धियों के स्वामी रहे। गांधी जैसी सरल भाषा लिखने वाले हिन्दी में विरले ही हुए हैं। गद्य के क्षेत्र में जैनेन्द्र कुमार और बिनोवा भावे तथा काव्य के क्षेत्र में भवानी प्रसाद मिश्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। भवानी भाई की कविताओं में जिस प्रकार की भाषा प्रयोग में आयी है, वह एक प्रकार की भाषिक-सिद्धि का उदाहरण है। 'दूसरा सप्तक' में सकलित अपनी कविताओं के सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा है— "दूसरा सप्तक" की मेरी कविताएँ मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएँ नहीं हैं। जगह की तरीके सोचकर मैंने छोटी-छोटी कविताएँ ही इसमें दी हैं।

बहुत मामूली रोजमर्रा के सुख दुख मैंने इनमें कहे हैं, जिन का एक शब्द भी किसी को समझाना नहीं पड़ता।

"शब्द टप-टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से"।

(‘वक्तव्य’—‘दूसरा सप्तक’— पृष्ठ-21)

गीत फरोश (1956) कवि मिश्र का पहला काव्य संग्रह है। इसमें कवि ने अपने गीतों के माध्यम से तत्कालीन भ्रष्ट भारतीय मन के खिलाफ आवाज उठायी है। 'किसिम-किसिम' के गीतों द्वारा कवि ने सामाजिक वैषम्य, भ्रष्टाचार,

रिश्वत खोरी के प्रति व्यग्य किया है। प्रकृति सौन्दर्य, कान्ति का उद्घोष और मानवतावादी चेतना का स्वर इस सग्रह की कविताओं में जगह-जगह दिखाई पड़ता है। कवि ने पूरी ईमानदारी के साथ इस सग्रह की कविताओं में अपनी अभिव्यक्ति को वाणी दी है। मनुष्य के अमानवीय व्यवहार व विवशता के प्रति करारा व्यग्य करते हुए कवि लिखता है—

“जी हॉं हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ।

मैं तरह-तरह के

गीत बेचता हूँ,

मैं सभी किसिम के गीत

बेचता हूँ।

जी, माल देखिए दाम बताऊँगा,

बेकाम नहीं काम बताऊँगा

x x x

जी, आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान ।

मैं सोच-समझकर आखिर

अपने गीत बेचता हूँ

जी हॉं हुजूर मैं गीत बेचता हूँ।”

(‘गीत-फरोश’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ-36-37)

‘दूसरा सप्तक’ में सकलित ‘गीत फरोश’ शीर्षक कविता में कवि ने अपनी कसक और पीड़ा को इन्द्रधनुषी रगो में रचा है। पूरी की पूरी कविता एक बाजारु परिवेश को प्रस्तुत करती है। इसकी भाषिक सरचना और इसमें व्यजित अनुभव में इतना गहरा तादात्म्य है कि पाठक को लगता ही नहीं वह कोई कविता पढ़ रहा है, बल्कि वह अपने को किसी बाजार में खड़ा पाता है।

जहाँ व्यापारी अपने 'किसिम—किसिम' के माल बेच रहे हैं । मोल—तोल का एक पूरा परिवेश उपस्थित हो जाता है ।

कवि का दूसरा काव्य सग्रह 'चकित है दुख' (1968) स्वातन्त्र्योत्तर काल में देश की पतित स्थिति का चित्राकन है । जीवन आदर्शों में हो रहे हासमूलक परिवर्तनों के प्रति निराशा से ग्रस्त होकर देश की छिन्न—भिन्न होती हुई स्थिति से कवि मन पीड़ित होता है । फिर भी आशा और आस्था तथा विश्वास के स्वर की गूज इस सग्रह की कविताओं में परिलक्षित होती है । कुछ कविताओं में समाजिकता का भाव, यथार्थ बोध, जीवन बोध, मानवीय सवेदना, पारिवारिक प्रेम, विषमता के चित्र और मृत्यु का एहसास भी मुखरित हुआ है । कवि मानव की पीड़ा से ग्रस्त है । जीवन के कूर सत्य और यथार्थ पक्ष को उभारते हुए कवि सामाजिक आडम्बर और स्वार्थी प्रवृत्तियों से धिरे हुए देश की अराजकता तथा भ्रष्टाचारी स्थिति से घबरा उठता है । यहाँ कवि को सत्ताधारी वर्ग गांधीवादी विचार धारा का गला दबोचने में सलग्न दिखाई देता है ।

कवि के अगले काव्य सग्रह 'अँधेरी कविताएँ' (1968) में आत्म विन्तन, रोजमर्रा का दुखी चहरा, जीवन मूल्य, युग सत्य, मानवतावादी चेतना से सम्बद्ध और जनमानस के प्रति समर्पण के भाव से युक्त कविताएँ हैं । उस समय पूँजीवादी और सामतवादी शक्तियों मानव को विनाश के गर्त में ढकेल रही थी । देश की राजनीति मानव को छल रही थी । मनुष्य चुपचाप तत्कालीन स्थितियों का द्रष्टा मात्र बनकर रह गया था । कवि ने युग सत्य को अपनी अनुभूतियों से पहचाना । 'सतपुड़ा के घने जगलो' के तूफान कवि को निर्भय होकर आशा आस्था और विश्वास की ओर उन्मुख करते हैं ।

कवि का चौथा काव्य सग्रह 'गांधी पचशती' (1970) गांधी दर्शन को मूर्त रूप देने वाला सग्रह है, जिनमें कवि की कुल पाच सौ कविताएँ सग्रहीत हैं । कवि विस्मृत होती हुई गांधी जी की वाणी को जनमानस को सुनाकर यह सदेश

जहाँ व्यापारी अपने 'किसिम—किसिम' के माल बेच रहे हैं । मोल—तोल का एक पूरा परिवेश उपस्थित हो जाता है ।

कवि का दूसरा काव्य सग्रह 'चकित है दुख' (1968) स्वातंत्र्योत्तर काल में देश की पतित स्थिति का चित्राकन है । जीवन आदर्शों में हो रहे ह्वासमूलक परिवर्तनों के प्रति निराशा से ग्रस्त होकर देश की छिन्न—भिन्न होती हुई स्थिति से कवि मन पीड़ित होता है । फिर भी आशा और आस्था तथा विश्वास के स्वर की गूज इस सग्रह की कविताओं में परिलक्षित होती है । कुछ कविताओं में समाजिकता का भाव, यथार्थ बोध, जीवन बोध, मानवीय सवेदना, पारिवारिक प्रेम, विषमता के चित्र और मृत्यु का एहसास भी मुखरित हुआ है । कवि मानव की पीड़ा से ग्रस्त है । जीवन के कूर सत्य और यथार्थ पक्ष को उभारते हुए कवि सामाजिक आडम्बर और स्वार्थी प्रवृत्तियों से घिरे हुए देश की अराजकता तथा भ्रष्टाचारी स्थिति से घबरा उठता है । यहाँ कवि को सत्ताधारी वर्ग गांधीवादी विचार धारा का गला दबोचने में सलग्न दिखाई देता है ।

कवि के अगले काव्य सग्रह 'अँधेरी कविताएँ' (1968) में आत्म चिन्तन, रोजमर्रा का दुखी चहरा, जीवन मूल्य, युग सत्य, मानवतावादी चेतना से सम्बद्ध और जनमानस के प्रति समर्पण के भाव से युक्त कविताएँ हैं । उस समय पूँजीवादी और सामतवादी शक्तियों मानव को विनाश के गर्त में ढकेल रही थी । देश की राजनीति मानव को छल रही थी । मनुष्य चुपचाप तत्कालीन स्थितियों का द्रष्टा मात्र बनकर रह गया था । कवि ने युग सत्य को अपनी अनुभूतियों से पहचाना । 'सतपुड़ा के घने जगलों' के तूफान कवि को निर्भय होकर आशा आस्था और विश्वास की ओर उन्मुख करते हैं ।

कवि का चौथा काव्य सग्रह 'गांधी पचशती' (1970) गांधी दर्शन को मूर्त रूप देने वाला सग्रह है, जिनमे कवि की कुल पाच सौ कविताएँ सग्रहीत हैं । कवि विस्मृत होती हुई गांधी जी की वाणी को जनमानस को सुनाकर यह सदेश

देना चाहता है कि सकट के समय गांधी की वाणी ही मानवता की रक्षा कर सकती है। मिश्र जी मानवतावादी कवि हैं। परस्पर प्रेम, करुणा, सहृदयता ही लोक कल्याणकारी हैं। इस सग्रह की कविताओं में गांधी दर्शन की व्यवहारिकता, पीड़ितों के प्रति सवेदना का भाव, प्रगतिशील दृष्टि, समन्वयवादी जीवन पद्धति, शान्ति का स्वर, कर्म शक्ति पर विश्वास, निष्ठा, आशा व दृढ़ सकल्प शक्ति को प्रोत्साहन, राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता आदि प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया गया है। गांधी जी के माध्यम से मिश्र जी कहते हैं—

“सृष्टि मे तुम आदमी तो आदमी  
हर जीव पत्ती, पेड़ तक की आत्मा का ध्यान रखते हो  
दस दिशा मे सदा जागृत भावनाएँ कर्मरत प्राण रखते हो।”

(‘तमिङ्गा की ताड़का’—‘गांधी पचशती’—पृष्ठ—15)

कवि ने अपने अगले काव्य सग्रह ‘बुनी हुई रस्सी’ (1971) की कविताओं में रचना प्रक्रिया और काव्य सिद्धान्त सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किये हैं। इस सकलन की कुछ कविताएँ आत्म चित्तन परक, आशा, निश्चय और साहस की कविताएँ हैं और कुछ मे जन जीवन उभर कर आया है। कुछ कविताएँ एकाकीपन और असामर्थ्य का बोध देती हैं। कहीं कवि ने मृत्यु का साक्षात्कार करते हुए मानव के आन्तरिक विकास पर बल दिया है। तो कहीं जीवन व त्रासदी के चित्र हैं। कवि ने अपने सघर्ष द्वारा जीवन की सार्थकता को पहचाना है। प्रकृति चित्रण के भव्य रूप, जीवन दर्शन की अनुभूति और श्रम का उल्लास कवि की वाणी द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं। कवि के मन मे राष्ट्रभाषा को सर्वशक्तिशाली बनाने की आकांक्षा है। कवि ने इसे स्वीकार करते हुए लिखा है—‘मैंने जिस भाषा को दुलारा था उसे इस सग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा हूँ।’

(‘बुनी हुई रस्सी’—पृष्ठ—12)

‘बुनी हुई रस्सी’ को उलटा करके घुमाने से उसके रेशे—रेशे अलग—अलग हो जाते हैं, वह विखर जाती है लेकिन कवि ने जीवन के विखरे हुए अनुभव रूपी रेशो को समेटकर कविता का निर्माण किया है —

“लिखने वाला तो  
हर विखरे अनुभव के रेशे को  
समेटकर लिखता है ।”

(‘बुनी हुई रस्सी’—पृष्ठ—17)

कवि के अगले काव्य सग्रह ‘खुशबू के शिलालेख’ (1973) मे प्रेमभाव से युक्त अपनत्व की खुशबू है । इसमे जहाँ एक ओर प्रकृति के सजीव चित्र उभरकर आये हैं वही दूसरी ओर महानगरो के मशीनीकरण और विखरते हुए जीवन पर प्रकाश डाला गया है । कही जीवन के उल्लास और उत्साह को वाणी मिली है तो कही उदासी और शिथिलता को । वैचारिकता और भावना के अद्भुत समन्वय से युक्त शब्द की महत्ता को व्यजित करने वाली कविताएँ भी हैं । इस सग्रह की कुछ कविताओ मे करुणा, उदारता व सहानुभूति का स्वर ध्वनित होता है —

“चलना है रास्ता  
बचाकर चीटी—चीटी तक को  
समझना है दूसरो के मन की पीड़ा  
सुलग रही ज्वाला दूसरो के प्राणो की ।”

(‘खुशबू के शिलालेख’—पृष्ठ—98)

कवि अपने सातवे काव्य सग्रह ‘व्यक्तिगत’ (1974) मे नई रचनाओ का धरातल खोजता हुआ दिखाई देता है । यहाँ कविता मे जिन्दगी और जिन्दगी मे कविता की खोज है । सामान्य जन से जुड़ी यथार्थ स्थिति, मानव जीवन के प्रति अदम्य आकाशा, आस्था, निष्ठा, आशा के स्वरो के साथ ही नीति प्रधान

कविताएँ और परिवारिक चित्र भी इसमें दिखाई देते हैं। काव्य सिद्धान्त सम्बन्धी तथा प्रकृति परक कविताओं में मानव और प्रकृति का अन्तरग समन्वय दृष्टिगोचर होता है। नैतिक चिन्ता में विमर्श कवि का मन छटपटाता है। कवि की मान्यता है—

“कला वह है  
जो सत्य के अनुरूप हो  
और जीवन को  
उठाने वाली हो।”

(‘व्यक्तिगत’—पृष्ठ-20)

कवि के आठवें काव्य—सग्रह ‘परिवर्तन जिये’ (1976) की कविताएँ प्रगतिवादी और युद्धों की भयावहता से उत्पन्न स्थिति के प्रति व्यग्य करती हुई समाज में बढ़ती यात्रिकता और भौतिक जीवन में औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप उद्भूत होने वाली खिन्नता को उजागर करती हैं। आशा, आस्था, विश्वास और श्रम का भाव यहाँ भी है। हिसाके वातावरण में कवि को समय और परिवेश में परिवर्तन की आशा दिखाई देती है। बीसवीं शताब्दी में पानी की तरह बहते हुए खून को देखकर कवि विचलित हो गया है। गांधीवादी विचारों की हत्या करने वाले व्यक्तियों पर कवि ने तीव्र प्रहार किया है।

कवि के अगले काव्य—सग्रह ‘अनाम तुम आते हो’ (1976) में अध्यात्म और अलौकिक शक्ति सम्बन्धी वैयक्तिक जीवन से सम्बद्ध स्मृति परक, ठोस सत्य का साक्षात्कार करने वाली आशा, आस्था और विश्वास की कविताओं के साथ ही युद्ध सम्बन्धी एवं प्रकृति चित्रण से युक्त कविताएँ हैं। कवि देश की पतित स्थिति के प्रति जागरूक होकर पतन के गर्त में गिरी हुई स्थिति के प्रति करासा व्यग्य करता है। भारतीय स्सकृति के प्रति मानव मात्र का उदासीन भाव देखकर कवि विद्रोह करता है। आदर्शोन्मुखी प्रवृत्तियों के विस्तार के साथ ही

आध्यात्मिकता का भाव इन कविताओं में है। इनमें वास्तविक जीवन की अनुभूति का चित्रण भी है।

कवि का दसवाँ काव्य-सग्रह 'इद न मम' (1977) उसकी परिपक्व विचारधारा की अभिव्यक्ति है। जीवन की पीड़ा से जूझता हुआ कवि प्रेरणा, साहस और चुनौती की कविताएँ लिखता है। ईश्वर में कवि का विश्वास दृढ़ होने लगता है। अदृश्य शक्ति के आभास से प्रभावित कवि ईश्वर से मानवमात्र के लिए प्रार्थना करता है। कवि चारों ओर के निराशामय अधिकार से त्रस्त होकर भी अन्तर्मन में प्रकाश की किरण जागृत किये हुए हैं। इस सग्रह की कुछ कविताएँ मृत्यु से मुकाबला करने वाली, काव्य-विषयक, प्रकृति परक एवं ध्वनि की महत्ता का प्रतिपादन करने वाली हैं।

'त्रिकाल सन्ध्या' कवि का अगला काव्य सग्रह है। इसमें देश की आपात कालीन स्थिति की युग सत्य के रूप में अभिव्यक्ति है। आपात स्थिति को कवि ने मरण त्यौहार के रूप में स्वीकारा है। जनता पर होने वाले अत्याचारों के फलस्वरूप कवि ने युग सत्य को बाणी दी है। 'चार कौए उर्फ चार हौये' शीर्षक कविता में प्रमुख सत्ताधारियों पर व्यग्य है —

‘कभी—कभी जादू हो जाता है दुनिया में  
दुनिया भर के दुख दिखते औगुनियों में  
ये औगुनिएँ चार बड़े सरताज हो गये  
इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गये।’

(‘चार कौए उर्फ चार हौये’—‘त्रिकाल सन्ध्या’—पृ०—)

बारहवें काव्य-सग्रह 'कालजयी' (1980) में मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने सम्राट् अशोक के जीवन सिद्धान्तों को आधुनिक युग के सन्दर्भ में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। युद्ध की परिणति से सत्रस्त अशोक ने मानव कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित किया। मानवीय प्रेम,

करुणा व सहानुभूति के बीज उसमे अकुरित हुए । इस काव्य-सग्रह का लक्ष्य प्रेम, ममता, करुणा, महानता और विश्व बन्धुत्व का भाव प्रसारित करना है । विश्व युद्धों की विभीषिका से विचलित कवि ने अपने पात्रों के द्वारा जन कल्याण का सन्देश देता है । कवि शान्ति का सदेश वाहक बन गया है –

“युद्ध को कितना दिया अवसर  
तनिक सा शाति को दे  
आदमी जब से हुआ तब से लड़ा है  
किन्तु लड़कर किस दिशा मे वह बढ़ा है?”

(‘कालजयी’-पृष्ठ-88)

कवि अपने अगले काव्य सग्रह ‘शरीर कविता फसले और फूल’ की कविताओं मे व्यष्टि भाव से उँचा उठकर समष्टि के बोध तक पहुँच गया है । कवि मानव मात्र मे अपनत्व, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव का बीजारोपण होता हुआ देखना चाहता है । इस सग्रह की कुछ कविताओं मे कवि जीवन मे श्रम का प्रतिपादन करते हुए उसे आत्मसात करने की प्रेरणा देता है । यहाँ कवि ने श्रम साधना के गीत गाये हैं ।

‘मान सरोवर दिन’ (1980) सग्रह की कविताएँ सम सामयिक स्थितियो से सच्चा साक्षात्कार कराती हैं । इनमे जीवन के प्रति निष्ठा का स्वर ध्वनित हुआ है । कवि को विश्वास है कि भ्रष्टाचार का दमन होगा । यहाँ भी कवि गाधी के विचारो से प्रभावित है ।

‘सम्प्रति’ (1982) सग्रह की कविताओं मे कवि नये मूल्यों की खोज मे सफल हुआ है । जीवन की निराशाजनक स्थितियो को आशा मे बदलकर नये सिरे से जीने का सकेत कवि ने दिया है । कवि ने वर्ग वैषम्य, जाति-पाति, धार्मिक विभिन्नता को तोड़कर मानवीयता द्वारा एकता की प्रतिस्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है । इस सग्रह की कविताओं मे देश प्रेम का स्वर है । कवि भ्रष्ट

और स्वार्थी, धनलोलुप सत्ता से देश की शोषित जनता को सुरक्षित करना चाहता है। इन कविताओं में मानवीय सवेदना के स्वर के साथ ही इन्सानियत को महत्व दिया गया है।

कवि के अपने आगे के काव्य—सग्रह—‘नीली रेखा तक’, ‘ये कोहरे मेरे हैं’ और ‘तूस की आग’—काव्य—विकास की दृष्टि से कोई नया आयाम प्रस्तुत नहीं करते। इनमें भी वही सवेदनाएँ मुखरित हुई हैं जिनको पिछले काव्य—सग्रहों में वाणी मिली थी।

भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य सवेदना का विकास और प्रसार का एक सक्षिप्त परिदृश्य जो उपर उभरकर आता है उसके बीच धौंसकर जब हम उनकी काव्य—भाषा की सर्जनात्मक ऋच्जुता को पर्त—दर—पर्त उधेड़कर देखते हैं तो हम न केवल अभिभूत होते हैं बल्कि आश्चर्य में ढूब जाते हैं। कैसे वे भाव दशाओं की विभिन्न सतहों को अपनी भाषा की अलग—अलग पर्तों में रचकर प्रस्तुत करते हैं उसका नमूना उनकी चन्द कविताओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी एक छोटी सी कविता ‘सन्नाटा’ को देखा जा सकता है। यह तो हम अक्सर कहते हैं कि सन्नाटे की भी एक आवाज होती है, वह साय—साय करता है किन्तु भवानी भाई सन्नाटे की उस आवाज को किस प्रकार सुनते हैं। ‘सन्नाटा’ उनसे बतिया रहा है—

‘मैं शान्त नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ?  
मैं मौन नहीं हूँ मुझमें स्वर बहते हैं।

कभी—कभी कुछ मुझमें चल जाता है,  
कभी—कभी कुछ मुझमें जल जाता है  
जो चलता है, वह शायद है मेढ़क हो  
वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है।

मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ  
 मैं शान्त बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ  
 यह सर-सर यह खड़-खड़ यह सब मेरी है,  
 वह है रहस्य मैं उसको खोल रहा हूँ ।

मैं सूने मेरहता हूँ—ऐसा सूना—  
 ऊगा होता है जहाँ घास भी ऊना,  
 होते हैं झाड़ कही इमली, पीपल के,  
 धन अन्धकार होता है जिन से दूना ॥

(‘सन्नाटा’—‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ-26)

सन्नाटे की इन पर्तों को, आवाजों को और सरसराहट को कवि ने अपनी भाषा में जिस प्रकार बाधा है लगता है कविता स्वयं सन्नाटे का एक जाल बुनने लगती है । भवानी प्रसाद मिश्र भाषा और सवेदना का रसायन बनाते हैं । शब्दार्थ के अद्वैत की जो समस्या प्रारम्भ से ही कवि की एक केन्द्रीय समस्या रही है और हर कवि उस अद्वैत को अपने—अपने ढग से साधता रहा है । भवानी भाई ने भी उस अद्वैत को अपने ढग से साधा है । ‘दूसरा सप्तक’ की भूमिका में अज्ञेय ने शब्दार्थ के विकास की समस्या पर और शब्दों की सर्जनात्मकता के निरन्तर बदलते हुए पक्ष पर गहराई से विचार किया है । कालिदास ने जिसे वागर्थ की प्रतिपत्ति के रूप में देखा था, गोस्वामी तुलसीदास ने इसे गिरा और अर्थ की अभिन्नता के रूप में देखा था —

“गिरा—अर्थ जल—बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न  
 बदौं सीता राम पद जिन्हैं परम प्रिय खिन्न ।”

तुलसी दास का यह दोहा गिरा और अर्थ की अभिन्नता को कितने नये आयामों से सवलित किया है ।

भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ शब्दार्थ का यह अद्वैत एक अजीब स्तर प्राप्त करता है । यह पता ही नहीं लगता कि कवि जो लिख रहा है उसमें से अर्थ कैसे स्वमेव बोल रहा है । पाठक शब्दों को सुनता है उसकी चेतना में अर्थों की नयी—नयी व्यजनाएँ बजने लगती हैं जैसा कि हमने अभी 'सन्नाटा' शीर्षक कविता में देखा । इसी प्रकार उनकी किसी दूसरी कविता को उठाये जैसे—'किस मुँह से' इसमें भाषा की एक दूसरी ही रगत उतनी ही ऋजु किन्तु उतनी ही व्यजना भरी देखने को मिलती है—

‘खून के कितने गुच्छे अगूर  
लटका देते हो तुम  
सबरे  
किस मुँह से कोई तुम्हे  
टेरे  
ओ पहले दिन से  
आज तक के सूरज ।’

(‘किस मुँह से’—‘भवानी प्रसाद मिश्र—परिचय एव प्रतिनिधि कवि कविताएँ’ स०  
विजय बहादुर सिंह—पृष्ठ—65—66)

यह छोटी सी कविता जिसका कोई भी शब्द हमें किसी शब्दकोश की ओर नहीं ले जाता है । अपनी परिणति में अर्थ की कितनी झकृतियों पाठक के भीतर स्पष्ट कर देती है । अनादिकाल से सूर्य उगता है उसका गोला आग की तरह जलता हुआ प्राची के क्षितिज से उठता है लेकिन किस कवि ने उस उठते हुए गोले में ‘खून के अगूरी गुच्छे’ को लटके हुए देखा होगा । इतना तीखा एक विशिष्ट जीवन बोध का इतना गहरा बिम्ब सूर्योदय के पर्दे में कवि

के भीतर कौध उठा है । सूर्य को अर्ध्य देने वाले या उसे टेरने वाले उस यातना के अनुभव का लेश मात्र भी नहीं अनुभव कर सकेगे जो प्रस्तुत पवित्रियों में कवि मानस को तार—तार कर रही है । अज्ञेय की एक कविता है 'बावरा अहेरी' । उसमें भी कवि ने सूर्य को एक अहेरी के रूप में देखा और आहवान किया है । उस अहेरी से अज्ञेय अपने भीतर के कल्पस का शिकार करने की प्रार्थना करते हैं —

“बावरे अहेरी रे  
कुछ भी अवध्य नहीं तुझे  
किन्तु एक मेरे मन बिवर की दुबकी कलौंस को  
दुबकी ही छोड़कर  
क्या तू चला जायेगा?”

('बावरा अहेरी रे—'अज्ञेय')

जब हम अज्ञेय की इन पवित्रियों की तुलना भवानी प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पवित्रियों से करते हैं तो हम भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा की सक्षिप्ति, उसकी वेधकता और जीवनानुभव से सपृक्ति की गहराई हमें अचरज में डालती है । सूर्य की सम्पूर्ण तत्पूतता जीवन की विषमता में जैसे नगी हो उठी है — भवानी प्रसाद मिश्र की इस छोटी—सी कविता में ।

भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध और लम्बी कविता अपनी भाषिक सरचना की सारी सभावनाओं के साथ पाठक को अभिभूत करती है । कविता का शीर्षक है — 'शब्दों के तल्प पर' । यह कवि के साथ अन्याय है कि उसकी इस प्रकार की कविताओं का सम्यक अध्ययन अभी नहीं हो सका है । वर्ना अज्ञेय के 'असाध्य वीणा' निराला के 'राम की शक्ति पूजा' या मुकित बोध के 'अधेरे में' जैसी कालजयी कविताओं की कोटि में भवानी भाई की इस कविता को रखकर देखा जाता । वास्तव में आधुनिक हिन्दी काव्य के परिसर में जो

वाम और दक्षिण का बटवारा हुआ, वह कई अर्थों में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा । कुछ कवि बाये बाजू के और कुछ दाये बाजू के हिस्से में डाल दिये गये । उनका तो एक हद तक सम्यक अध्ययन हुआ है किन्तु भवानी प्रसाद इन दोनों बाजुओं के उपर पड़ते हैं, इसलिए उनकी अनदेखी होती रही । ‘शब्दों के तल्प पर’ उनकी एक कालजयी कविता है जिसमें भाषा और एक युग आपस में ओत-प्रोत हैं । कविता जिन शब्दों में खुलती है और जो बन्धन बाधती है, पाठक को चमत्कृत करने के लिए वही काफी है –

“जब चीजे नाचे और  
स्थिर रहे और उनकी परछाइयों  
तन की बिमारियों मन को स्वच्छ कर दे  
विश्वास की पराजय चिन्ताएँ हर दे  
आकाशवाणियों लगने लगे  
छोटे-बड़े पक्षियों के गीत  
अनधीत भीतत्व  
मुझ पर अपनी आत्मा खोल दे –  
कल्पनाएँ आकाश से उतर कर  
धरती-भर अपने डैने तौल दे  
और लगने लगे कि अब  
उपर उठने ही वाली है सारी पार्थिवता  
शिवता जब जहाँ नजर डालूँ  
वही दिख जाये  
तब कोई एक ख्याल जो मेरा है  
सार्थक हो और लिख जाये  
सूर्योदय हर सन्देह की दीड़ मे ।”

कविता का यह प्रारम्भिक अश पाठक को एक नये प्रकार के भाषिक इन्द्रजाल की तरह चकित करता है। कबीर की उलटवासियों की तरह अर्थ की सर्वथा अपरिचित छायाओं की खोज की चुनौती देता हुआ यह अश हमें बिम्बों के नये विस्तृत और रहस्यमय लोक की ओर उन्मुख करता है। जहाँ चीजे नाचती हैं और उनकी परछाइयों स्थिर रहती हैं। कवि के सामने हर सन्देह की दीढ़ में एक सूर्योदय लिखा हुआ जाता नजर आता है। जैसे—जैसे कविता आगे बढ़ती है बिम्बों का एक ऐसा लोक खुलता है जिसमें सुन्दरता और भयावहता, शिवता और अशीलता का एक ऐसा वलयन सामने खुलता है जिसमें से निरन्तर एक चुनौती उभरती चलती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है? किसे आत्मसात करना है और किसे उगलते चलना है? कवि कहता है कि वह कभी—कभी जैसे अपने भीतर एक ऐसे खण्डहर का एहसास करता है जिसमें हरहराती हुई हवा बहती है और उस हवा में खण्डहर की छत से टगे जीर्ण और धूल से भरे झाड़ फानूस की जगह बचपन में उसके देखे हुए विन्ध्या के वन नजर आते हैं। जिनके बीच से वह मा की गोद में बैठा—बैठा गुजरा था और विन्ध्यवासिनी देवी की मढ़िया पर, जो पहाड़ के शिखर पर थी उसी माँ की गोद में बैठा—बैठा पहुँचा था। ठीक मुकित बोध के ‘अँधेरे में’ की स्वर्ज यात्रा की तरह भवानी प्रसाद मिश्र की यह मनस यात्रा भी पाठक को वैसे ही चमत्कृत करती है, झकझोरती है और शब्दों की अर्थवती परछाइयों को छूने के लिए बैचैन कर देती है। एक के बाद एक बिम्ब लोक बदलता रहता है। नये परिदृश्य खुलते रहते हैं और कवि पाठक को अपने साथ मन्त्रमुग्ध और मन्त्रविद्ध लेकर आगे बढ़ता चलता है—

“आकाश तक उड़ते देखा है मैंने  
और तो और रेत के कणों को

पड़कर चकवात मे  
 चकवात मे ही क्यो नहीं  
 पड़ जाते मेरे शब्द  
 या अर्थ ही क्यो नहीं उठ जाते  
 चकवात की तरह इनके धरातल से ।”

(‘शब्दों के तल्प पर’ वही पृष्ठ-75)

शब्द और अर्थ का यह चकवाती आलोड़न-विलोड़न हमे भाषा के एक नये लोक मे ले जाते हैं । जहाँ कवि यह कह सकता है—

“वाणी का ऐसा ऐश्वर्य  
 शब्दों के अर्थों से खिचकर बरसे  
 तो सरसे कम से कम  
 मेरे मन का बजार विस्तार ।”

(‘शब्दों के तल्प पर’ वही पृष्ठ-76)

वाणी का ऐसा ऐश्वर्य भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य-भाषा का ऐसा अनूठा सोपान है जहाँ शब्द और अर्थ एक दूसरे मे खोते और खुलते जाते हैं । जो लोग भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा की ऋजुता की चर्चा करते थकते नहीं उन्हे कवि की इस कविता को अवश्य पढ़ना चाहिए जहाँ ‘शब्दों के तल्प पर’ कवि ने कैसे-कैसे रहस्य लोकों की रचना की है । एक नमूना देखा जा सकता है इन पक्कियों मे—

“प्यार की अपनी जगहे गिनाऊँ  
 तो गिनाता—गिनाता मर जाऊँ  
 क्योंकि जिन्दगी मे और कुछ  
 बना भी तो नहीं है मुझसे  
 सिवाय आदमियों, चीजों और ख्यालों मे रम जाने के

फिर भी सबसे ज्यादा रमा हूँ जिनमे  
 वे शब्द हैं प्रकृति और  
 आदमी के बनाये हुए  
 धरती और आसमान मे  
 समाये हुए शब्दो मे  
 जो केवल ध्वनियाँ हैं अर्थ हीन  
 मुझे शब्दो से भी ज्यादा खीचती हैं  
 विलीन हो जाता है मेरा सबकुछ उनको सुनते—सुनते  
 निर्थक होती हैं शायद ध्वनियाँ  
 मणियाँ किन्ही प्रकारो के नागो के सिर मे  
 होती हैं या नही कौन कहे  
 किन्तु ध्वनियाँ निर्थक ही होती हैं ।“

(‘शब्दो के तल्प पर’ वही पृष्ठ-77-78)

शब्द को अर्थ के गलियारो से निकालकर अर्थहीन गलियो तक ले जाना  
 और उन्हे नागो के सिर मे छिपी मणियो की तरह प्रभायुक्त देखना भवानी  
 प्रसाद मिश्र की भाषा—सिद्धि के कुछ अपरिभाषेय आयाम हैं । अज्ञेय ने मौन की  
 अभिव्यजना और उसके अर्थ सकेतो की चर्चा जगह—जगह की है । भवानी  
 प्रसाद मिश्र एक दूसरे ही आयाम की ओर इशारा करते हैं । अर्थहीन ध्वनियो  
 से स्पन्दित होने वाली तरगो की ओर वे लिखते हैं —

“निर्थक हो ध्वनियाँ तो भी  
 सम्भावनाएँ सार्थकता की  
 बहुत जगाती हैं ये मुझमे”

(‘शब्दो के तल्प पर’ वही पृष्ठ-79)

निर्थक ध्वनियों के सहारे ही भारतीय ऋषियों ने मन्त्रों की रचना की है और माना है कि जो हम सार्थक शब्दों के द्वारा नहीं कर पाते उनकी साधना इन निर्थक ध्वनियों से विरचित मन्त्रों द्वारा कर लेते हैं। शब्द के व्यक्तित्व को इतनी व्यापकता से समझने का शायद ही किसी दूसरे नये कवि ने साहस किया हो जैसा भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी इस लम्बी कविता 'शब्दों के तल्प पर' में की है। कितने-कितने आयाम शब्द ब्रह्म के रूपाकारों के प्रकट होते हैं—इस कविता में। कवि ऐसे स्वरों को सुनता है जिनमें प्रकाश के विभिन्न रग ही नहीं हैं बल्कि जिनके उच्चारण मात्र से—

“खिलना फूलों का अन्धेरे में  
कितना व्यापक हो जाता है।”

('शब्दों के तल्प पर' वही पृष्ठ-87)

अलग—अलग दिशाओं से आने वाली हवा मकरन्दों से लदी हुई अन्धेरे में एक नदी जैसी लगने लगती है। कवि को लगता है कि वह शब्दों के प्रवहमान धारा के किनारे बसा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र केवल शब्द को ब्रह्म कहकर उसके सामने प्रणत भाव से खड़े हो जाने वाले कवि नहीं है। वह गाते—गाते लीन हो जाने वाले ऐसे कवि हैं जो अपने प्राणों में शब्दों के निष्कम्प रहस्यों के दिये जलाते रहते हैं और उनकी चेतना में इन्हीं शब्दों के माध्यम से रूप और अरूप, नाद और अनहद बजाते रहते हैं। और वे इन्हीं अर्थवान और अर्थहीन ध्वनियों के द्वारा अपने मनोलोक को प्रकाशित करते रहते हैं। और जैसे अङ्गेय की 'असाध्य वीणा' में अजिकेश कम्बली वीणा को साधने के बाद उसी सिद्धि में खो जाता है। उसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र को भी यह लगने लगता है—

“या फिर पहुँचू मरण के शिखरों तक  
भरकर सूर्योदय सन्देहों की दीढ़ में

प्राणो मे अनुभव हो कि पल पूजा का  
पास आता जा रहा है  
रहस्य शिशु सारे बैठे हैं गोद मे!“

(‘शब्दो के तल्प पर’ वही पृष्ठ—92)

BOOK NO - 6

શ્રી અમબાદ

સારણી : કાળિક

દાના : અમબાદ

धर्मवीर भारती की कविता के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से पहले, 'दूसरा सप्तक' के लिए दिये गये उनके 'वक्तव्य' को ही उद्धृत करना ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने लिखा है कि "इसके पहले कि भारती आपको अपनी कविता का परिचय दे, अच्छा होगा कि आप उसकी कविता को ही उसके बारे में कुछ भी कहने का अवसर दे, क्योंकि अक्सर आदमी अपने अत्यन्त निकटवर्ती, अत्यन्त प्रिय लोगों के मूल्याकन में काफी गलती कर जाता है, वही गलती भारती अपनी कविता के बारे में भी कर सकता है, जिसे वह काफी प्यार करता है।" आगे इसी 'वक्तव्य' में वह कहते हैं—

"यो भारती को साहित्य के हर रूप में दिलचस्पी है और हर तरह की चीज वह लिखता है, यहाँ तक कि एक दर्जी दोस्त की दूकान का उद्घाटन था और उसके प्रबल आग्रह से भारती को उसके लिए एक अत्यन्त कलात्मक विज्ञापन का नोटिस भी लिखना पड़ा था। लेकिन असल में भारती का मन कविता में ही रमता है, क्योंकि कविता के माध्यम से ही भारती आज की बेहद पिसती हुई सघर्ष पूर्ण कटु और कीचड़ में बिलबिलाती हुई जिन्दगी के भी सुन्दरतम् अर्थ खोज पाने में समर्थ रहा है। कविता ने उसे अत्यधिक पीड़ा के क्षणों में विश्वास और दृढ़ता दी है। कविता भारती के लिए शान्ति की छाया और विश्वास की आवाज रही है। जब भारती की चेतना ने पख पसारे तब छायावाद का बोल बाला था। उसे लगा कि कविता की शहजादी इन अपर्थिव कल्पनाओं, टेढ़े—मेढ़े शब्द जालो, अस्पष्ट रूपको और उलझे हुए जीवन दर्शन की शिलाओं से बधी उदास जल—परी की तरह कैद है और भारती को चाहिए कि वह उसे उन्मुक्त कर सर्वथा मानवीय धरातल पर उतार लाये ताकि वह फैली—फैली चौंदी की बालू पर आदम की सन्तानों के साथ बेहिचक आख मिचौनी खेल सके, उनके सीधे—सादे सुख—दुख, वासनाओ—कामनाओ को समझ सके, उन्हीं की बोली में बोल सके। इसलिए भारती ने सबसे पहले लिखे

सरलतम भाषा मे रग—बिरगी चित्रतात्मकता से समन्वित साहसपूर्ण उन्मुक्त रूपोपासना और उद्दाम यौवन के सर्वथा मासलगीत, जो न तो मन की प्यास को झुठलाये और न उस के प्रति कोई कुठा प्रकट करे, जो सीधे ढग से पूरी ताकत से अपनी बात आगे रखे। आदमी की सरल और सशक्त अनुभूतियों के साथ—साथ निडर खेल सके, बोल सके।

(‘दूसरा सप्तक’—स० अङ्गेय’— पृष्ठ—158—159)

अपनी काव्य—भाषा के सम्बन्ध मे इसी वक्तव्य मे उन्होने एक जगह कहा है कि— “भाषा के प्रश्न को कभी भारती ने अधिक महत्व नहीं दिया। भाषा भाव की पूर्ण अनुगामिनी रहनी चाहिए, बस। न तो पत्थर का ढोका बनकर कविता के गले मे लटक जाये और न रेशम का जाल बनकर उसकी पाखो मे उलझ जाये।”

(‘दूसरा सप्तक’ —पृष्ठ—160)

भारती का काव्य सदियो पुरानी मान्यताओ को ढहाने का पक्षधर है, क्योंकि परम्परागत बासी मूल्यो को नये क्षितिजो के अनुरूप पाना नामुमकिन है। इनकी रचनात्मक चेतना मे युग बोध के साथ परम्परागत पूर्वा—पर प्रसगो की विवेक सम्मत खोज है और इसीलिए वे बदलते परिवेश के अनुसार नया रूपान्तरण प्रस्तुत कर सके हैं। इन्होने अपने निर्माण और विकास का पथ कतिपय गलियो से गुजकर ढूँढ़ा है। वे घ्वस, अनास्था, विघटन आदि के बीच सृजन की पुकार सुनते हैं। उनमे कवि कर्म की पूरी जागरूकता है—“ हौसले तो पहाड़ो को उलट देने के हैं।” भारती काव्य जिन गलियो से गुजरा है उनमे पहली गली है— रूपासक्ति और उद्दाम यौवन के मासल गीतो की। यह सोपान शरीर सौन्दर्य की उपासना और वासनात्मक भावनाओ का उन्मुक्त काव्य है। यह ‘बेहिचक ऑख मिचौनी’ उनकी किशोर भावुकता और रोमानी प्रवृत्ति का परिचायक है।

भारती के काव्य का दूसरा सोपान उस आन्तरिक सघर्ष का है, जहाँ कवि विराट जीवन के बीच दुख-दर्दों में गम्भीर अर्थ ढूँढ़ता है। अपने अहं को विगलित करते हुए ध्वस और निर्माण, आस्था और अनास्था, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच जीनव के सार्थक तत्वों की रचनात्मकता की तलाश करता है। तीसरे सोपान में कवि जनवादी भूमिका निभाता हुआ व्यापक मानववादी चेतना का परिचय देता है। यहाँ उसका वैचारिक स्तर और चिन्तन सही रूप में नयी कविता का प्रतिनिधित्व करने लगता है। अपने विकास कम में इसी विन्दु पर उन्हे तीव्र एहसास होता है कि सबसे प्रिय कविताएँ वे हैं जो गटर में पड़े शराबियों, हथौड़ा चलाते लोहारों और धूल में खेलते बच्चों की भोली आँखों में झलकती हैं, लेकिल जिन्हे न अभी किसी ने लिखा है और ने किसी ने छापा।

कवि के निर्माण और विकास का चौथा सोपान उनके जीवन दर्शन और चिन्तन के अनुरूप 'कनुप्रिया' और 'अधायुग' में दिखलाई पड़ता है। ये दोनों गीत नाट्यात्मक प्रबन्ध नयी कविता की श्रेष्ठ उपलब्धियाँ हैं।

'ठड़ा लोहा' के प्रथम स्स्करण की भूमिका में भारती न अपने विकास कम की गलियों और मोड़ों की स्पष्ट करते हुए लिखा है कि— "किशोरावस्था के प्रणय रूपासवित और आकुल निराशा से एक पावन आत्मसमर्पणमयी वैष्णवी भावना और उसके माध्यम से अपने मन के अहम का शमन कर अपने बाहर की व्यापक सच्चाई को हृदयगम करते हुए सकीर्णताओं और कट्रता से ऊपर एक जनवादी भावभूमि की खोज मेरी इस छन्द यात्रा के यह प्रमुख मोड़ रहे हैं।"

('ठड़ा लोहा' की भूमिका से उद्धृत)

हिन्दी जगत को भारती की कविताएँ पहली बार दूसरा सप्तक (1951) में दिखाई पड़ी। हलाँकि वे इसके पूर्व ही तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर अपने रूमानी तारल्य भरे गीतों और कविताओं के माध्यम से चर्चित हो चुके थे। इसमें कुल छोटी-बड़ी तेरह कविताएँ सकलित हैं। इन कविताओं को

पड़ते हुए भारती के कवि व्यक्तित्व के प्रस्थान बिन्दु दिखायी पड़ते हैं, जिनमें एक कोमल युवा—मन की अनुभूतियों का आवेग है। यद्यपि ये कविताएँ कवि का प्रस्थान बिन्दु हैं किन्तु इनमें नयी कविता के अधिकाश प्रतिमान मसलन अनुभूति की जटिलता और तनाव, ईमानदारी और प्रामाणिक मूल्य, विसगति और विडम्बना, प्रतीकात्मकता और नाटकीयता, परिवेश और मूल्य, काव्यभाषा और सृजनशीलता जगह—जगह मिलते हैं। ‘तार सप्तक’ में गिरजाकुमार माथुर ने अपनी कविताओं के साथ जिस गीत—धर्मी काव्य—सवेदना का पुनरुत्थान किया था, वह बहुत व्यापक फलक के साथ धर्मवीर भारती की कविताओं में दिखाई पड़ती है। यह गीत—धर्मी सवेदना भारती के काव्य—ससार में कुछ इस तरह समायी हुई है, जैसे सीप में बन्द मोती।

भारती की रचनाओं में निबद्ध सवेदना छायावाद के अन्तिम दौर की रुमानियत से जुड़ी होने के बाद भी उससे अलग किसी की है। यह भिन्न सवेदना ही भारती की काव्य भाषा को नया रूप दे देती है। जिनको निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है।

- 1 भारती की काव्य—भाषा में प्रवाह तत्व
- 2 भाषा में तत्समता का आग्रह नहीं यथा भाव  
भाषा का निर्वाह।
- 3 भारती के काव्य में बिम्ब—विधान
- 4 भाषा में विचार एवं अनुभूति का संगुफन

छद के स्तर पर निराला के बाद भारती ही ऐसे कवि हैं जिनमें छद की मात्रिक गणना का अतिक्रमण करने के बावजूद जबरदस्त लययुक्त प्रवाह है। भाषा का लहरिल प्रवाह भारती की विशिष्ट पहचान है। उसमें हिन्दी के, उर्दू के सभी शब्द घुल जाते हैं। उच्छल और तरल अनुभूतियों अपने प्रवाह में सारे अनघुल तत्वों को भी बहाये चली जाती हैं।

“गुनाहो से कभी मैली हुई बेदाग तरुनाई?  
 सितरो की जलन से बादलों पर आँच कब आयी?  
 न चन्दा को कभी व्यापी अमा की घोर कजराई  
 बड़ा मासूम होता है गुनाहो का समर्पन भी  
 हमेशा आदमी मजबूर होकर लौट आता है  
 जहाँ हर मुकित के, हर त्याग के, हर साधना के बाद।

मेरी जिन्दगी बरबाद,  
 इन फिरोजी होठों पर मेरी जिन्दगी बरबाद।”

(‘दूसरा सप्तक’—‘गुनाह का गीत’— पृष्ठ—165)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘गुनाह का गीत’ शीर्षक कविता की इन पवित्रियों की प्रवाहमयता प्रेम, प्रणय, कि लिए परिस्थिति तथा वातावरण के साथ मन स्थितियों के अनेक भावस्तरों को उद्घटित करती है। इस गीत की व्यजना मे रूपासक्ति के साथ—साथ प्रणय की आदिम पीपासा झलकती है। ‘सितारों की जलन से बादलों पर आँच’ ‘अमा की घोर कजराई,’ ‘बड़ा मासूम होता है’ गुनाहो का समर्पन’ मे जो प्रवाह है, वह अनायास ही इस कविता की गीतधर्मी सवेदना को बढ़ा देता है।

“अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे  
 अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे  
 अगर मैंने किसी की मदभरी अँगड़ाइयाँ चूमी  
 अगर मैंने किसी की सॉस की पुरवाइयाँ चूमी  
 महज इससे किसी का व्यार मुझ पर पाप कैसे हो!  
 महज इस से किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो!”

(‘गुनाह का दूसरा गीत’ ‘दूसरा सप्तक’ पृष्ठ—193)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘गुनाह का दूसरा गीत’ शीर्षक गीत कवि के रोमांटिक व्यक्तित्व, प्रेम, सौन्दर्य और कैशोर्य की सहज कल्पनाशील पावनता की भावना से ओत-प्रोत है। यह कविता काव्यभाषा की पूरी प्रवाहमयता के साथ कवि के रूप- सौन्दर्य की तीखी आसक्ति को व्यक्त करती है। वह गुनाहों का गीत गाते हुए तनिक भी सकोच या हिचक का अनुभव नहीं करता। वह सहज ही कहता है, कि—‘महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो?’ यह पूरी कविता आवेशमय है। इसमे भारती की तरल अनुभूतियाँ उनकी काव्यभाषा के प्रवाह मे सारे तत्वों को बहाये चली जाती हैं।

“खारे ऑसू से धुले गाल,  
रुखे हलके अधखुले बाल,  
बालों मे अजब सुनहरापन  
झरती ज्यो रेशम की किरणे सज्जा की बदरी से छन-छन,  
मिसरी के होठों पर सूखी,  
किन अरमानों की विकल प्यास।  
तुम कितनी सुन्दर लगती हो, जब तुम हो जाती हो उदास!”

(‘उदास तुम’ ‘दूसरा सप्तक’ – पृष्ठ-169)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘उदास तुम’ शीर्षक कविता की इन पवित्रियों मे वास्तव मे उदास प्रिया के रूप मे सौन्दर्य की एक भगिमा है, रोमांटिक मूड की उदासी नहीं। वह अपनी उदास चेष्टा मे ‘झरती ज्यो रेशम की किरणे सज्जा की बदरी से छन-छन’ के रूप मे रूपायित हो रही है। इस कविता की प्रवहमानता मे मानो स्मृतियों की बरसात हो रही है। जिसमे अपने प्रिया के प्रति एक तरल आत्मीयता पूर्ण मनोमुग्धकरी भाव और मासूमियत है। प्रेम के कल्पना लोक मे यह उदासी भी सुन्दर लगती है।

“अब तो नीद निगोड़ी सपनो—सपनो भटकी डोले

कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले  
ज्यो सोते मे किसी विषैली नागिन ने हो काटा  
मेरे सग—सग अकसर चौक—चौंक उठाता सन्नाटा  
पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से  
कही न कोई कह दे कुछ, ये ऋष्टु इतनी बदनाम है।  
ये फागुन की शाम है।”

(‘फागुन की शाम’—‘ठडा लोहा’—‘धर्मवीर भारती ग्रन्थावली’—3, पृष्ठ—29)

‘ठडा लोहा’ सग्रह मे सकलित ‘फागुन की शाम’ शीर्षक कविता की इन पक्षितयो मे विरह की गहरी अनुभूति इस तरह से प्रवाहित हो रही है मानो अतीत मे प्रेयसी के सग बिताये गये एक—एक क्षण चल—चित्र की तरह प्रेमी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। ‘नीद—निगोड़ी सपनो—सपनो भटकी डोले’, ‘बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले’, ‘मेरे सग—सग अकसर चौक—चौक उठता सन्नटा’ इनमे जो प्रवाह है, वह इस कविता के गीति को अनायास ही बढ़ा देती है।

“अभी—अभी यौवन ने ली है अरसौंही अर्गेंडाई।

जैसे सावन के बूदो से घायल हो पुरवाई,  
अभी नजर मे लाज कसी है,  
जैसे सागर की लहरो पर हो नमकीन खुमार।  
अभी करो मन तुम रतरानी किरनो से सिगार।”

(‘कच्ची सॉसो का इसरार’—‘ठडा लोहा’— ध० भा० ग्र— पृष्ठ—40)

‘ठडा लोहा’ सग्रह मे सकलित ‘कच्ची सॉसो का इसरार’ कविता मे कवि ने किशोर प्रेम की विह्वल आकाशा मे वय सन्धि की मन स्थिति को वाणी देता है। कवि किशोरावस्था की गगा—जमुनी वय की अबोधता के प्रति आकर्षित है। वह मानता है कि किशोर जीवन अधिक सुकुमार, अल्हड और कल्पनाशील है। परन्तु किशोर के साथ जब यौवन का प्रवेश होने लगता है तो वह ‘सावन की

बूदो से घायल पुरवाई' जैसी 'यौवन की अरसौही अगड़ाई' तथा 'नजरो की कसी हुई लाज सागर की लहरो के नमकीन खुमार' के साथ व्याप जाती है।

"भीगे केशो मे उलझे होगे थके पख  
सोने के हसो-सी धूप यह नवम्बर की  
उस आगन मे भी उत्तरी होगी  
सीपी के ढालो पर केसर के लहरो-सी  
गोरे कन्धो पर फिसली होगी बिन आहट  
गदराहट बन-बन ढली होगी अगो मे ।"

('नवम्बर की दोपहर'-'सात गीत वर्ष'- ध० भा० ग्र- पृष्ठ-130)

'सात गीत वर्ष' सग्रह मे सकलित नवम्बर की दोपहर' शीर्ष कविता अपनी काव्य भाषा के प्रवाह मे प्रकृति के बडे मोहक वातावरण का सृजन करती है। जिसमे पिछली स्मृतियाँ सहज ही कवि के मानस पटल पर उतर आती हैं, जिसके कारण प्रणयोन्मेष के भावावेश के बीच उसका मन बेचैन हो जाता है। वह दर्द का अनुभव करता है।

"प्रात धूप की जर तारी ओढ़नी लपेटे  
अभी—अभी जागी  
खुमार से भरी  
नितान्त कुमारी घाटी  
इस कामातुर मेघ धूप के  
औचक आलिगन मे पिस कर  
रतिश्रान्ता— सी मलिन हो गयी ।"

('घाटी का बादल'-'सात गीत वर्ष' वही-पृष्ठ-197)

'सात गीत वर्ष' सकलन मे सकलित 'घाटी का बादल' शीर्षक कविता मे कवि 'मेघधूप' के माध्यम से अपनी उस खोज को अभिव्यक्ति देता है। जो प्रेम

के प्रति समर्पण और दर्द भरी प्रतीति के बीच उसे आस्था के रूप में मिलती है। सारे रग—रूप आकर के विलीन हो जाने के बाद कवि अपने ‘मैं’ को अकेला पाता है। धीरे—धीरे अपने संघर्ष में वह निराश और विवश होता जाता है। और अधियारे की इस चढ़ाई और भटकन में उसे दूसरे बौने के रूप में अपनी ही आस्था का सबल मिलता है। इस कविता का प्रवाह भारती की काव्य—भाषा की गीत धर्मी सवेदना को अनायास ही बढ़ा देती है।

“तुम्हारा सॉवरा लहराता हुआ जिस्म  
 तुम्हारी किचित् मुड़ी हुई शख—ग्रीवा  
 तुम्हारी उठी हुई चन्दन बॉहे  
 तुम्हारी अपने मे झूबी हुई  
 अधखुली दृष्टि  
 धीरे—धीरे हिलते हुए  
 तुम्हारे जादू भरे होठ।”

(‘कनुप्रिया’—‘शब्द अर्थ हीन’— वही— पृष्ठ—257)

‘कनुप्रिया’ संग्रह में ‘शब्द अर्थ हीन’ शीर्षक से सकलित इस कविता में रूप और रस, शब्द और लय, ध्वनि और लेख सब के सब एकात्म होते नजर आते हैं। यहाँ ध्वनि, चित्र और राग एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं। ‘सॉवरा लहरात हुआ जिस्म,’ ‘किचित् मुड़ी हुई’ शख ग्रीवा’, ‘उठी हुई चन्दन बॉहे,’ ‘अपने मे झूबी हुई अध खुल दृष्टि’, ‘धीरे—धीरे’ हिलते हुए जादू भरे होठ—कनुप्रिया का ऐसा मासल सौन्दर्य उसे अभिभूत करता है। और वह अपनी इस अनुभूति को पूरी तन्मयता के साथ व्यजित करता है।

“घाट से लौटते हुए  
 तीसरे पहर क आलसायी बेला मे  
 मैने अक्सर तुम्हे कदब के नीचे

चुपचाप ध्यान मग्न खडे पाया  
 मैने कोई अज्ञात वन देवता समझ  
 कितनी बार तुम्हे प्रणाम कर सिर झुकाया  
 पर तुम खडे रहे अडिग, निर्लिप्त, वीत राग, निश्चल।  
 तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं।

x                  x                  x

और मुझ पगली को देखो कि मैं  
 तुम्हे समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो  
 कितने निर्लिप्त।”

(‘कनुप्रिया— पूर्वराग’ ‘तीसरा गीत’—वही— पृष्ठ—210—211)

‘कनुप्रिया’ सग्रह मे सकलित ‘पूर्व राग तीसरा गीत’ शीर्षक कविता मे भारती ने राधा की भाव विहवलता, समर्पण की आकाशा, परितृप्ति की आतुरता, प्रगाढ साहचर्य और उदासी को सघन और मार्मिक वाणी दी है। कनुप्रिया की भाव विभोर मन स्थितियों इस कविता की भाषा के लहरिल प्रवाह मे मानो स्वत ही प्रवाहित हो रही है।

भारती के काव्य—भाषा की दूसरी बड़ी विशेषता है—

भाव के अनुकूल भाषा। उन्होने कही भी कविता के मूल भाव पर तत्समता को हावी होने नहीं दिया है।

“अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला  
 यहाँ अबवा तरे रुक  
 एक पल विश्राम लेना  
 मिलो जब गौव—भर से बात कहना, बात सुनना  
 भूलकर मेरा  
 न हरगिज नाम लेना

अगर कोई सखी कुछ जिक मेरा छेड़ बैठे  
हँसी मे टाल जाना बात  
ऑसू थाम लेना।”

(‘डोले का गीत’—‘ठडा लोहा’—ध० भा० ग्र०—पृष्ठ—26)

‘ठडा लोहा’ सग्रह की ‘डोले का गीत’ शीर्षक कविता की इन पवित्रयो मे राह, ‘कुबेला’, ‘अबॅवा’ ‘तरे’, ‘गावॅ भर और ‘थाम’ जैसे शब्द भोजपुरी और अवधी के प्रचलित शब्द हैं। किन्तु ये शब्द इस कविता के प्रवाह के लिए आवश्यक से जान पड़ते हैं। इन शब्दो के बेहतर इस्तेमाल से कवि ने मानो लोकसंस्कृति मे विदाई का एक मुहूर्त उपस्थित कर दिया हो।

“गोरी—गोरी सोधी धरती—कारे—कारे बीज

बदरा पानी दे।

क्यारी—क्यारी गूँज उठा सगीत

बेने वालो। नयी फसल मे बोओगे क्या चीज?

बदरा पानी दे।”

(‘बोआई का गीत’—‘ठडा लोहा’—धर्मवीर भारती ग्रन्थावली—पृष्ठ—50)

‘ठडा लोहा’ सग्रह की ‘बोआई का गीत’ शीर्षक कविता ग्रामीण सवेदना, वहाँ के पर्व—त्यौहार और वहाँ की ठेठ स्थानीयता से भरपूर दिखाई देती है। बादल के लिए ‘बदरा’ काले—काले के लिए ‘कारे—कारे’ जैसे प्रयोग कविता की मूल सवेदना को बढ़ने मे सहायक सिद्ध हुए है, साथ ही उसकी प्रवाहमयता को बहाते भी हैं।

“झुरमुट मे दुपहरिया कुम्हलायी

खेतो पर अन्हियारी धिर आयी

पश्चिम की सुनहरिया धृंधरायी

टीलो पर, तालो पर

इकके—दुकके अपने घर जाने वालों पर  
धीरे—धीरे उत्तरी शाम।”

(‘कस्बे की शाम’— ‘सात गीत वर्ष’— ध० भा० ग्र० पृष्ठ—157)

‘सात गीत वर्ष’ सग्रह में सकलित ‘कस्बे की शाम’ शीर्षक कविता में शाम का वर्णन करते समय कवि ने उस भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। दोपहर के लिए ‘दुपहरिया’, अधेरे के लिए ‘अहियारी’ सुनहरेपन के लिए ‘सुनहरिया’ और धृंधलेपन के लिए ‘धृंधरायी’ जैसे शब्दों का प्रयोग करके तत्समता को कही भी कविता के मूल भाव पर हावी नहीं होने दिया है।

“छिन मे धूप  
छॉह छिन ओझल  
पल—पल चचल  
गोरी, दुबली, बेला उजली, जैसे बदली क्वार की।”

(‘एक छवि’— ‘सात गीत वर्ष’—वही—पृष्ठ—190)

‘सात गीत वर्ष’ सग्रह की ‘एक छवि’ शीर्षक कविता में क्षण के लिए ‘छिन’ और छाया के लिए ‘छॉह’ जैसे लोक प्रयुक्त शब्दों से कवि सहज ही लोक सवेदना को जागृत करता है, और लोकमन तक अपनी पैठ बना लेता है।

“कितनी बार जब तुमने अद्वौमीलित कमल भेजा  
तो मैं तुरन्त समझ गयी कि तुमने सज्जा बिरियॉ बुलाया है  
कितनी बार जब तुमने अँजुरी भर—भर बेले के फूल भेजे  
तो मैं समझ गई कि तुम्हारी अँजुरियो ने  
किसे याद किया है।”

(‘आम्र— बौर का अर्थ’— ‘कनुप्रिया’— ध० भा० ग्र० — पृष्ठ—220)

‘कनुप्रिया’ के अन्तर्गत ‘आम्र— बौर का अर्थ’ शीर्षक कविता की इन प्रकृतियों में शाम के समय के लिए ‘सज्जा बिरियॉ’ और अजुली के ‘अँजुरी’ जैसे

देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो 'कनुप्रिया' के प्रेमालाप के सम्पूर्ण भाव—  
अनुभाव को व्यजित करने में सहायक होता है।

"खा मो श।

बोलो मत

एक भी आवाज, एक भी सवाल, लबो की हल्की—सी जुम्बिश भी नहीं  
नहीं, एक हल्की—सी दबी हुई सिसकी भी नहीं।

हर दीवार के कान हैं

और दीवार के इस पार का हर कान

दीवार के उस पार चुगलखोर मुँह बन जाता है

जहाँ शहशाह

हकीमो, नजूमियो, खोजो और नक्शानवीसो से धिरे

अपनी जिदगी की अखिरी रात गुजार रहे हैं।"

(‘पुराना किला’—‘सपना अभी भी’ ध० भा० ग्र०—पृष्ठ—283)

‘सपना अभी भी’ सग्रह में सकलित ‘पुराना किला’ शीर्षक कविता में  
मुगल कालीन दरबार की झाकी प्रस्तुत की गयी है, उसी दरबार के अनुकूल  
भाषा प्रयोग भी है। ‘खामोश’, ‘जुम्बिश’, ‘नजूमियो’, ‘नक्शानवीसो’ आदि उर्दू  
फारसी शब्दों का प्रयोग करके कवि ने कविता की प्रवाहमयता को बढ़ाया ही  
है। यहाँ हिन्दी और उर्दू के शब्द एक दूसरे से घुल गये हैं।

“दीदी के धूल भरे पाव

बरसो के बाद आज

फिर यह मन लौटा है क्यों अपने गाव,

अगहन की कोहरीली भोर

हाय कही अब तक क्यों

दूख—दूख जाती है मन की वह कोर।”

(‘दीदी के धूल भरे पाँव’—‘सपना अभी भी’ ध० भा० ग्र०—पृष्ठ—274)

‘सपना अभी भी’ सग्रह में सकलित ‘दीदी के धूले भरे पाँव’ शीर्षक कविता की इन पक्षियों में ग्राम के लिए ‘गाव’ तथा जाडे के प्रारम्भिक दिनों की हल्के से कोहरे से युक्त सुबह को ‘अगहन की कोहरीली भोर’ तथा मन के किसी कोने में उठने वाली पीड़ा को ‘दूख-दूख जाती हैं मन की वह कोर’ कहकर कवि ने भावनुकूल भाषा का निर्वाह किया है।

भारती की काव्य भाषा की तीसरी और सम्भवत सबसे सघन विशेषता है— उनका बिम्ब विधान। भारती ने अपने काव्य में जिस प्रेम, प्रणय, अभिसार, रूपासक्ति और प्रेमाकाङ्क्षा के उद्घाम आवेग के क्षणों को वाणी दी है, उनके लिए यह आवश्यक भी था कि वे बिम्बों का सघन सयोजन करते। भारती के बिम्बों में काव्यार्थ को प्रसगानुकूल बनाने की पूरी क्षमता है।

‘ये शरद के चाद से उजले धुले— से पाँव  
मेरी गोद मे।

ये लहर पर नाचते ताजे कमल की छाँव,  
मेरी गोद मे।

दो बडे मासूम बादल, देवताओं से लगाते दाँव,  
मेरी गोद मे।’

(‘तुम्हारे पाँव मेरी गोद मे’—‘दूसरा सप्तक’—पृष्ठ—167)

‘दूसरा सप्तक’ में सकलित ‘तुम्हारे पाँव मेरी गोद मे’ शीर्षक कविता में भारती अपनी रोमैटिक प्रणयाकाङ्क्षा, उद्याम लालसा और तीखी रूपासक्ति को कोमल सुकुमार कल्पना के रगों में पावन बना देते हैं। यहाँ कवि ने प्रिया के चरणों के माध्यम से उसके रूप सौन्दर्य तथा प्रभावाकर्षण को अनेक रग—रूप—वर्ण—स्पर्श के प्रकृति बिम्बों में व्यक्त किया है। ‘शरद के चाद से उजले धुले से’, ‘लहर पर नाचते ताजे कमल की छाँव—से’ और ‘देवताओं से

लगाते दौव दो बडे मासूम बादल' के रूप मे पावो की कल्पना करते हुए कवि के सामने उसकी प्रेयसी प्रत्यक्ष हो जाती है।

'रख दिये तुमने नजर मे बादलों को साध कर,  
आज माथे पर, सरल सगीत से निर्मित अधर,  
आरती के दीपकों की झिलमिलाती छोह मे  
बॉसुरी रखी हुई ज्यो भागवत के पृष्ठ पर ।'

(‘चुम्बन’— ‘दूसरा सप्तक’— पृष्ठ—171)

‘दूसरा सप्तक’ मे सकलित ‘चुम्बन’ शीर्षक मुक्तक मे प्रणय का पूजा—भाव लक्षित होता है। ‘नजर मे बादलों को साधकर’ ‘सरल सगीत से निर्मित अधर’द्वारा प्रेयसी के माथे पर दिये गये चुम्बन को भारती ने ‘भागवत के पृष्ठ पर रखी हुई बॉसुरी’ के बिम्ब से बाधा है। जो स्पर्श बिम्ब का अन्यतम उदाहरण है। इस बिम्ब विधान के द्वारा कवि ने चुम्बन जैसी मासल किया को एक पावन आराधना से अभिसिंचित अनुभूति मे बदल दिया है। इसीलिए भारती को प्रणय का वैष्णव कहा जा सकता है। आखिर सारी वैष्णवता विष्णु की भक्ति ही तो है।

“फूलो राह न रोको। तुम  
क्या जानो जी कितने दिन पर  
हरी बॉसुरी को आयी है मोहन के होठों की याद।  
बहुत दिनों के बाद,  
फिर, बहुत दिनों के बाद खिला बेला, मेरा औंगन महका।”

(‘बेला महका’— ‘ठडा लोहा—वही—पृष्ठ—33)

‘ठडा लोहा’ मे सकलित ‘बेला महका’ शीर्षक कविता की इन पक्कियों मे प्राकृतिक परिवेश के बीच प्रिय की स्मृति सारे वातावरण को मादक बना देती

है। यहाँ 'हरी बॉसुरी' और 'मोहन के होठ' के बिम्ब तरुणाई की मादक रोमैटिक भावना को पावन गध में व्यजित करते हैं।

'अभी शोख बचपन के पखो मे दुबका है रूप।

जैसे बादल की परतो मे ढँकी सलोनी धूप।

धुँआ-धुँआ सी उडती नजरे,

ज्यो धिर आये मेघदूत वाले बादल कचनार।

अभी करो मत तुम रतरानी किरनो से सिगार।

('कच्ची सॉसो का इसरार'-‘ठडा लोहा’-वही-पृष्ठ-40)

'ठडा लोहा' सग्रह में सकलित 'कच्ची सॉसो' मे इसरार' शीर्षक कविता मे कवि वय सन्धि की शारीरिक, मानसिक परिस्थिति का सटीक बिम्ब प्रस्तुत कर सका है। यौवन मे रूप सौन्दर्य विकसित हो जाता है, पर किशोरावस्था मे वह केवल झलक मारता है। उसी झलक को कवि ने 'शोख बचपन के पखो मे दुबके हुए रूप' और 'बादलो की परतो मे ढँकी सलोनी धूप' के बिम्ब मे बाधा है।

"यह पान फूल सा मृदुल बदन

बच्चो की जिद सा अल्हड मन

तुम अभी सुकोमल, बहुत सुकोमल, अभी न सीखो प्यार।"

(‘मुग्धा’- ‘ठडा लोहा’-वही-पृष्ठ-41)

'ठडा लोहा' सग्रह की 'मुग्धा' शीर्षक कविता मे कवि किशोरावस्था की गगा-जमुनी वय की अबोधता के प्रति आकर्षिक है। वह मानता है कि किशोर जीवन अधिक सुकुमार और अल्हड तथा कल्पनाशील है वह इस वय सन्धि की मन स्थिति को 'बच्चो की जिद सा अल्हड' और शारीरिक सुकुमारता को 'पान फूल की मृदुलता' के बिम्ब मे बाधता है।

"ढल रही है

मेघ की चूनर लपेटे दोपहर  
एक उचटा हुआ—सा  
सुनसान सन्नाटा अकेला जग रहा है  
मेघ धूमिल दिशाओं की बॉह मे।

x                x                x

छू गयी मुझको  
न जाने कौन बिसरी बात  
भूला क्षण  
जिस तरह छू जाय नागिन  
फूल को खिलते पहर  
ढल रही है  
मेघ की चूनर लपेटे दोपहर।"

(‘मेघ दुपहरी’— ‘सात गीत वर्ष’ — वही — पृष्ठ—148)

‘सात गीत वर्ष’ सग्रह की ‘मेघ दुपहरी’ शीर्षक कविता मे रोमांटिक प्रेम का उल्लास धनी होती उदासी और जीवन की विवशता मे बदलता गया है। प्रकृति के परिवेश के साथ प्रेम की बीती स्मृतियाँ बीतरागी उदासी का वातावरण बनाती है। इस कविता मे बढ़ती शाम के साथ बीतरागी मन की उदासी का प्रभावी बिम्ब है कवि के मन को कोई बिसरी बात, भूला क्षण इस तरह छू गया है, जैसे खिलते हुए फूल को नागिन छू ले।

मैं क्या जिया?  
मुझको जीवन ने जिया  
बूद बूद कर पिया, मुझको  
पीकर पथ पर खाली प्याले—सा छोड दिया  
मैं क्या जला?

मुझको अग्नि ने छला  
 मैं कब पूरा गला, मुझको  
 थोड़ी सी आँच दिखा दुर्बल मोमबत्ती—सा मोड़ दिया  
 देखो मुझे,  
 हाय मैं हूँ वह सूर्य  
 जिसे भरी दोपहर मे  
 अँधियारे ने तोड़ दिया।

(‘उपलब्धि’—‘सात गीत वर्ष’—वही—पृष्ठ—155)

‘सातगीत वर्ष’ सग्रह की ‘उपलब्धि’ शीर्षक कविता मे कवि सुख मे लुट लुट कर कन—कन छीजते हुए और दुख मे घुट—घुट कर खीजते हुए, पीछे छूट गया है। मन मे एक गहरा अवसाद उसको घेरे हुए है, जिसके बीच उसे गहरी निरर्थकता की अनुभूति हो रही है। जीवन के प्रवाह मे प्रेम के भावावेग मे जीकर वह ‘पीकर पथ पर खाली प्याले सा’ छोड़ दिया गया है। इस कविता मे प्रयुक्त बिन्ब ‘अग्नि का छल से थोड़ी आच देकर दुर्बल मोमबत्ती—सा’ मोड़ देना अथवा ‘भरी दोपहर मे सूर्य का अधियारे से तोड़’ दिया जाना इस निरर्थकता के बोध को उकित परक बनाते हैं।

“यह बादल का ताना बाना  
 बेहद ढूबा—ढूबा सा जी  
 जैसे कोहरे मे ढूबी हो  
 रगीन गुलाबो की घाटी”

(‘यह ढलता दिन’—‘सात गीत वर्ष’—वही—पृष्ठ—179)

‘सातगीत वर्ष’ सग्रह की ‘यह ढलता दिन’ शीर्षक कविता मे किशोर मन के प्रेम की अवशेष स्मृतियो को दृश्य बिन्ब मे बाधा गया है। ‘ढूबे—ढूबे से मन’ को ‘कोहरे मे ढूबी हुई रगीन गुलाबो की घाटी’ से बिन्दित किया गया है। वह

मन जो कभी प्रेम के उल्लास मे 'गुलाबो की रगीन घाटी' के समान प्रफुल्लित था, वही उदास होने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गुलाबो की रगीन घाटी पर कोहरे की पर्त चढ़ गयी हो।

"धूल मे मिली हूँ  
धरती मे गहरे उत्तर  
जडो के सहारे  
तुम्हारे कठोर तने के रेशो मे  
कलियाँ बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन  
चुपके से सो गई हूँ  
कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे  
प्रस्फुटन से छा जाओ!"

('पहला गीत'-‘पूर्वराग’-‘कनुप्रिया’-वही -पृष्ठ-207)

'पूर्वराग' के पहले गीत मे कनुप्रिया का भावविभोर रूप सामने आता है। अशोक वृक्ष के पुष्पित होने की कवि प्रसिद्धि का उपयोग करते हुए उसकी प्रणयाकाक्षा का अकन किया गया है। इस गीत मे सर्जन की प्रकृत कामना प्रकृति-पुरुष के आदि बिन्दु से व्यजति हुई है।

'थी वन तुलसा की गध वहाँ था पावन छायामय पीपल  
जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभुशात, मौन निश्चल

x                    x                    x  
अपनी दाहिनी जाघ पर रख  
मृग के मुख जैसा बायाँ पग  
टिक गये तने से, ले उसौंस  
बोले 'कैसा विचित्र युग था!"

('प्रभुकी मृत्यु'-‘अन्धायुग’- वही-पृष्ठ-447-448)

'अध्यायुग' गीतिनाट्य के 'प्रभुकी मृत्यु' शीर्षक समापन अक के इस कथा गायन मे उस परिस्थिति का वर्णन है जहाँ मृत्यु के सन्निकट प्रभु पीपल की छाया मे धरती पर बैठे हैं और वनतुलसा की गन्ध उस सारे वातावरण मे व्याप रही है। वे दाहिनी जाघ पर 'मृग के मुख जैसा बायों पग' रखकर तने से टिक गये हैं और बीते हुए युग पर उसोंस लेकर टिप्पणी करते हैं 'कैसा विचित्र युग था।' नाटककार ने समापन का दृश्य नाटकीय चरम के साथ प्रतीकार्थ की गहरी व्यजना मे प्रस्तुत किया है। कृष्ण के मरण को एक युग की समाप्ति और नये युग के प्रारम्भ के प्रतीक के रूप मे प्रस्तुत किया गया है।

भारती के काव्य भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मिथकीय सवेदना है। काव्य भाषा मे बिम्ब और प्रतीक की योजना तो महत्वपूर्ण होती ही है, किन्तु मिथको का सटीक और साभिप्राय प्रयोग काव्यभाषा की उत्कृष्टतम् विशेषताओं मे एक है। भारती ने मिथकीय पात्रो के माध्यम से समकालीन समस्याओं से अपने को रूबरू किया है। विगत को आगत से जोड़कर अनागत का सकेत देते हैं। जिसके लिए भारती ने अधिकतर महाभारत के पात्रो को ही आधार बनाया है। ऐसा करते समय उनकी काव्यभाषा मे विचार और अनुभूति का ऐसा संगुफन हुआ है, जो विरले ही कवियो मे दिखाई देता है। देश, काल और पात्रो के परिवेश से आबद्ध होकर भी साहित्य अपने आप को सदैव देशातीत, कालातीत और सार्वजनीन बनाये रखने की प्रक्रिया मे ही आप्तकाम होता है। वर्तमान की भूमि पर स्थित साहित्य के अक्षयवट की जडे अतीत के अतल तक जा पहुँचती है और उसका समग्र विकास प्रस्फुटन, पल्लवन और प्रतिफलन अनागत भविष्य के द्वार पर निरतर अपनी दस्तके देता रहता है। भारती की रचनाओं मे अतीत केवल पुनरालेखन मात्र नही है बल्कि उनमे विचार पक्ष के ऐसे अनेक तत्त्वो का अन्तर्संगुफन लक्षित होता है जिसने उन्हे विश्वयुद्धोत्तर ह्वासोन्मुख सम्यता का दस्तावेज बना दिया है। भारती की

इतिहास—दृष्टि अपनी रचनाओं (विशेषकर—‘अधायुग’ और ‘कनुप्रिया’ में) में अतीत और वर्तमान दोनों पर समान रूप से केन्द्रित रही है। वह मानते हैं कि इतिहास न कभी मरता है और न कभी अनुपयोगी ही होता है। इतिहास की उर्वरा भूमि पर ही वर्तमान एक बिरवे की भाति अकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। और एक दिन अनागत भविष्य के समुख स्वय को जराजीर्ण पत्तों की तरह समर्पित कर देता है।

भारती ने अपने काव्य में जिस मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा की है, उसका स्रोत है— सर्जन की शक्ति। इसी सर्जन की आस्था का स्वर ‘थके हुए कलाकार से’ कविता में दिखाई देता है—

“इसी ध्वस मे मूर्च्छिता हो कही  
पड़ी हो, नयी जिन्दगी, क्या पता ?  
सृजन की थकन भूल जा देवता।”

(‘थके हुए कलाकार से’—‘दूसरा सप्तक’— पृष्ठ— 163)

‘दूसरा सप्तक’ में सकलित ‘थके हुए कलाकार से’ शीर्षक कविता की इन पवित्रियों में रोमैटिक भावशीलता के स्थान पर कवि सर्जन की नई दिशा की खोज करता है। भावावेश और प्रणयाकाङ्क्षा के मोह भग के बाद रचनाकार सर्जन की उस सभावना की खोज करता है जो नए जीवन और नये मूल्यों की सृष्टि करने में समर्थ हो सकेगा।

“यह फूल और मोमबत्तियाँ और टूटे सपने  
ये पागल क्षण,  
यह काम—काज, दफ्तर—फाइल, उचटा—सा जी  
भत्ता वेतन।  
ये सब सच हैं।  
इनसे से रत्ती भर न किसी से कोई कम,

अन्धी गलियो मे पथभ्रष्टो के गलत कदम  
 या चन्दा की छाया मे भर—भर आने वाली ओँखे नम,  
 बच्चो की सी दूधिया हँसी या मन की लहरो पर  
 उतारते हुए कफन।  
 ये सब सच है॥”

(‘फूल, मोमबत्तियाँ, सपने’—‘ठडा लोहा’— वही पृष्ठ-102)

‘ठडा लोहा’ मे सकलित ‘फूल, मोमबत्तियाँ, सपने’ शीर्षक कविता मे भारती की रोमैटिक प्रेम की कोमल कल्पना यथार्थ से टकराकर छिन्न भिन्न हो जाती है। अब वह एक ओर ‘टूटे सपने पागल क्षण’ को सच मानता है तो दूसरी ओर ‘कामकाज, दफ्तर—फाइल,’ उचटा—सा जी, भत्ता वेतन को भी सच मानता है। इस यथार्थ की टकराहट मे प्रेम—प्रणय की मादकता, भटकन, भाव विहवलता, कोमल पावन उल्लास सब अब ‘मन की लहरो पर’, ‘उतराते हुए कफन’ की तरह सच लगाने लगता है।

“इतिहासो की सामूहिक गति  
 सहसा झूठी पड़ जाने पर  
 क्या जाने  
 सच्चाई टूटे हुए पहियो का आश्रय ले॥”

(‘टूटा पहिया’— ‘सात गीत वर्ष’— वही – पृष्ठ-171)

‘सात गीत वर्ष’ सग्रह मे सकलित ‘टूटा पहिया’ शीर्षक कविता मे ‘महाभारत’ की कथा के सन्दर्भ के आधार पर ‘टूटा पहिया’ एक प्रतीक के रूप मे प्रयुक्त हुआ है। मानवीय मूल्यो के सघर्ष मे नगण्य ओर त्यक्त साहस के साथ चुनौती दे सकता है। जब अभिमन्यु चकव्यूह मे धिर जाता है तब वह एक टूटे हुए पहिये के सहारे ही ब्रह्मास्त्रो से लोहा लेता है। त्यक्त होकर भी यह पहिया मानवीय इतिहास को गतिशील बना सकता है।

“असल मे हुआ यह था  
 मेरे चारो भाई जूझते अकेले रहे  
 मैं तो किनारे खड़ा हर आने वाले से  
 घबराकर कहता था—“इधर मत,  
 इधर मत, इधरमत, आना जी तुम, इधर हम तटस्थ हैं।”

(‘बृहन्नला’— ‘सातगीत वर्ष’—वही—पृष्ठ—169)

‘सात गीत वर्ष’ मे सकलित ‘बृहन्नला’ शीर्षक कविता मे ‘बृहन्नला’ के पौराणिक चरित्र को लेकर अपनी रचनाओ मे युग दृष्टि देने का दावा करने वाले अधुनिक रचनाकारो पर भारती ने सटीक व्यग्य किया है। आज रचनाकार सामाजिक जीवन मे चाटुकार विद्वानो, मूर्खों, महीषियो और अशिक्षित विदूषको से धिरा हुआ है। आज का भविष्य द्रष्टा रचनाकार वस्तुत भीरु और नपुसक है, जो हर सघर्ष मे अलग खड़ा रहा है। यहाँ इस चरित्र की नपुसक कायरता व्यजित है।

“नीचे की घाटी से  
 उपर के शिखरो पर  
 जिसको जाना था वह चला गया  
 हाय मुझी पर पग रख  
 मेरी बाँहो से  
 इतिहास तुम्हे ले गया।  
 सुनो कनु, सुनो  
 क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए  
 लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के  
 अलध्य अतंराल मे।”

(‘सेतु मैं’— ‘कनुप्रिया’—वही—पृष्ठ—248)

‘कनुप्रिया’ के ‘सेतु मै’ शीर्षक गीत मे नारी – जागृति और स्वातन्त्र्य के तर्क से भारती ने इतिहास-पुरुषों के प्रति उपालम्भ का प्रभावशाली काव्य रचा है। भारती की यह विशेषता रही है कि वे लगातार अपनी कविताओं मे स्त्री के शोषण को केन्द्र मे रखकर अतिमानवी प्रतिमाएँ अनावृत्त करते रहे हैं। वह कनुप्रिया जो एक दिन चरम साक्षात्कार के क्षणो मे रीत-रीत जाती थी आज कनु के ‘मन्त्र पढे वाण-से’ छूट जाने पर ‘कापती प्रत्यचा-सी’ शेष रह जाती हैं। इसी एकात के क्षणो मे वह सोचती है— ‘क्या मै सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए’

‘तुमने मुझे पुकारा था न  
मैं आ गई हूँ कनु।  
और जन्मातरो की अनत पगड़ी के  
कठिनतम मोड पर खड़ी होकर  
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।  
कि, इस बार इतिहास बनाते समय  
तुम अकेले न छूट जाओ।  
सुनो मेरे प्यार।  
प्रगाढ केलि क्षणो मे अपनी अतरग  
सखी की तुमने बॉहो मे गूथा  
पर इतिहास मे गूथने से हिचक क्यो गये प्रभु?’

(‘समापन’—‘कनुप्रिया’— वही —पृष्ठ—265—266)

‘कनुप्रिया’ के ‘समापन’ शीर्षक गीत की इन पवित्रियो मे एक ऐसी राधा का उद्भव होता है जो अपने अधिकारो के प्रति सजग और सक्रिय है। यह राधा कृष्ण के वियोग में अश्रुपात करने वाली न होकर कृष्ण से परिवाद और उपालम्भ की मुद्रा से कहती है—‘इतिहास मे गूथने से हिचक क्यो गये प्रभु?’

यहाँ भारतीय नारीत्व की अस्मिता को नया सदर्भ, नया आयाम और नया अर्थ देने में कवि पूर्णतः सफल होता है।

“पता नहीं  
प्रभु है या नहीं  
किन्तु उस दिन यह सिद्ध हुआ  
जब कोई भी मनुष्य  
अनासक्त होकर, चुनौती देता है इतिहास को  
उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है।  
नियति नहीं है पूर्व निर्धारित  
उसको हर क्षण मानव— निर्णय बनाता मिटाता है।”

(‘अधायुग’—‘प्रथम अक’—वही—पृष्ठ—372)

मूल्यों का सीधा सन्दर्भ उठाने के कारण ‘अधायुग’ में कई जगह मूल्यों में गहरी आस्था के कारण वक्तव्य भी कविता बन जाता है। यहाँ याचक तटस्थ साक्षी के रूप में स्वीकार करता है कि वे प्रभु हो या न हो, पर यह सिद्ध हो गया है कि अनासक्त भाव से जब व्यक्ति इतिहास को चुनौती देता है तब ‘उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है।’

“मर्यादा मत छोडो  
तोड़ी हुई मर्यादा  
कुचले हुए अजगर—सी  
गुजलिका मे कौरव वश को लपेट कर  
सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी”

(‘अधायुग’—‘प्रथम अक’— वही —पृष्ठ—366)


विदुर के चरित्र का उपयोग सारे नाटक में विवेक चेतना के रूप में किया गया है, जिसकी अवहेलना की जाती रही है। घृतराष्ट्र के यह कहने पर

कि—‘जीवन मे’ प्रथम बार आज मुझे आशका व्यापी है।’ विदुर ने कहा कि यह आशका वर्षों पहले सबको व्यापी थी। इसी अन्त पुर मे आकर कृष्ण ने ‘मर्यादा न तोड़ने’ के लिए कहा था।

“मर्यादा युक्त आचरण मे  
नित नूतन सृजन मे  
निर्भयता के  
साहस के  
ममता के  
रस के  
क्षण मे  
जीवित और सकिय हो उठौंगा मैं बार—बार”

(‘अधायुग’— ‘प्रभु की मृत्यु’—वही—पृष्ठ—454)

व्यक्ति के रूप मे कृष्ण सबकी ईर्ष्या और आकोश के कारण हैं, पर जिन जीवन मूल्यो का सन्दर्भ कृष्ण उपस्थित करते हैं वे काम्य हैं। कृष्ण ने आदर्श और यथार्थ को जिस समन्वित रूप मे लिया है, वह उनके मृत्यु पूर्व दिये गये इस वक्तव्य मे मुखरित हुआ है। मर्यादा और रस रूप को घुलाकर ही ऐसी चरित्र रचना सभव है। ‘मर्यादा युक्त आचरण’ और ‘रस के क्षण’ के बीच जो द्वैत कभी—कभी उभरता है, कवि उसे खुला और अनुत्तरित छोड़ देता है। और इसी में कृष्ण के चरित्र का शाश्वत आकर्षण है।



‘दूसरा सप्तक’ के कवि उस सकमण रेखा पर खड़े हैं जहाँ प्रयोगवाद का पर्यवसान और नयी कविता के क्षितिज का उद्घाटन हो रहा है। ‘दूसरा सप्तक’ के सातो कवियों को नयी कविता की शीर्षस्थ कवियों के रूप में देखा और स्वीकार किया गया। किन्तु यह सकमण कोई कान्तिकारी और परस्पर विरोधी परिदृश्य नहीं प्रस्तुत करते। ‘दूसरा सप्तक’ के सम्पादक वही अज्ञेय हैं जिन्होंने ‘तारसप्तक’ का सम्पादन किया था, और जिनके नाम पर प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तन का दायित्व मढ़ा गया। ‘दूसरा सप्तक’ के कवि प्रयोगशील काव्यधारा की प्रवहमानता के उतने ही बड़े वाहक हैं, जितनी ‘नयी कविता’ की जमीन के निर्माता। अज्ञेय दोनों से समान गहराई से जुड़े हुए हैं।

‘दूसरा सप्तक’ की कविताएँ और उनके रचयिता कवि अपनी सर्वाधिक विशिष्टता की पहचान अपनी काव्य-भाषा के माध्यम से कराते हैं। इस शोधप्रबन्ध की तैयारी के क्रम में बार-बार जिस विशिष्टता ने शोधकर्ता को प्रभावित और अभिभूत किया वह इन कवियों की काव्य-भाषा ही थी। काव्य-भाषा के कितने आयाम इन कवियों की काव्य यात्रा में खुलते हैं, वह किसी भी सजग पाठक को चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं। यो तो ‘दूसरा सप्तक’ की भूमिका में ही अज्ञेय ने सर्वाधिक बल कविता की भाषा पर ही दिया है, किन्तु ये कवि स्वयं अपनी कविता की भाषा इनती शिद्दत से और मौलिक सर्जनात्मक प्रयास से निर्मित करते हैं कि पाठक इस नयी कविता भाषा को स्वायत्त करने में बहुत गहरी पाठकीय क्षमता का और ग्रहणशीलता की जरूरत महसूस करता है।

अलग-अलग कवियों की काव्य-यात्रा, अलग-अलग भाषिक बनावट का, अलग-अलग भाषिक सौन्दर्य बोध का, अलग-अलग सवेदनाओं को चरितार्थ करने की क्षमता का परिचय देती है। नरेश मेहता की काव्य-भाषा अपनी प्रारम्भिक कविताओं के दौर से ही एक नये प्रकार के वैदिक शब्दावली और

औपनिषदिक बिम्ब लोक की तलाश प्रारम्भ कर देती है। 'दूसरा सप्तक' की कविताओं में ही 'जन-गरबा-चरैवेति' अथवा 'उषस अश्व की वल्ना' अथवा 'उषस्' श्रृंखला की कविताएँ हमे नरेश मेहता के काव्य-भाषा की आगामी रुझान की ओर सकेत करती हैं। 'उत्सवा' तक आते-आते नरेश मेहता उस नयी काव्य भाषा की सिद्ध प्रयोक्ता बन जाते हैं। 'उत्सवा' की प्रत्येक कविता में हमे एक नयी आभा दिखती है और जैसे एक ललछौही आभा के बीच प्राची का सूर्योदय होता है वैसे ही नरेश मेहता के काव्य बिम्ब नयी-नयी आभा के साथ पाठक की चेतना के समक्ष प्रकट होते हैं। कवि अपनी चेतना को उस ब्रह्माण्डीय धरातल पर ले जाता है जहाँ वह एक सर्वथा चमत्कारी भाषा लोक का आविष्कर्ता बन जाता है। 'उत्सवा' की अनेक कविताएँ जैसे 'लीला भाव' 'प्रार्थना-धेनुएँ' आदि इसी औपनिषदिक बिम्ब लोक को चरितार्थ करने वाली भाषा का उदाहरण हैं।

नरेश मेहता की काव्य भाषा का दूसरा आयाम उनकी कविता में इतिहास लोक से जुड़ी हुई अनुगृंजों से सम्बन्ध रखती हैं। 'पिछले दिनो नगे पैरो' जैसे कविता सकलन हमे इतिहास के सूने खण्डहरों और गलियारों में ले जाते हैं जहाँ भाषा और अनुभूति एक तान हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं। भाषा की इस औपनिषदिकता और ऐतिहासिकता की अपनी विशिष्टि छवियों के साथ नरेश मेहता एक समर्थ और विशिष्ट भाषा के कवि के रूप में हमारे समक्ष उभरते ही चलते जाते हैं।

दूसरे विशिष्ट कवि रघुवीर सहाय हैं। उनकी सम्पूर्ण काव्य-यात्रा से गुजरना भाषा की सर्जनात्मकता की नयी वीथियों से गुजरना है। भारतीय जन के सामान्यतम् प्रतिनिधि के रूप में रघुवीर सहाय अपनी कविता का नागरिक बनाते हैं और उसे नयी नयी व्यजनाओं से लैश करते जाते हैं। उनका 'हरचरना' भारतीय जन का एक सामान्यतम् प्रतिनिधि है। जिसके माध्यम से भारतीय गणतन्त्र की महिमा या महिमाशून्यता को पहचाना जा सकता है।

रघुवीर सहाय ने साहित्य और पत्रकारिता को एक दूसरे में सक्रिय करने की आजीवन साधना की है। कविता में उनका पत्रकार कितनी सहजता से अपनी पूरी रचनात्मकता को लेकर आ जाता है यह देखते ही बनता है। उनके काव्य सकलनों 'सीढ़ियों पर धूप में', 'आत्महत्या के विरुद्ध' 'हँसो—हँसो जलदी हँसो', 'लोग भूल गये हैं', 'कुछ पते कुछ चिढ़िद़यों', 'एक समय था'— से गुजरते हुए हम एक सुखद आश्चर्य से भरते चले जाते हैं। कैसे अभिधा लक्षणा में बदलती है और कैसे लक्षणा व्यजना में इसका सम्यक एहसास हमे रघुवीर सहाय की कविताओं से गुजरते हुए होता है। कैसे व्यक्तिवाचक सज्जा जाति वाचक सज्जा और जातिवाचक सज्जा भाववाचक सज्जा बनने लगती है उसका उदाहरण भी हमे रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलता है।

रघुवीर सहाय अपनी भाषा में ही अपनी कविता के राष्ट्र को रचते और बनाते मिटाते चलते हैं। काव्य—भाषा अपनी पूरी साधारणता में दिखते हुए भी कैसे पाठक की चेतना को अत्यन्त गहराई में विचलित करती है इसका अनुभव भी हमे रघुवीर सहाय की कविताओं के माध्यम से होता है।

'दूसरा सप्तक' के तीसरे महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता के लिए एक सर्वथा अलग प्रकार की बुनावट वाली भाषा का विकास किया है। इनकी काव्य—भाषा में एक खास प्रकार की झकृतियाँ, एक खास प्रकार की अनुभूति लयता तथा एक खास प्रकार की स्पर्शिता को चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह न केवल 'दूसरा सप्तक' बल्कि सम्पूर्ण नयी कविता के परिसर में अपनी काव्यानुभूति और उसको वहन करने वाली काव्य—भाषा की विशिष्टता के नाते सभी अन्य कवियों से अलग दिखते हैं। इसीलिए कोई उन्हे 'कवियों का कवि' कहता है और कोई उनकी काव्यानुभूति की बनावट का अत्यन्त विशेषीकृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। शमशेर की काव्य—भाषा अपने ऐन्ड्रिय बोध में अपनी

झकृतियों में विजली की भाति अपनी कौंध और प्रकाश में अपने शब्दों की आवाज और गन्ध में सर्वथा मौलिक लगते हैं। जहाँ वे विल्कुल अभिधा के स्तर पर होते हैं वहाँ भी उनकी कविता एक विशेष झकार से भरी हुई होती है, जैसे 'वाम—वाम—वाम दिशा', 'समय साम्यवादी' आदि।

शमशेर के यहाँ भाषा कभी ध्वनि, कभी प्रकाश, कभी लय, कभी सुर, कभी चित्र, और कभी इन सबका मिला जुला सश्लेष बनकर सामने आती है। यदि इनकी 'दूसरा सप्तक' में सग्रहीत कविताओं से ही प्रारम्भ करे और 'कुछ कविताएँ', 'कुछ और कविताएँ', 'इतने पास अपने' और 'काल तुझसे होड़ है मेरी' सकलनों से गुजरे तो इस यात्रा में भाषा की जो छवियाँ, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता आदि का साक्षात्कार होता है, वह निश्चय ही अभूतपूर्व है। शमशेर कही अपनी कविता का स्वयं सुनते हुए प्रतीत होते हैं, कही अपने ही द्वारा रचे हुए बिस्मों से विमुग्ध होते हुए और कही एक लम्बे अन्तराल में खामोश पड़े दिखते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि शमशेर की कविता शब्दों के बीच के अन्तरालों की कविता है। इन अन्तरालों को हर पाठक अपनी कल्पना और सृजनशीलता के आधार पर भरता है और एक सर्वथा अपना चित्र प्राप्त करता है। साही जैसा प्रबुद्ध आलोचक, बुद्धि से सम्पन्न कवि भी शमशेर बहादुर सिंह के काव्य वैशिष्ट्य से इस कदर अभिभूत होता है कि उनकी काव्यानुभूति की बनावट पर पूरा लम्बा आलेख ही लिख डालता है। कहने को तो कहा जाता है कि शमशेर एक बामपन्थी और कम्युनिष्ट विचार धारा के कवि रहे हैं परन्तु सच्चाई यह है कि शमशेर सही अर्थों में एक सच्चे और विशुद्ध कवि हैं और उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता उनकी काव्य—भाषा, उसका विन्यास और उसकी ध्वन्यात्मकता है। और यह अत्यन्त स्वाभाविक भी है क्योंकि शमशेर की सर्जनात्मक बनावट में सगीत चित्रकला और उर्दू की गजलियत का गहरा योगदान है। शमशेर के काव्य—भाषा की सबसे बड़ी खूबी उसकी मृदुता है।

शमशेर पाठक की चेतना को सहलाते हुए सवेदित करते हैं। साथ ही जैसे उँगुलियो से वीणा के तार को छेड़ने पर नाना प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, शमशेर की कविता पढ़ते समय उन ध्वनियों का हमें बार-बार एहसास होता है। मलयज ने ठीक ही लिखा है— “शमशेर जी के बारे में सोचते समय हमेशा चार्ल्स लैम्ब के एक आत्मपरक निबन्ध ‘ड्रीम चिल्ड्रेन’ की याद आती है कल्पना-निर्मित शिशु, जो यथार्थ की अगुलियो से छूते ही तिरोहित हो जाते हैं शमशेर जी जब अपने बारे में, अपनी काव्य प्रक्रिया के बारे में, देश, समाज, भाषा और रजनीति के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तब वह कल्पना-शिशु अनायास ही जीवित हो उठता है, ऑखो के आगे साक्षात् वही भोला विश्वास, वही-सहज तरलता और यथार्थ की वाह्य आकृतियो से मेलखाती उसकी भावमुद्रा लगता है जो सच और ठोस और यथार्थ करके दीख रहा है वह सब कल्पित है, बनावटी और असहज और यह जो सामने कल्पना की आखो के आगे मूर्तिमान खड़ा है वही एक मात्र सच है। शमशेर जी बात करते रहते हैं (किससे?) और वह कल्पना की आदर्श उदात्त मूरत रग पाती रहती है उसकी भाव मुद्राए अपने भीतर भान अनुभूतियो की तल्ख सच्चाइयाँ छुपाये हुए लगती हैं। उसकी सहजता के पीछे एक गूढ़ नियम झलकता है—ऐसा नियम और इतना क्लासिक सहज, जो कि एक सीधी रेखा को बस एक सीधी रेखा ही बनाये रखने के लिए जरूरी हो— और शमशेर जी शब्दो के रूढ़ अर्थों से मुक्त एक ऐसी दुनिया की रचना करने लगते हैं जो सिर्फ उनकी दुनिया है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे शमशेर जी इस दुनिया की रचना करते हैं सिर्फ अपने को और भी एकाकी करते जाने के लिए? वह कौन सा तत्व है इस दुनिया के बनने की प्रक्रिया मे जो हर शब्द को काव्य शब्द मे बदल देता है और हर काव्य अर्थ को काव्य अर्थ मे? क्या यह एक असभव की दुनिया है?”

(‘बात बोलेगी पर कब’—‘कविता से साक्षात्कार’—मलयज—पृष्ठ—21)

‘दूसरा सप्तक’ के जिन पाच कवियों का विस्तार से अध्ययन इस शोध-प्रबन्ध में किया गया है, उसमें एक कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र की सम्पूर्ण विशिष्टिता ही वस्तुत उनकी काव्य-भाषा की विशिष्टता है। कैसे एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा काव्य-भाषा में बदलती है, इसका भरपूर उदाहरण भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा है। जब वे कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह लिखकर एक कवि बन सकता है तो हमें सहसा विश्वास नहीं होता क्योंकि आधुनिक काव्य-भाषा के सन्दर्भ में बार-बार हमें यही समझाया जाता रहा है कि कविता तभी फलीभूत होती है जब हम उसमें प्रतीक बिम्ब और मिथक के तत्त्वों को सरल या जटिल तरीके से समाविष्ट कर लेते हैं। किन्तु भवानी प्रसाद मिश्र ने इस सम्पूर्ण अवधारणा को ही अपनी काव्य-भाषा में तोड़ दिया। नयी कविता की काव्य-भाषा का जहाँ एक ध्रुव मुक्तिबोध प्रस्तुत करते हैं वही दूसरा ध्रुव भवानी प्रसाद मिश्र प्रस्तुत करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र किस प्रकार शब्द के उस अमूर्त आयाम को निर्मित करते हैं जहाँ शब्द ही शब्द हीनता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और यह शब्द हीनता ही विशेष प्रकार की दूरगामी अनुगौजों को निर्मित करती है। इन्हीं अनुगौजों को हम उनकी ‘गीतफरोश, या ‘सतपुड़ा के घने जगल’ या ‘फूल लाया हूँ कमल के ‘जैसी कविताओं में सुनते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र भाषा की ऋजुता को अपनी जीवन की ऋजुता से प्राप्त करते हैं। उनकी काव्य-भाषा को बिना गाधी जी की दी हुई दृष्टि को समझे नहीं समझा जा सकता है, वह जितनी ऋजु है उतनी ही तपोसाध्य। गाधी की ऋजुता क्या थी? यही कि वे सत्य, अहिसा, अपरिग्रह, निर्भयता और प्रेम को जीवन में साध सके थे। किन्तु यह साधना क्या इतना सरल है? इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा की ऋजुता भी वैसी ही ऋजुता है। इसे साधना गहरे अनुशासन की माग करता है और वह अनुशासन जीवन व्यस्था से ही जन्म ले सकता है इस अर्थ में भवानी

प्रसाद मिश्र एक ऐसी ऋजु काव्य भाषा की अविष्कर्ता रहे हैं जिन्होने भाषा के साथ-साथ अपने जीवन को भी ऋजु और मौलिक सच्चाइयों से सवलित किया है।

काव्य-भाषा की दृष्टि से डा० धर्मवीर भारती अपने पहले की काव्य-भाषा अर्थात् छाया वादोत्तर कविता की भाषा से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। सम्भवत 'दूसरा सप्तक' के कवियों में केवल भारती ही ऐसे हैं, जिनकी भाषा छायावादोत्तर कविता की भाषा का प्रसाद लगती है। भाषा की धारावाहिकता अविच्छिन्न रूप से भारती की कविता में प्रवहमान है। फिर भी भारती एक नयी भाषा अपने लिए गढ़ते हैं और उस भाषा का रचाव कुछ इस प्रकार काव्य में सम्भव हो सका है कि वह पाठक को सबसे अधिक गुदगुदाता है। सस्पर्शिता और प्रवहमानता की दृष्टि से भारती की काव्य-भाषा बेजोड़ है। उनके मन में भाषा को लेकर कोई वर्जना का भाव नहीं है न तो वे उर्दू फारसी की शब्दावली से परहेज करते हैं न तत्सम, सस्कृत शब्दों से उन्हें कोई आपत्ति है। उनके सामने एक ही शर्त है कविता की लय और भाषा का प्रवाह। इस बात को वे ही पाठक अच्छी तरह से समझेंगे जिन्होने पहाड़ी नदियों में बहते हुए प्रश्तर पिण्डों को आपस में रगड़-रगड़ कर सुधर और सुडौल होते हुए देखा है। उनकी भाषा के प्रवाह में अनगढ़ शब्द भी इसी तरह ढलते और सुधर होते चलते हैं। उदाहरण के लिए—

“अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे  
अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे  
अगर मैंने किसी की सास की पुरवाइयों चूमी  
अगर मैंने किसी की मदभरी अगड़ाइयों चूमी  
महज इससे किसी स्वर मुझ पर शाप कैसे हो?”


विश्लेषण करके बताने की जरूरत नहीं है किन्तु 'पाटल' और 'शाप' की तत्समता 'पुरवाइयो' और 'अगडाइयो' की उर्दू भाषा की लयात्मकता का जो नायाब सश्लेष भारती की काव्य-भाषा में सर्वत्र रहा है, वह अपने आप में एक विरल काव्यात्मक उपलब्धि है। भारती के यहाँ भाषा चेरी के रूप में हाजिर है। भाषा की निरायाशता और अद्भुत प्रवहमानता भारती की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। जहाँ अन्य नये कवियों में भाषा एक सायास माध्यम के रूप में दिखती है वही भारती के यहाँ वह पहाड़ी झरने की तरह कल-कल निनाद करती हुई आगे को बहती चली जाती है—

“चूमता आषाढ़ की पहली घटाओ को  
झूमता आता हवा का एक झोका सर्द  
कॉपती मन की मुदी मासूम कलियों कापती  
और खूशबू सा विखर जाता हवा में दर्द”

इस तरह की लहराती हुई काव्यभाषा भारती के काव्य परिसर में जगह-जगह विखरी हुई दिखती है।

किन्तु भारती की काव्य-भाषा एक स्तरीय नहीं है। जहाँ 'दूसरा सप्तक' में सकलित उनकी कविताएँ, 'ठड़ालोहा' और 'सात गीत वर्ष' की उनकी कविताएँ और एक हद तक 'कनुप्रिया' की भी कविताओं की भाषा में यह लय युक्त प्रवाह पाठक को अभिभूत करता है, वही 'अन्धायुग' में भारती एक नया अवतार लेते हैं। रूमानियत का कवि-सहसा युग की गम्भीरतम् समस्याओं पर मनन करता हुआ एक गहरे चितक कवि की भूमिका में उत्तरता है और समाज, राजनीति, युद्ध और सासारिक पुरुषार्थों पर मनन करने वाला एक ऋषि के रूप में पाठक के सामने आर्विभूत होता है और उसी भूमिका में कवि की भाषा एक नया रूप लेती है। चिन्तन की भाषा, भारती की नयी उपलब्धि है। जो अन्धायुग के माध्यम से नयी कविता के पूरे देश और काल पर छा जाती है। भारती को

रुमानियत का फतवा देने वाले सहसा सकते मे आ जाते हैं और उन्हे लगता है कि भारती निश्चित रूप से एक बहुआयामी कवि व्यक्तित्व के स्वामी है और उनकी काव्य—भाषा भी उतनी ही बहुआयामी है। ‘अन्धायुग’ की काव्य—भाषा का सबसे केन्द्रीय आयाम उसकी नाटकीयता है। ‘अन्धायुग’ स्वयं एक नाट्य काव्य है जो भारती का पहला और अन्तिम नाट्य प्रयोग है और हर प्रकार से असाधारण और अतुलनीय है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती की काव्य—भाषा की धारावाहिकता सहसा एक नाटकीय चिन्तन परक भाषा के धरातल पर खड़ी हो जाती है और भारती को सर्वाधिक आधुनिक रचनाकार के रूप मे प्रतिष्ठा देती है।



- 1 दूसरा सप्तक स0 अज्जेय – भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, नयी दिल्ली, छँठा सस्करण—1996
- 2 अज्जेय और तार सप्तक स0 डॉ० सत्य प्रकाश मिश्र— प्रकाशक—इलाहाबाद सग्रहालय, प्रथम सस्करण—1995
- 3 काव्य—भाषा पर तीन निबन्ध स0 डॉ० सत्य प्रकाश मिश्र— लोक भारती प्रकाशन, प्रथम सस्करण—1989
- 4 भाषा और सवेदना डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी— लोक भारती प्रकाशन, तीसरा सस्करण—1981
- 5 नयी कविताये एक साक्ष्य डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी— लोक भारती प्रकाशन, तृतीय सस्करण—1998
- 6 तार सप्तक से गद्य कविता डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी—लोक भारती प्रकाशन, प्रथम सस्करण—1997
- 7 हिन्दी साहित्य और सवेदना का विकास डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी—लोकभारती प्रकाशन, पुनर्मुद्रण—1993
- 8 हिन्दी कविता का वैयक्तिक परिपेक्ष्य डॉ० राम कमल राय—लोक भारती प्रकाशन, प्रथम सस्करण—1981
- 9 नई कविता नई दृष्टि डॉ० राम कमल राय— प्रकाशक—हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद, प्रथम सस्करण—1997
- 10 नई कविता और अस्तित्ववाद राम विलास शर्मा—राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम छात्र सस्करण—1993
- 11 नयी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सतोष तिवारी
- 12 छठवाँ दशक विजय देव नारायण साही — प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद—1987
- 13 कविता से साक्षात्कार—मलयज

- 14 नयी कविता के प्रतिमान लक्ष्मी कान्त वर्मा, भारती प्रेस प्रकाशन, इलाहाबाद
- 15 नये प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मी कान्त वर्मा—लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1996
- 16 कविता के नये प्रतिमान डॉ नामवर सिंह—राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली—1993
- 17 नयी कविता मे युग बोध डॉ मन्जू दूबे—अनुपम प्रकाशन, पटना—1987
- 18 नयी कविता डॉ कान्ति कुमार—मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी—1972
- 19 नयी कविता—सीमाएँ और समस्याएँ गिरिजा कुमार माथुर—1966
- 20 नया हिन्दी काव्य डॉ शिव कुमार मिश्र — 1962
- 21 व्यग्य कथा, व्यग्य कथो स० श्याम सुन्दर घोष — सत्साहित्य प्रकाशन दिल्ली—प्रथम संस्करण—1983
- 22 नयी कविता—नया मूल्याकन डॉ प्रेमशकर — 1988
- 23 सप्तक काव्य डॉ अरविन्द — मैकमिलन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड—1976
- 24 सप्तक त्रय आधुनिकता एव परम्परा — डॉ सूर्य प्रकाश विद्यालकार—शलभ बुक हाउस, मेरठ ।
- 25 प्रतिनिधि कविताएँ स० सुरेश शर्मा — राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण—1994
- 26 कबीर डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी — हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई—1964
- 27 आधुनिक हिन्दी कविता मे बिन्ब विधान केदार नाथ सिंह—भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली—1971

- 28 आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ० बच्चन सिंह-लोकभारती प्रकाशन—सशोधित सस्करण—1999
- 29 रघुवीर सहाय का कवि कर्म सुरेश शर्मा, पीपुल्स लिटरेसी प्रथम सस्करण—1981
- 30 रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्य—भाषा डॉ० अनन्त कीर्ति तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी—1996
- 31 सीढ़ियों पर धूप मे (1960) रघुवीर सहाय
- 32 आत्महत्या के विरुद्ध (1967) रघुवीर सहाय
- 33 हँसो—हँसो जल्दी हँसो (1975) रघुवीर सहाय
- 34 लोग भूल गये हैं (1982) रघुवीर सहाय
- 35 कुछ पते कुछ चिठ्ठियाँ (1989) रघुवीर सहाय
- 36 एक समय था (1995) रघुवीर सहाय
- 37 प्रतिनिधि कविताएँ (रघुवीर सहाय) स०—सुरेश शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली—1994
- 38 भारती का काव्य रघुवश (स० इन्द्रनाथ मदान)—दि मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड प्रथम सस्करण—1980
- 39 धर्मवीर भारती स० प्रभाकर श्रोत्रिय — आयाम प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम सस्करण—1992
- 40 आजकल (भारती प्रसग) अगस्त 2002— सम्पादक—सुभाष केड़िया
- 41 रडा लोहा (1952) डॉ० धर्मवीर भारती
- 42 सात गीत वर्ष (1959) डॉ० धर्मवीर भारती
- 43 कनुप्रिया · डॉ० धर्मवीर भारती
- 44 सपना अभी भी (1993) डॉ० धर्मवीर भारती
- 45 अधायुग (1954) डॉ० धर्मवीर भारती

- 46 धर्मवीर भारती ग्रन्थावली (भाग—तीन) स0 चन्द्रकान्त बादिवडेकर, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम सस्करण—1998
- 47 नरेश मेहता का काव्य, विमर्श और मूल्याकन श्री प्रभाकर शर्मा, पचशील प्रकाशन, जयपुर—1979
- 48 कवि श्री नरेश मेहता और उनका काव्य डॉ० विष्णु प्रभा शर्मा
- 49 नरेश मेहता का काव्य प्रवृत्ति विश्लेषण श्री प्रभाकर शर्मा
- 50 आधुनिकता से आगे—नरेश मेहता डॉ० मीरा श्रीवास्तव लोक भारती प्रकाशन
- 51 नरेश मेहता—कविता की उर्ध्व यात्रा डॉ० राम कमल राय—लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद ।
- 52 नरेश मेहता—एकान्त शिखर डॉ० प्रमोद त्रिवेदी—लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद
- 53 वनपाखी सुनो (1957) नरेश मेहता
- 54 बोलने दो चीड़ को (1961) नरेश मेहता
- 55 मेरा समर्पित एकान्त (1963) नरेश मेहता
- 56 उत्सवा (1979) नरेश मेहता
- 57 तुम मेरा मौन हो (1982) नरेश मेहता
- 58 अरण्या (1985) नरेश मेहता
- 59 आखिर समुद्र से तात्पर्य (1988) नरेश मेहता
- 60 देखना एक दिन (1990) नरेश मेहता
- 61 पिछले दिनों नगे पैरो नरेश मेहता
- 62 सशय की एक रात (1962) नरेश मेहता
- 63 महाप्रस्थान (1975) नरेश मेहता
- 64 प्रवाद पर्व (1977) नरेश मेहता

- 65 शबरी (1977) नरेश मेहता
- 66 शमशेर कवितालोक जगदीश माथुर—राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982
- 67 शमशेर प्रभाकर श्रोत्रिय — साहित्य अकादमी — 1997
- 68 कवियों का कवि शमशेर डॉ रजना अरगडे—वाणी प्रकाशन नई दिल्ली—1988
- 69 शमशेर की कविता नरेन्द्र वशिष्ठ वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली—1980
- 70 कुछ कविताएँ (1959) शमशेर बहादुर सिंह
- 71 कुछ और कविताएँ (1961) शमशेर बहादुर सिंह
- 72 चुका भी हूँ मै (1975) शमशेर बहादुर सिंह
- 73 इतने पास अपने (1980) शमशेर बहादुर सिंह
- 74 उदिता (आभिव्यक्ति का सघर्ष)(1980) शमशेर बहादुर सिंह
- 75 बात बोलेगी, हम नहीं (1981) शमशेर बहादुर सिंह
- 76 काल तुझसे होड़ है मेरी (1988) शमशेर बहादुर सिंह
- 77 प्रतिनिधि कविताएँ (शमशेर बहादुर सिंह स0 नामवर सिंह—राजकमल प्रकाशन — नई दिल्ली
- 78 भवानी प्रसाद मिश्र काव्य की भाषा डॉ सतोष कुमार तिवारी
- 79 हिन्दी अनुशीलन भारतीय हिन्दी परिषद् का त्रैमासिक मुख्य—पत्र, सयुक्ताक, सितम्बर—दिसम्बर—1998
- 80 भवानी प्रसाद मिश्र और उनका काव्य डॉ प्रभा
- 81 भवानी प्रसाद मिश्र स0 सुरेश चन्द्र त्यागी
- 82 भवानी प्रसाद मिश्र व्यक्तित्व एव कृतित्व राजकुमारी गडकर
- 83 भवानी भाई स0 प्रेम शकर रघुवशी
- 84 समकालीन सृजन स0 लक्ष्मण केडिया
- 85 गीत फूरोश (1956) भवानी प्रसाद मिश्र

- 86 चकित है दुख (1968) भवानी प्रसाद मिश्र
- 87 अधेरी कविताएँ (1968) भवानी प्रसाद मिश्र
- 88 गाधी पचशती (1970) भवानी प्रसाद मिश्र
- 89 बुनी हुई रस्सी—(1971) भवानी प्रसाद मिश्र
- 90 खुशबू के शिला लेख (1973) भवानी प्रसाद मिश्र
- 91 व्यक्तित्व (1974) भवानी प्रसाद मिश्र
- 92 परिवर्तन जिए (1976) भवानी प्रसाद मिश्र
- 93 अनाम तुम आते हो (1976) भवानी प्रसाद मिश्र
- 94 इद न मम (1977) भवानी प्रसाद मिश्र
- 95 कालजयी (1980) भवानी प्रसाद मिश्र
- 96 शरीर, कविता, फसले और फूल (1980) भवानी प्रसाद मिश्र
- 97 मान सरोवर दिन (1980) भवानी प्रसाद मिश्र
- 98 सम्प्रति (1980) भवानी प्रसाद मिश्र
- 99 नीली रेखातक (1984) भवानी प्रसाद मिश्र
- 100 ये कोहरे मेरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र
- 101 त्रिकाल सन्ध्या भवानी प्रसाद मिश्र
- 102 तूस की आग भवानी प्रसाद मिश्र